

## **BHAVAN'S LIBRARY**

This book is valuable and  
NOT to be ISSUED  
out of the Library  
without Special Permission

SĀRADĪYĀKHYA-NĀMAMĀLĀ  
OF  
HARSAKIRTI

*Sources of Indo-Aryan Lexicography*

6

ŚĀRADĪYĀKHYA-NĀMAMĀLĀ  
OF  
HARŞAKIRTI

CRITICALLY EDITED BY  
M. M. PATEKAR

DECCAN COLLEGE  
Postgraduate and Research Institute  
POONA

ŚĀRADĪYĀKHYA-NĀMAMĀLĀ  
OF  
HARSAKĪRTI

CRITICALLY EDITED BY  
**MADHUKAR MANGESH PATKAR, B.A., PH.D.**  
Department of the Dictionary of Sanskrit,  
Deccan College Postgraduate and Research Institute, Poona.

३२५१४  
८८५२



POONA  
1951

*, CODE No. 1 L. 23*

First Edition, 1000 Copies, June 1951

*Price Rs. 5*

*All Rights Reserved*

Pp. 1-47—Printed at the Poona University Press, Ganeshkhind, Poona  
Preface, Introduction and Glossary printed at the Samarth Bharat Press, P  
*Published by—Dr S. M. Katre for the Deccan College  
Postgraduate and Research Institute, Yerwada, Poona 6,*

## PREFACE

It gives me great pleasure to present to the world of scholars the present edition of the *Sāradīyākhyānamamālā* of Paṇḍitūcchala after my edition of the *Anekārthatulaka* of Malipa published in the same Series in 1947. The work of preparing a critical edition of the *Sāradīyākhyānamamālā* was entrusted to me in the year 1950 by Dr. S. M. KATRE, Director of the Deccan College Research Institute, Poona, for being included in the Institute's Series called the 'Contributory Studies towards A Dictionary of Sanskrit on Historical Principles' in general and the 'Sources of Indo-Aryan Lexicography' in particular. I started my work on the critical edition of the *SN* soon after it was entrusted to me by piecing five manuscripts of the work—four from the Government Manuscripts Library at the Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona and one from the Manuscripts Library of the Deccan College Research Institute and having worked at it at different intervals, submitted to the Institute my press-copy early in January 1951. I am glad that the work is now available in print without any delay.

Before concluding the preface it is my pleasant duty to acknowledge with gratitude the help I received from several persons in bringing out this volume. In this connection my thanks are due to Dr. S. M. KATRE, for giving me an opportunity to edit for the second time a lexicographical work in the 'Sources of Indo-Aryan Lexicography' Series undertaken by the Institute. I am also thankful to Prof. P. K. GODE, M.A., Curator, Bhandarkar Oriental Research Institute, Poona, for the loan of the four manuscripts of the *SN* from the Government Manuscripts Library, and to Dr. R. G. HARSHE, D.LITT. (Paris), Registrar, Deccan College Research Institute, for allowing me the use of one manuscript of the work from the Institute's collection of manuscripts. I must also thank Miss Suman N. DHAYALE, G.A., but for whose help in the irksome task of preparing the glossary appended to the text, it would not have been possible for me to complete my press-copy so early. Lastly, I have to put on record my sincere thanks to Pt. K. V. K. SHARMA, Vyākaraṇavidvān, my colleague in the Sanskrit Dictionary Department,

for helping me in correcting the proofs with valuable suggestions at times and to Mr. S. R. PARANJPE, the enthusiastic Manager of the Poona University Press for the prompt and efficient printing of this work. The Samartha Bharat Press, Poona, also deserves my thanks for the printing of the preliminary portion and the glossary.

D. C. P. and R. Institute,  
POONA, 6  
7th April 1951 } }

M. M. PATKAR

## INTRODUCTION

The *Sāradīyākhyānamālā* or *Sāradīyābhādhānamālā*, as it is sometimes called, is a glossary of synonymous words and is divided into three kāndas, each of which is again sub divided into different vargas. Thus the first kānda is divided into 1 *devavarga*, 2 *vyomavarga* and 3 *dharavarga* the second is divided into 1 *aṅgavarga*, 2 *samyogdīvarga*, 3 *samgītavarga* and 4 *panditavarga*. The last kānda is divided into 1 *brahmavarga*, 2 *rājavarga*, 3 *vaiśyavarga*, 4 *śūdravarga*, and 5 *samkīrnnavarga*. The whole work consists of about 465 stanzas.

### *The Author*

The author of the work belonged to a Jain sect, his name being Harsakīrti. He was a High Priest belonging to the *Nāgapurīyatapāgaccha* branch of the Jain priests,<sup>1</sup> and was the pupil of Candrakīrti, who was highly honoured by emperor Jehangir of Delhi, who ruled from A.D. 1545 to 1553. In his praśasti to the *Dhātupathataranigraha*, Harsakīrti gives the following list of persons in his line who were honoured by royal personages —

1. Jayaśekhara, honoured by Hammira (1301–1365 A.D.)
2. Vajrasena, honoured by Allāvadī<sup>2</sup> (1295–1316 A.D.)
3. Ratnaśekhara, honoured by Perojsbāh (1351–1388 A.D.)
4. Hamsakīrti, honoured by Sikandara Shah, probably Sikandar Shah Lodi<sup>3</sup> (1488–1518)
5. Anandatāya, obtained the title Rāya from Humayun (1530–1540)
6. Candrakīrti, teacher of Harsakīrti, who wrote the present work.  
Candrakīrti was honoured by Shah Salem or Jehangir (1545–1553)
7. Padmasundaragani, honoured by Akbar (1556–1605)
8. Pacca, honoured by a Hindu king named Mālađeva, who was the ruler of Yodhapura i.e. modern Jodhpur. R. G. BHANDARKAR states that Mālađeva was a prince of the Rāthod family which ruled at Jodhpur from A.D. 1532 to 1583.<sup>4</sup>

### *Harsakīrti's Works and Date*

Harsakīrti was a versatile writer and wrote on different subjects such as grammar, medicine, astrology and so on. Most of his writing

1. Cf. the colophon to the author's *Dhātupathafalika* which reads as follows —

इति धीमत्तामपुरीयत्पागल्लाधिष्ठ महाराज-धीर्घकीर्तिसूरि-

विरचितं स्वोपस्थातुराठवियरणं सम्पूर्णम् । etc.

2. R. G. BHANDARKAR is inclined to identify Allāvadī with Alauddin Khilji. See *Report for 1882–83* p. 43.

3. Ibid.

4. Ibid., p. 44.

exists in the form of commentaries although the composition of original treatises is also ascribed to him. The following are some of the works attributed to Harsakirti :—

1 *Bṛhacchāntistotratikā*; (composed in samvat 1655)<sup>6</sup>; 2 *Kalyāṇa mandirastotraṭikā*; (Ms. of samvat 1635)<sup>7</sup>; 3 *Sindūraprakaranaṭikā* 4 *Sārasvatatadīpiṭikā*; 5 *Seṭanitkārikāvivecarana* (composed in samvat 1669) 6 *Dhātupāṭhaṭataraṅgiṇī*; 7 *Dhātupāṭhabhāvivaraṇa*; 8 *Sāradīyākhyānamālā*; 9 *Śrutabodhiṭikā*; 10 *Yogacintāmani*; 11 *Vaidyakasāroddhāra*; 12 *Jyotiḥśāstra*<sup>8</sup>; and 13 *Jyotiṣīśāroddhāra*<sup>9</sup>.

Another work on lexicography viz. *Śabdānekārtha* is also attributed to Harsakirti<sup>10</sup>. In verse 34 on folio 85<sup>b</sup> of the India Office manuscript of this work it is stated that the glossary was composed by Harsakirti in samvat 1665 which corresponds to A.D. 1607. This verse reads as under:

पाण्डवरसगम्भी तु १६६५ पैषं तत्त्वम् मासि च ।  
राजायां हर्षकीर्याद्यनुरिध्नेऽसती मते ॥

Scholars differ in their opinion concerning the date of Harsakirti. According to WEBER<sup>11</sup> Harsakirti, the author of the *Sāradīyākhyānamālā*, lived towards 'the end of the sixteenth century'. BELVALKAR<sup>12</sup> assigns the date 'circa 1560 A.D.' to Harsakirti, probably relying on the fact that Harsakirti was a pupil of Candrakirti who was honoured by Salimshah alias Jehangir who ruled from A.D. 1545 to 1553. Judging, however, from the works ascribed to Harsakirti in the above list we are inclined to assign Harsakirti a period 'between A.D. 1575 to 1625' for his literary activity. From the list of works ascribed to Harsakirti we come to know that he composed the *Bṛhacchāntistotratikā* in samvat 1655 i.e. A.D. 1597, and the *Seṭanitkārikāvivecarana* in samvat 1669 or A.D. 1613.

5. M. D. DESAI in his 'Jain Gurjar Kāntō' (vol. 1, p. 470) records the following information about Harsakirti, the pupil of Candrakirti and his works —

"पार्थचन्द्रगद्युतना राजवन्दनम् ॥ (जना सं. १६०६; बाचार्य सं. १६२६; स्व. १६६९) जा राजवन्दन राजरत्नसूरीरिष्टय गद्युतोन्मुक्तार हता. तेना लिप्या वा हर्षकीर्याद्यनुरिध्नेऽसती मते । युक्ता नामनी सारस्वतग्रन्थाकरणनी दीक्षा, नवहस्तग्रन्थो दीक्षा, शिन्दुप्रकटाका, सारदायाख्यानमालाभोग, चाहुनरदितीयो, योगचन्द्रामणि, वैद्यकारोद्धार, वैद्यनगारसमग्रह, भृत्योभृति, तिजयपूर्ण अन्ते वृद्धसामान्यार वृत्तिशो तेमन् सं. १६११ मात्र अविन्दकारिकाविवरण अने सं. १६६८ मात्र कल्पागमनिरस्तारद्वाति आदि अनेक प्रस्तुती सहजनामी रख्या छे ॥"

6. R. MITRA: *Notices*, No. 3059.

7. BBRAS. Des. Cat. No. 1801.

8. Cat. Cat. I. 763<sup>b</sup>.

9. Ibid.

10. Vide I.O. Cat. No. 5173.

11. T. ZACHARIAS: *Indischen Wörterbücher*, 37

12. *Systems of Sanskrit Grammar*, 103.

It is also stated that a manuscript of *Nyāyatāra* was copied for him in samvat 1635 i.e. A.D. 1579.

It will be seen from the foregoing remarks that Harsakīrti must have already commenced his literary studies in A.D. 1579 when he got a manuscript of *Nyāyatāra* copied for his use. It is also evident that his literary activity continued at least up to A.D. 1613 when he wrote his commentary on the *Sejanīthārikā*. I am, therefore, inclined to assign a period of about fifty years roughly from A.D. 1575 to A.D. 1625 to the literary activity of Harsakīrti.

### *Manuscript material .*

The present edition of the *Sāradiyākhyānāmālā* is based on five manuscripts, four from the Government manuscripts Library at the Bhandarkar Oriental Research Institute, designated as *B<sub>1</sub>* (= No. 1409 of 1887-91), *B<sub>2</sub>* (= No. 281 of 1873-74), *B<sub>3</sub>* (= No. 1382 of 1884-87) and *B<sub>4</sub>* (No. 780 of 1875-76). The fifth manuscript designated as *D*, belongs to the Deccan College MSS. Library. This manuscript being very corrupt had to be rejected after the 75th stanza of the second Kānda. All the manuscripts are written in Devanāgarī characters and with the exception of *B<sub>3</sub>*, are dated as follows —

*B<sub>1</sub>*—samvat 1760, *B<sub>2</sub>*—samvat 1792 and *D*—samvat 1723. Unfortunately none of the five manuscripts utilized for this edition is complete and in some cases the readings had to be fixed with the help of the readings found in other lexicons.

हर्षकीर्तिविरचिता

## शारदीयाख्यनाममाला

ॐ नमः ॥

प्रणम्य परमामान सच्चिदानन्दमीथरम् ।  
प्रस्ताम्यहं नाममाला मालाभिर् मनोराम् ॥ १ ॥

वारदेवी शारदा ब्राह्मी भारती गीः सरस्वती ।  
हसयाना प्रभापुत्री सा सदा वरदास्तु नः ॥ २ ॥

विनायकः पर्णुपाणिर्क्षिराजो गजाननः ।  
द्वैमातुर् एकदन्तो लम्बोदरगणाधिष्ठौ ॥ ३ ॥

गौरीसुतथ देवस्तथा मूरकवाहनः ।  
कार्यारम्भेऽु सर्वेऽु सिद्धिबुद्धिप्रदोऽस्तु सः ॥ ४ ॥

परमामा परब्रह्म परं ज्योतिर्गोचरः ।  
निरञ्जनधिरानन्दः परम परमेश्वरः ॥ ५ ॥

देवाधिदेवः सर्वज्ञो वीतरागो जिनेश्वरः ।  
तीर्थकरो जगन्नाथो जिनोऽर्हन्मगवन्प्रभुः ॥ ६ ॥

सुगतः श्रीघनो सुद्धो चेष्टिसत्त्वस्तथागतः ।  
द्रव्यादी दशवलो जिनः सौ[शी]द्वौरनिर्मुनिः ॥ ७ ॥

5

10

The references in the critical apparatus are to the manuscript numbers

1 B1.2 missing B3 अभिदिक्षी - d) D1 missing मालाभिर्.

2 B1.2 missing - d) B4 adds (in marg sec m ) सरिशी शारदा

3 B1.2 missing - b) B4 (marg sec m ) गणापि for गणान् - c)  
D1 द्वैमातुर् - d) B4 (marg sec m ) गणान् for गणापि .

4 B1.2 missing - d) B4 न for न .

5 B1.2 missing

6 B1.2 missing - d) D1 missing गर्हन्

7 B1.2 missing - a) D1 शीक्षो द्वौ

- 15 महा प्रजापतिः सदा विविर्भाः पितामहः ।  
दिरण्यगर्भो दुष्टिः परमेष्ठी चतुर्मुहाः ॥ ८ ॥
- धाता विधाता लोकेशो विशिर्भिर्धस्तद्भुवः ।  
सुरज्येष्ठ कमलभूः स्वयंभूर्नामिभूरजः ॥ ९ ॥
- पश्चानाभादियोनिः क आत्मभूः कमलासनः ।  
तःपुत्रो नारदो वीणायुतो हसक्ष वाहनः ॥ १० ॥
- श्रीपतिः केशनः फृणो गोविन्दो माधवोऽन्युतः ।  
दामोदरो देत्यरिपुविष्णुर्नारायणो हरिः ॥ ११ ॥
- जनर्दनधकपाणिर्गंभुदेवथथुर्मुजः ।  
उपेन्द्र उण्डरीजाक्षो मुरारिः पुस्पोत्तमः ॥ १२ ॥
- पीताम्बरः पश्चानभो सुकुन्दो मधुसदूनः ।  
विश्वंभरो विश्वरूपो विश्व[व्य]स्तेनो वृषाक्षपिः ॥ १३ ॥
- यदुनायो हर्षीकेशः शौरिः शीतसलाञ्छनः ।  
वैकुण्ठ इन्द्रापरजो वनमाली त्रिविक्रम ॥ १४ ॥
- अविष्णशारी शेषशारी श्रीधरो गरुडम्बजः ।  
जलशारी यज्ञगूर्ध्य [तिः] पुराणपुरुषः स्वभूः ॥ १५ ॥
- अथोक्तजः वैटगजिद्वलिभिर्दिष्टश्रवा ।  
देवकीनन्दनः शार्ही कस्तारितरकान्तकर् ॥ १६ ॥

8 B1 2 missing

9 B1,2 missing

10 B1 2 missing - c) D1 गाणीमुहाः for वीणापुत्रो - d) B3 वादा for वादन् .

11 B1 2 missing

12 B1 2 missing

13 D1 missing विश्वरेती

14 B2 missing

15 B2 missing

16 B2 missing - d) D1 चलिभिर्दि (?) for चलिभिर्

गदाधरकथकधो गोवर्धनधरो विघुः ।	
गोपीप्रियो गिरिधरः स्यामो गरुडवाहनः ॥ १७ ॥	
यशोदातनयो राधावल्लभो नन्दनन्दनः ।	35
विहृतो मोहनः कुञ्जविहारी द्वारकेश्वरः ॥ १८ ॥	
महेश्वरो महादेवः श्रीकण्ठः शंकरः शिवः ।	
उप्रः शूली मृडः शंसुस्त्र्यम्बकथनदशेखरः ॥ १९ ॥	
रुद्रखिलोचनः शर्वः स्पार्षुगङ्गाधरो हरः ।	
ईशान ईशो गिरिशो गिरिशः प्रमथायिः ॥ २० ॥	40
मृत्युंजयः पद्मापति. कृतिग्रासाः कपालभृत् ।	
वामदेवो भग्ने भर्गः पिनाकी वृषभध्वजः ॥ २१ ॥	
ब्योमकेशा. क्रतुघंसी भूतनाय उमापतिः ।	
अष्टमूर्तिनीलकण्ठः पुरभिनीललोहितः ॥ २२ ॥	
पण्डः कपर्दी सर्वज्ञो धूर्जटिखिपुरान्तकः ।	45
कृशानुरेता दिव्यासा अन्थकारिविषान्तहृत् ॥ २३ ॥	
प[ख]०८८पर्शुर्विरुद्धाक्षो वरदो भाललोचनः ।	
इन्द्रुमौलि. स्मरारिश मीमो वृषभवाहनः ॥ २४ ॥	
लक्ष्मीः श्रीः कमला पद्मा मा रमा कमलालया ।	
इन्दिरा हरिपत्नी सा लोकानाम्बिनिदिनी ॥ २५ ॥	50

17 B2 missing.

18 B2 missing.

19 B2 missing.

20 B2 missing -a) B1 शीर्द

21 B2 missing

22 B2 missing

23 B2 missing -a) B1D1 राज्ञ for राज्ञः

24 B2 missing.

25 B2 missing -b) D1 राज्ञः

ईश्वरी पार्वती गौरी भवानी हिमगंगसुता ।  
उगा शिवाम्बिका दुर्गा काली कालायनीश्वरा ॥ २६ ॥

स्त्राणी चण्डिका चण्डी भूडानी मैनाकस्त्रसा ।  
आरणीर्या सनी देवी गिरिजा सर्वेष्ठाः ॥ २७ ॥

५६

दाक्षायणी च शर्वाणी गदामाया महेश्वरी ।  
मैरवी भूतनाया च शंकरी सिंहवाहना ॥ २८ ॥

अनङ्गो मदनः कामो मारः पश्चदरः रमरः ।  
मनोभनो रतिपतिर्मनसो गमत्रष्वजः ॥ २९ ॥

पुष्पधन्वा मनसिजः कन्दपो विपमायुध ।

६०

सम्भरारिः सूर्यगार्दिर्देविको भीनकेतनः ॥ ३० ॥

अनन्यजो यथुसखः प्रयुक्त खुसुगायुधः ।  
शृङ्खारयोनिः पुष्पेतुः संकल्पात्मा रमायुतः ॥ ३१ ॥

हृष्टयः कमनः कन्तुर्जरामीरुक्ष तच्छरा ।  
मोहनोन्मादनौ शोपणक्ष तापनमारणौ ॥ ३२ ॥

६५

कार्त्तिकेयो युहः स्कलः सेनानीः पार्वतीयुतः ।  
पाण्मातुरो महासेनः पण्मुखः शिखिवाहनः ॥ ३३ ॥

शरजन्मामिभूः स्वामी विशाखः कौष्मेदनः ।  
तारकारिः शक्तिधरः कुमारो बहुलात्मजः ॥ ३४ ॥

26 B3 missing.

27 B2 missing

28 B2 missing. D1 missing महेश्वरी मैरवी भूतनाया -d) B3 4 शक्ती  
for शक्ती

29 B2 missing -b) B1 रुग्न for रमर

30 B2 missing D1 missing महरारि भूर्णकारि

31 B2 missing

32 B2 missing -d) B4 (also marg sec m.) D1 गाढन् for तापन

33 B2 missing -c) D1 पण्मातुरः

34 B2 missing -b) B3 4 कौष्मेदनः, D1 missing कौञ्चेदनः.

विशुधा देवता देवाखिदशा निर्जराः सुरा ।  
आदित्या मरुतो लेखा निलिम्पः नाकिनोऽभरा ॥ ३५ ॥ ७०

षृन्दारका सुमनस सुपर्वाण सुधाभुज ।  
प्रिदिवेशा आदितेया अमर्या दानगरय ॥ ३६ ॥

दिवौऽसो दिविष्पदो गीर्णिणा अमृताधस ।  
अस्वप्ना ऋभनो वर्हिसुखाः क्रतुभुजोऽरुज ॥ ३७ ॥

स्य स्वर्गं प्रिदिव नाक सुरलोकस्तिविष्टम् ।  
सुराल्यथोर्ध्वलोको धौर्गस्तिविष्टवै ॥ ३८ ॥

इन्द्र पुरुट शक्तो वासव पाकशासन ।  
सक्रदन सहस्राक्ष सुत्रामा मधगा शृणा ॥ ३९ ॥

आखण्डल सुनासीर पुरुहूत शतकतु ।  
दिवस्पतिर्दुश्च[स्थ्य]नो जम्भाराति शाचीपति ॥ ४० ॥ ८०

जिष्युर्दृदशगा वशी विढौजा नाकनायकः ।  
बलाराति सुरपतिर्महत्वान्मेघवाहन ॥ ४१ ॥

प्राचीनवर्हिष्पदवाश्शतमन्यु सुर्व्यम ।  
ऋभुक्षा नमुचिद्दिद्व च शृत्रहा कौशिको हरि ॥ ४२ ॥

वास्तोप्यतिस्तुरापाद च पुलोमार्मिरुसख ।  
गोप्रमेदी हरिहयो देवराजोऽस्य तु प्रिया ॥ ४३ ॥

35 B2 missing

36 B2 missing

37 B2 missing -d) B1.3 D1 विष्मुसा-

38 B2 missing -d) D1 नासिरो for लासिरो

39 B2 missing -ab) D1 missing रको वासव

40 B2 missing -a) B1 शनादीर-d) B1 जम्भाराति D1 missing जम्भाराति..

41 -a) D1 विष्णु -b) B3 नायक प्रभु for नाकनायक -b) D1 missing विढौजा नाक

42 -a) B1.3 'वहि' for 'वहि' -c) D1 om च

43 -b) B1 इलोमा -c) D1 'हसी'

पुलोमजा शनीन्द्राणी पीयूपमसृतं सुधा ।  
दाहा हूहूक्ष गन्वर्णे विश्वर्कांतु तु शिल्पिकृत् ॥ ४४ ॥

- 90      सुतो जश्नतः प्रासादो वैजयन्तोऽमरात्री ।  
पुरी सभा सुधर्मा च मातलिः सारथिर्द्वेः ॥ ४५ ॥  
ऐरावते गजो वज्रमायुधं नन्दनं वनम् ।  
उच्चैःश्वा हयो यानं विमानं व्योमगानि च ॥ ४६ ॥  
द्वारपालो देवनन्दी वृहस्पतिः पुरोहितः ।  
खर्वेदावश्चिनीपुत्री नारादाचाः सुर्पषः ॥ ४७ ॥

- 95      धूताची मेनका रमा भञ्जुघोषा तिलोत्तमा ।  
उर्वशी च सुकेशी चेलादा अम्सरसः सृताः ॥ ४८ ॥  
संतानः पारिजातक्ष कल्पक्ष हरिचन्दनः ।  
मन्दाश्वेति देवानां वृक्षाः पश्च तुधैः सृताः ॥ ४९ ॥  
विद्याधराप्सरोपक्षक्षोगन्धर्वकिनराः ।  
100     पिशाचो गुद्धकः सिद्धो भूतोऽनी देवयोनयः ॥ ५० ॥  
कुब्रेरो धनदः श्रीदो यक्षराजो धनाधिपः ।  
किन्नरेशो रजराजः पौलस्त्वे गुद्धकेशरः ॥ ५१ ॥  
ऐङ्गिलः शंगुसखः कुहः पुण्डजनेशरः ।  
एकपिङ्गो वैश्रवणो निधीशो नरवाहनः ॥ ५२ ॥

44 -c) BI.2.4 कंवर्णे.-d) B2 शिन्य-; D1 शश (corrupt).

45 -a) BI गुरी.

46 -d) D1 missing विमानं च्छोमगानमि.

47 -a) B5 missing द्वारपालो देवनन्दी. -c) B5 missing अश्विनीपुत्री.

48 D1 missing उर्वशी ..... चेलादा

49 -c) B2 कल्पक्ष for कल्पक्ष; D1 missing कल्पक्ष.

50 -a) D1 missing विलापराघते. -d) D1 missing योनयः.

51 -a) B2 दूरो (?) for श्रीदो.-b) E2 पश्च for यक्षः.-d) D1 पौलस्त्वी.

52 -b) B2 'जिने' for 'जने'.

मनुष्यधर्मा कैलासनाथः किंपुरुषाधिपः । 105  
 उत्तराशापतिः शक्तोशाव्यक्षोऽकापतिः ॥ ५३ ॥  
 वरुणः पाशमृच्छैव प्रचेता अविषमन्दिरः ।  
 यादः पतिर्जलपतिः पाशी पथिषमदिकपतिः ॥ ५४ ॥  
 यमः कृतान्तः शग्नो धर्मराजः परेतराद् ।  
 सप्तवर्तीं श्राद्धदेव कालं सूर्यसुतोऽन्तरुः ॥ ५५ ॥ 110  
 यमराजः पितृपतिर्षुर्सुर्दक्षिणदिकपतिः ।  
 कीनाशो यमुनाभ्राता दण्डभृन्महिषवजः ॥ ५६ ॥  
 असुरा दानवा दैत्याः शुक्रशिष्याः सुरद्विषः ।  
 पूर्वदेवा दिनिसुता दैत्येन्द्रा दनुजा अपि ॥ ५७ ॥  
 असुरा राक्षसा जातुवाना रक्षासि नैर्विताः । 115  
 रात्रिचराः पुण्यजनाः पलादाश्रपरत्तयाः ॥ ५८ ॥  
 || इति देववर्गः समाप्तं ॥

आकाशमन्त्रं गगनं व्योम विष्णुपदं नमः ।  
 अम्बरं पुष्करं ख द्यौरन्तरिक्षं महत्पथः ॥ ५९ ॥  
 वियद्विहायोऽनन्तं च सुरवर्तम् घनाश्रयः ।  
 आदिल्यः सविता सूर्यो रविर्मानुर्दिनेश्वरः ॥ ६० ॥ 120  
 अर्कः सूर. खगः पूर्या पतगो भासक्तो भगः ।  
 तपनस्तरणिर्मित्रध्यत्रभासुल्लयीतनु ॥ ६१ ॥

54 - c) B2 D1 कार् for यार् \*

55 B1 missing परेतराद् नाक .

56 B1 missing -a) D1 यमराज

57 B1 missing -d) B4 दिनिता (दनुजा in marg sec. m.)

58 B1 missing -c) B2 4 र दि\*

Colophon B3 4 om the colophon.

59 B1 missing -c) D1 शो for शौ .

60 B1 missing

61 B1 missing

सप्ताशोऽहस्करो भास्यान्दादशात्मा विरोचनः ।  
प्रभाकरः सहस्राशुर्मार्तण्डो मिहिरोऽर्धमा ॥ ६२ ॥

- 125 प्रथोतनो जगचक्षुः कर्मसाक्षी दिवाकरः ।  
हरिदधो हरिंहरिप्रभो हंसो विकर्तनः ॥ ६३ ॥
- उष्णरशिमप्रेष्टपर्विभित्थकवान्धयः ।  
हनोऽद्गुमाली तीक्ष्णाशुः सप्तसप्तिर्भिमाकरः ॥ ६४ ॥
- नमोमणिर्धामपतिर्द्युमणिः पमिनोपनिः ।  
पद्मब्रन्धुर्विवसाक्ष ध्वन्तारानिर्दर्पनिः ॥ ६५ ॥
- 130 तिमिरारिर्दिनकरो यमुनाजनकोऽरणः ।  
चन्द्रः सोमो मृगाङ्को ग्लौहिमाशुक्षन्दमाः शशी ॥ ६६ ॥
- विघुः शशाङ्कः शीताशुर्द्विजराजः चुधाकरः ।  
जैवल्यरः शशधरो नक्षत्रेशो निशाकरः ॥ ६७ ॥
- 135 ओपथीशो निशानाथ इन्दुः कुमुदिनीपति ।  
अव्जो राजा चोहुपतिः कलानाथो हिमपुतिः ॥ ६८ ॥
- रोहिणीरमणः सिंशुसूतः कुमुदवान्धयः ।  
चन्द्रोयोत् सूता ज्योस्ता चन्द्रिका कौमुदीन्दुरुक् ॥ ६९ ॥
- नक्षत्रमृक्षं भं धिष्यं तारा ज्योतिरुरुर्मिवः ।  
मयूखः किरणो भानुर्मीचिर्दिविनिः करः ॥ ७० ॥

62 B1 missing -ab) D1 सप्ताशो विरोचन (in marg sec m.).  
-d) B3 D1 मिहिर

63 B1 missing -d) B4 D1 \*मिनो

64 B1 missing

65 B1 missing

66 B1 missing

67 B1 missing -a) D1 जीवाशु -c) D1 शरावरो -d) B2 नशाकर

68 B1 missing -a) B4 गीवीशो -b) B3 \*मिव (in marg sec m.)  
for \*पीव

69 B1 missing

70 B1 missing -b) B2 ४ उड्यम

पादो गभस्तिरुषो गौज्योंतिर्धामाशुद्धमयः ।

अर्चिः पृथिवीगिस्तेजो भाः प्रभा विट् द्विविष्टिः ॥ ७१ ॥

शोचिदीक्षिर्महो वर्चो रोचिर्मा रुक्षचिर्वसुः ।

शिशिः शीतलः शीतस्तुपारक्ष हिमो जडः ॥ ७२ ॥

उण्ठं तिग्नं खरं तीक्ष्णं चण्डं तीव्रं तथा पट्टः । 145

गङ्गाऽग्नरको भौम आरो वकः कुजः स्मृतः ॥ ७३ ॥

मुखस्तु सौम्यो इक्षान्दिर्गुरुजीवो वृहस्पतिः ।

वाचस्पतिः मुराचार्यो गीणतिर्धिवणोऽङ्गिराः ॥ ७४ ॥

गुको दैल्यगुरुः काष्ठ्य उशना भार्गवः कविः ।

शनिः शनैर्क्षरः शौरिमन्दश्त्रायासुतोऽसितः ॥ ७५ ॥ 150

राहुस्तमः सैद्धिकेयः स्वर्भाणु[नु]स्तु विधुतुदः ।

केतुः शिखी चाहिकः स्याद्भूवस्तूतानपादजः ॥ ७६ ॥

सपर्योऽत्रिप्रमुखा अगस्तिः कुम्भजोऽन्धियः ।

अश्विन्यादीनि नक्षत्राण्यष्टाविंशतिसंस्थया ॥ ७७ ॥

लग्नानि राशयष्टेन मेपाया द्वादशा स्मृताः ।

अहर्दिन दिव घन दिवसो वासये दिवा ॥ ७८ ॥

ग्रातः ग्रभातं प्रत्यूयो उयः वस्त्रमहर्मुखम् ।

रजनी यामिनी तत्रिलिपामा शर्वरी निशा ॥ ७९ ॥

निशीयिनी क्षपा दोपा क्षणदा च विमावरी ।

अन्धकारं च तिमिरं व्यानं संभस्त तमः ॥ ८० ॥

71 B1 missing -a) B2D1 गो for गौ

72 B1 missing.-d) B2 हिमौ for हिमो

73 B1 missing

74 B1 missing -a) B2 कुष्ट for कुप -b) B2 जीवो for जीरो.

75 B1 missing

76 B1 missing रात्रुस्तम . केतु

77 —b) B4 अन्धिज ; D1 अन्धज

80 —a) B3 4 लिपा for क्षपा

तमित्रमन्धतपसं भूत्यापा तामसं रजः ।  
क्षणः पलं घटी यापदिनमासर्वोऽयनम् ॥ ८१ ॥

नंवत्सरो युगः कल्पं कालस्येत्यादयो भिदाः ।  
यसन्तभीमवर्गाध्य शरदेष्वन्तं प्रय च ॥ ८२ ॥

165 शिशिरखेनि पित्रेण्या ऋतयः पद् द्विप्रासिमाः ।  
अद्वः संक्षसरो वर्णं वसरो हायनः शरत् ॥ ८३ ॥

फल्पो युगान्तः संहारः कल्पान्तः प्रलयः क्षयः ।  
दिशा आशा दिशः काष्ठा हरितः ककुभष्ट ताः ॥ ८४ ॥

चतुर्षोऽष्टौ च दश च स्युरिन्द्रायास्तदीयतः ।

170 पूर्वमेयी दक्षिणा च नैर्झर्ती पश्चिमा तथा ॥ ८५ ॥  
वायवी चोत्तरेशानी ब्राह्मी नामीति ता दश ।  
वारिवाहो घनो मेघः स्तनपिण्डुर्वनाघनः ॥ ८६ ॥

अभं तडियान्मुदिरो जलमुग्नलदोऽमुमृत् ।  
धाराधरो जलधरो धूमयोनिर्येलाहकः ॥ ८७ ॥

175 जीम्लो वारिदो नभ्राद् पर्जन्योऽम्भोधरोऽम्बुदः ।  
विष्णुत्सैदामिनी शम्या चश्चला चपला तदित् ॥ ८८ ॥

ऐरावती क्षणहच्छ्रीदिनी च शतहृदा ।  
गर्जिनं स्तनितं गर्जी रसितं मेघनिस्त्वनः ॥ ८९ ॥

बप्पीह(१) श्वातक्साङ्गस्तोकको नभोऽम्बुदः ।

180 नीलकण्ठः शिखी केकी मयूरो जलमुक्षुदत् ॥ ९० ॥

81 — a) B1 2 4 D1 लिभिश्च for लिभिश्. — c) D1 एवं.

83 — a) B1 फिरिं. — ab) D1 in marg. sec. m. — D1 om. 83 bc.

81 — c) B2 दिशा for दिशः. — d) B1 ककुमा .

87 — b) B1 जलरुद्धं for जलरोऽम्बुद्.

89 — a) B2 क्षणे for क्षण. — d) B All mss. लिहने.

शिखण्डी बहिणो वही कलापी च भुजंगभुक् ।  
परपुषा परभूता ताम्राक्षी कोकिला पिकी ॥ ९१ ॥

मधुआलापिनी श्यामा कलकण्ठी धनप्रिया ।  
रथाङ्गाहक्षक्रवाकः कोको द्वंद्वचरथ सः ॥ ९२ ॥

यामिनीविहध्वको रामशापनिशावियुरु ।  
जीवंजीवक्षलचञ्चुधसोरो विषमूचकः ॥ ९३ ॥

ताप्रचूडः कुर्कुटथ कृकशकुः शिखपिङ्कः ।  
प्रभातज्ञो निशावेदी वृषाक्षथणायुधः ॥ ९४ ॥

अनुवादी रक्ततुण्डः शुकः कीरः फलादनः ।  
खज्जनः खज्जरीटथ नीतक्षापः किकीदिविः ॥ ९५ ॥

हंसो मराउक्षक्राङ्गो मानसीकाः शितच्छदः ।  
हंसमेदा राजहंसाः कादम्या धार्तराष्ट्राः ॥ ९६ ॥

तार्थ्यः सुपर्णो गहडो वैनतेयोऽहणानुजः ।  
गहणान्पक्षिराजक्ष सर्पारिः यश्यपात्मजः ॥ ९७ ॥

खगो विहंगमः पक्षी विहंगो भिहगो द्विजः ।  
पश्ची पतश्री शारुकिः शारुन्तः शारुनः पतव् ॥ ९८ ॥

विहायो चि पत्रयो विकिरः पतगोऽण्डजः ।  
नगीरा नीडनिलयः खचरो विकिरो वयः ॥ ९९ ॥

पक्षऽण्डदो गरुपत्रं पतत्रं च तनूहम् ।  
वाजोऽस्य पक्षतिर्मूलं चञ्चुलोदिः सुगाटिका ॥ १०० ॥

185

190

195

200

94 —a) B4 कुहूः.

95 —a) D1 रत्नुरी. —b) D1 रामादन. —c) D1 वंशरम.

96 —d) B1 2 D1 पूर्ण for वार्ण.

98 —e) B2 रकुनी.

99 —a) B1 पत्रपौ.

100 —d) B2 चंद्र for चन्द्रुः.

उद्युपं तु पूर्यः कोलस्तरण्डो मेळ हयपि ।  
निर्वापकः कर्णधारो नाविकः पोतवाहकः ॥ १२१ ॥

पृथुरोमा संघचारी ग्रास्यो मीनो जपोऽण्डजः ।  
वैसारिणो विसारी च शम्भरोऽनिमिषस्तिमिः ॥ १२२ ॥

245 पाठीनः शासनी शालकी रोहितश्च तिर्मिगिलः ।  
मेरुमण्डूकवर्णीभूशाल्घरपूरदर्दुरा ॥ १२३ ॥

कष्ट्यगः कमठः कूर्मो दीलेयः कमडी दुलिः ।  
याद्रासि जलजीवः स्युस्ते नक्रमकरादयः ॥ १२४ ॥

उदपानं प्रदिः कूपथ्यन्तुर्वीरीं तु दीर्घिका ।  
250 पुष्करिणी खातकं च निपानं तु जलाश्रयः ॥ १२५ ॥

सरस्तडागः कासारः सरसी च सरोवरः ।  
पश्चाकरः स एव स्याद्वसन्तः पत्वलं लघु ॥ १२६ ॥

कमलं पुष्करं पश्चकरविन्दं कुशेशायम् ।  
अम्भोरुहं तामरसं राजीवं च महोत्पलम् ॥ १२७ ॥

255 वि[वि]सप्रसूतं नलिनं शतपत्रं सरोरुहम् ।  
सहस्रपत्रं जलं जलं सरोजं सरसीरुहम् ॥ १२८ ॥

पक्षेरुहं सरसिजमब्जं वारिजमन्तुजम् ।  
नालीकं पक्षजाम्भोजे कंजं चाढि विकासभाक् ॥ १२९ ॥

रक्तोल्पलं कोकनदं पुण्डरीकं सिताम्बुजम् ।  
60 पद्मिनी च कमलिनी नलिनी विस[सि]नीरुहपि ॥ १३० ॥

122 — d) B1 नवरो for नम्बरो

125 — a) B2 प्रहिकृ.

128 — d) B1.3.4.D1 सरोरुह.

129 B1 missing अहिविकासभाक्.

130 B1 missing.—d) B2 om. नलिनी.

अम्भोजिनी नीरजिनी पङ्कजिन्यविजिनी सृता ।

अथोपल कुवलय कुमुद वैरप सितम् ॥ १३१ ॥

इन्द्रीवर च तनीलोत्पल रात्रिपिकासभाकू ।

कुमुदृती कुमुदिनी कैरविणी शशिप्रिया ॥ १३२ ॥

दण्डो नाल मृणाल च विसन्तुश्च तन्तुलम् ।

द्विरेषो भ्रसरो भृङ्गो रोलम्बोडलि शिलीमुव ॥ १३३ ॥

इन्दिन्दिरक्षचरीक पटपदश्च मधुवत ।

मधुपोडली[लि] मधुकरो मधुलिट् पुष्पलिट् सृत ॥ १३४ ॥

वल्ली प्रतानिनी वीरहृतनिर्वल्ली लता ।

पुष्प प्रसून वुसुम सून सुमनस सुमग् ॥ १३५ ॥

मकरन्द पुष्परस पराग पुष्पज रज ।

पश पर्ण दल बहुं पत्ताश छदन छद ॥ १३६ ॥

नप त स्यामिसृथ्य प्रयाल पछो नप ।

मुळ विक्सित रमेर प्रयुद्ध विक्तच सृतम् ॥ १३७ ॥

उज्जूमित चोन्मिपित हसिन च विजूमितम् ।

स्पुट प्रफुल्लमुपुछ विनिद्र दलित तया ॥ १३८ ॥

संकुचित भीलिन च निद्राण मुद्रित सृतम् ।

घण्ड आराम उद्यान विपिन कानन वनम् ॥ १३९ ॥

वाटिकोपवन दाव कक्ष कान्तारनि रुटी ।

अठव्यरण्य गहन सा दे कुञ्जो निकुञ्जरत् ॥ १४० ॥

265

270

275

280

131 B1 missing

132 B1 missing d) B2 वैरप for वैरविणी

133 B1 missing

134 B1 missing

135 B1 missing - a) B2 वैरप for वैरी

136 B1 missing - a) D1 मवरा-

137 B1 missing - d) D1 भिन for गृहम्

138 B1 missing

139 B1 missing

140 B1 missing

शुक्रो द्रुमस्तहः शाखी पादपथ मष्टीरुद्धः ।  
अनोग्नोऽहिप्. सालः पलाशी विटपी कुटः ॥ १४१ ॥

अगो नगोऽगमो द्रुधं फलग्राथं वनस्पतिः ।  
केतमः केतकी जाती चम्पको महिना जपा ॥ १४२ ॥

285 वन्मुको यूषिमा कुन्द इत्याद्याः पुष्टजातयः ।  
धावो रसालो गामन्दः सदकारक्षूनदमन्त्(?) ॥ १४३ ॥

रमा तु कल्ली मोचा रामो करकदाढिमी ।  
गन्धसरो गलयजः श्रीखण्डक्षन्दमद्वुमः ॥ १४४ ॥

तैलपर्णिकमेवेदं गोशीर्यं हरिचन्दनम् ।

290 सर्पो भुजंगो भुजगः पञ्चगोऽहिमुर्जिंगमः ॥ १४५ ॥

उण्गो जिङ्गो भोगी दन्दशूलः सरीसृपः ।

दर्शीकतो विषधरो द्विजिह्वः पवनाशनः ॥ १४६ ॥

काकोदरो शीर्षपृष्ठः पृदाकुः मुण्डली फणी ।

आशीवियो गुप्तपादो व्याठो नागो विलेशय ॥ १४७ ॥

295 चक्षुःश्रवः वादवेषः सर्पामस्तु वासुकिः ।  
शेषो नागाविष्पोडन्तः सहस्रबदनव्य सः ॥ १४८ ॥

विषस्तु गरुणं द्वेषो रसस्तीक्ष्णव्य तद्रिदः ।

हालाहलः काळकूटो यसनागः प्रदीपन ॥ १४९ ॥

सौराष्ट्रिको ब्रजपुत्रः याकोलो दरदोऽपि च ।

300 मृगः कुरुक्षो हरिण एणः सारङ्ग एव च ॥ १५० ॥

141 Bl missing

142 Bl missing

143 Bl missing

144 Bl missing .-d) D1 सरो for भर्मी

145 Bl missing

146 Bl missing

147 Bl missing

148 Bl missing

149 Bl missing

150 Bl missing

वातायुः कृष्णसारक्ष रुमुख्यास्तु तद्रिदः ।  
 सिंहो मृगेन्द्रः पारीन्द्रो हर्यक्षः केसरी हरिः ॥ १५१ ॥

कण्ठीरवो महानादो मृगार्दिनखलायुधः ।  
 पश्चाननो गजारातिः पुण्ड्रीरक्ष्टु चिक्रकः ॥ १५२ ॥

द्वीपी व्याघ्रक्षित्वायः शार्दूलः शरभोऽष्टपाद् । 305  
 गजो मतहङ्गो हस्ती मातङ्गः कुञ्जरः करी ॥ १५३ ॥

इभः स्तम्बेरमः कुम्भी दन्ती दन्तावलो द्विपः ।  
 द्विदः सिन्धुरो नागः सामयोनिर्महामृगः ॥ १५४ ॥

अनेकपथं करटी करेणुः पीछुनारणौ ।  
 घोटकस्तुगो वाजी तुरंगोऽधस्तुरंगमः ॥ १५५ ॥ 310  
 अर्वा वाहो हयः सुतिर्गन्धर्वो वीतिरेव च ।  
 काम्बोजाः सैन्यवा देश्या अ[आ]जानेया वनायुजाः ॥ १५६ ॥

अस्था वामी च वडवा किशोरो वालघोटकः ।  
 अनक्ष शक्टो गम्भी शताङ्गः स्थन्दनो रथः ॥ १५७ ॥

शिविका याप्ययान च दोला प्रेष्टा सुखासनम् । 315  
 वाहनं धोरण यानं पत्रं युर्य गतिर्व्यजः ॥ १५८ ॥

प्रजक्ष केतनं केतुः पताका चिह्नमेव च ।  
 मार्गोऽच्चा निगमः पन्था पदबी वर्म पद्धतिः ॥ १५९ ॥

अयन सरणिः पथ्या रथ्या वीथी च संचरः ।  
 उक्षा गौर्हृष्पमोऽनडाभद्रः नार्करशक्तौ ॥ १६० ॥ 320

151 B1 missing

152 B1 missing

153 B1 missing -c) B2 मातग्रो for मतहङ्गो.-d) B2 कुञ्जरी for कुञ्जर,

154 B1 missing -d) B2 इवामयोनिः for सामयोनिः.

155 B1 missing -c) B1 तुरंगः for तुरगः.

156 B1 missing

157 B1 missing.

158 B1 missing

159 B1 missing

160 B1 missing. -b) B 2 मचर for मचर,

वलीवर्दः सौरमेयः ककुताब्नशाकरो वृपः ।

सुरभिर्गारिनडाही सौरमेयी च रोहिणी ॥ १६१ ॥

तम्या तम्यार्जुनी घेनुमाहेयी च निलिभिरका ।

क्रमेलकोट्टरभा दासेरः कण्टकाशनः ॥ १६२ ॥

325 वराहः शूररः कोलो गर्दभो रासमः खरः ।

कुक्कुरः सारमेयः खा भपणः खानमण्डलः ॥ १६३ ॥

शास्यामृगो मर्कटश्च वनैका वानरः कपिः ।

शूगाद्यो जम्बुरु क्रोष्टा फेरुगोमामुकेरवा ॥ १६४ ॥

उरझो मेष्टको मेष पड़जोड़विहुडोरणा ।

330 अजस्तु छालुष्टागम्भगो बह्त, स्तमः पशु ॥ १६५ ॥

अग्निर्विहृहद्वानुर्दहनो ज्वर्लनोऽनलः ।

यैश्वानर, कृष्णर मी चित्रभानुर्धनजयः ॥ १६६ ॥

आद्युशुक्षणि एषित्त जातवेदा द्रुताशनः ।

हृव्यगाहो द्रुतधदो वर्हिः शुप्मा विभारसुः ॥ १६७ ॥

335 आथपाशो वायुमनः पात्रो द्रुतमुक्षिशब्दी ।

दृपामपिर्वितिहोत्र, कृशालुष्टागवाइनः ॥ १६८ ॥

हिरण्यरेताः सप्तर्चिः शोचिष्केशास्तन्त्रपात् ।

कृपीटयोनिर्दमुना रोदिताश्च उषर्मुख ॥ १६९ ॥

स्वाहापतिः शुचिः शुरो वर्हिज्योनिर्वितेचनः ।

340 ज्यालानिह सह मन्त्रं शुप्मा धूमध्वजोऽपि च ॥ १७० ॥

161 BI missing -d) B2D1 सौरमेया for शीरमेयी

162 BI missing

163 BI missing

164 BI missing -c) D1 वृष्टी for वृष्टा

165 BI missing

166 BI missing -b) B2 रसा for भन्ना

167 BI missing -d) D1 वर्हि for वर्हि

168 BI missing

169 BI missing

170 BI missing

वडवानल और्विश वाडवो वडवामुखः ।  
 संवर्तकः समुद्रप्रिंदिवो दानो वनानलः ॥ १७१ ॥  
 सुवर्णं कनकं स्वर्णं हिरण्यं हेम काष्ठनम् । -  
 चामीकरं शतसौमं गोद्येयं भर्म हाटकम् ॥ १७२ ॥  
 कार्तस्वर जातरुद्य कलधौत च कर्मुरम् । 345  
 तपनीयं च कल्याण रुबम जाम्बूनद वसु ॥ १७३ ॥  
 अषापदं भूरिचन्द्रो महारजतभूतमे ।  
 दुर्वर्णं रजत रुद्धं तारं खर्जुरमिलयि ॥ १७४ ॥  
 रत्नं वसु मणिस्तस्य मेदा मरकलादयः ।  
 वैदूर्यवज्रमाणिक्यनीलमौक्तिकविदुमा ॥ १७५ ॥ 350  
 द्रव्यं स्वं द्रविण वित्तं दुम्ह रा विभवो धनम् ।  
 अर्थो लक्ष्मीः स्वापतीयं रिक्यगृक्य तथा वसु ॥ १७६ ॥  
 भूतिविभूतिरैर्वर्यमणिमादिकमष्ठा ।  
 अणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा ।  
 प्रातिः प्राकाम्यमीशिवं वक्षित्व चाए सिद्धयः ॥ १७७ ॥ 355  
 महाप्रस्तथा पद्मः शङ्को मकरकच्छपौ ।  
 मुकुन्दकुन्दौ नीलश्वरं खर्विश निधयो नव ॥ १७८ ॥  
 अस्या श्रीहेममालाया हर्षभीर्निर्वेष. कृतौ ।  
 देवव्योमधराकर्मं काण्डोऽर्थं प्रयमोऽजनि ॥ १७९ ॥

इति धीर्दर्पकीर्त्युपाध्यायविरचितायां शारदीयाभिधायां  
 लघुनाममालायां प्रथमः काण्डः ॥ १ ॥

171 B1 missing -a) B2 वडवानल for वडवानल. D1 ऊर्वं for और्वं.  
 -b) B2 वटवानल for वडवामुख -c) D1 संवर्तका for संवर्तक.

172 B1 missing -b) B3 हाटक for काष्ठन -d) B2 वौचन for हाटकम्

173 B1 missing -d) B4 D1 जरू for जम्बु.

174 B1 missing -c) B2 कृष for हृष

175 B1 missing -c) B2 माणिक्य for माणिक्य -B2 मुक्तिक for मौक्तिक -

176 B1 missing

177 B1 missing -a) B2 दोनि for दिभूति

178 B1 missing -d) All mss. read नर्वेश (corrupt) for नर्वश.  
 Colophon: B1 missing, B3 हर्षभीर्निर्विर.

- 360 मनुधो मानवो मर्त्यो मनुजो मानुयो नरः ।  
ना विट् पञ्चनो भूस्पृक् पुरुषः पूरुषः पुमान् ॥ १ ॥  
खी नारी वनिता योवा ललना महिलाबला ।  
कामिनी भामिनी रामा रमणी च नितमित्रिनी ॥ २ ॥  
अह्नना मानिनी योगिद्विर्णिनी वामलोचना ।  
365 बाला सीमन्तिनी भीरुः सुन्दरी युवती वशा ॥ ३ ॥  
मृगाक्षी प्रमदा भागा मुग्धा वासा विलासिनी ।  
कृशोदरी पुरन्धी च तन्वी लीलावती वधूः ॥ ४ ॥  
उपयामः परिणयो विवाहः पाणिपीडनम् ।  
पाणिप्रहणमुद्वाहो दारकर्त्त विवाहनम् ॥ ५ ॥
- 370 भर्ता विवेदा रमणो भोक्ता नाथः पतिर्धवः ।  
बरो वरयिता कान्तो वल्लभो दयितः प्रियः ॥ ६ ॥  
प्राणेशः प्रणयी प्रेयान्त्रेषुः प्राणसमोऽधिकः ।  
प्रीतः प्रियतमः सेक्ता आर्यपुत्रथ नायकः ॥ ७ ॥  
भार्या सहचरी पनी वल्लभा प्रेयसी प्रिया ।  
375 कान्ता जाया जनी जानिर्गृहं दाराः परिमहः ॥ ८ ॥  
कट्टा पाणिगृहीता च कलन्तं गृहिणी वधूः ।  
दयिता च प्रियतमा द्वितीया च सशमिष्णी ॥ ९ ॥  
पिता तु जनकस्तातो वता जनयितापि च ।  
अन्या माता सवित्री च जनयित्री जनन्यपि ॥ १० ॥
- 380 नन्दनस्तनयः पुत्रो दारकः सूनुरुद्धः ।  
सुतोऽह्नज आमजथ पुत्री शु दुहिता सुता ॥ ११ ॥

1 B1 missing.—b ) B2 मानवो for मानुयो.

2 B1 missing.

3 B1 missing.

4 — a ) B2 repeats ररो.—b ) B2 पुरन्धी for पुरन्धो.

बाल् ऋतनध्यः पोत पासो डिग्मोऽर्भकः शिशुः ।  
कुमारं पृथुरु शारं क्षीरकण्ठः निशोग्रं ॥ १२ ॥

कुमारी उन्यका बन्या बालिका दिक्षी बनी ।  
तोकापत्ये प्रसूतिस्तुरु सतान सततिः प्रजा ॥ १३ ॥ 385

भ्राता सहोदरे बन्युं सहजो वान्धगोऽपि च ।  
भगिनीं तु स्वसा जामिदंपती दयिनशपती ॥ १४ ॥

वशोऽन्वयः कुल गोत्र जननाभिजने अपि ।  
सती पनित्रता साधी दासी चेटी च चेटिका ॥ १५ ॥

दृती सचारिका चुन्दी कुटिनी सम्भली समाः । 390  
दण्डकी गणिरा वेश्या रूपाजीरा पणाङ्गना ॥ १६ ॥

असती पाशुलाशीला स्वैरिणी कुलदेवती ।  
पुष्टली बन्युकी धृष्टा चर्पणी व्यभिचारिणी ॥ १७ ॥

मित्र सखा सहचरौ वयस्यः सखा मृद्गद् ।  
आली सखी वयस्या च सखीकी सहचारिणी ॥ १८ ॥ 395

शरीर विप्रहो देहो गात्र क्षेत्र तनुस्तन् ।  
अङ्ग कायो वपुर्वर्ष मूर्तिरूप कलेशम् ॥ १९ ॥

महन धनो बन्धुं पुरं पिण्डे च पुद्रलम् ।  
द्वीपीमग्नश करण प्रहणं च खमिन्द्रियम् ॥ २० ॥

आत्मा जीर्णोऽशुमाङ्गन्तुर्देही प्राणी च चेतनः । 400  
जन्युः शरीरी पुरुषो हसः सत्त्वं पुनर्भवा(?) ॥ २१ ॥

स्वान्त चित्त मनस्तेऽनो भानम् द्वदय च तत् ।  
अन्त करणमप्यस्य संस्कारश्च मनोरथः ॥ २२ ॥

18 —b) B4 सर्व

19 D1 missing

20 D1 missing - a) B3 एव्य for एव्य - d) B2 चक्षुरिदिवम् for च लक्षित्रिवम्

21 D1 missing.

22 D1 missing

- शीर्षकं मस्तकं मुण्डं मौलिर्मस्तं च मस्तिरम् ।  
 405 उत्तमाङ्गं शिरो मूर्धा करणप्राणमेव च ॥ २३ ॥  
 केशा बालाक्ष चिकुरा अलक्षः कुन्तलाः कच्चाः ।  
 शिरोहृष्टीर्थगाका मूर्धजास्तसमुच्चये ॥ २४ ॥  
 केशात्कलापरचनापाशभारचया अपि ।  
 कवरी वेणिका वेणी धग्मिहा गुणिकाः कच्चाः ॥ २५ ॥
- 410 केशेषु धर्म सीमन्तः कुरुलो भ्रमरालकः ।  
 शिखा शिखपिंडिका चूडा बालानां काकपक्षकः ॥ २६ ॥  
 मुखकेशाः इमश्च कूर्चो लोम रोम तनूरुहम् ।  
 रोमावली रोमलता रोमराजी हृददरे ॥ २७ ॥  
 मुख तु वदनं वक्त्रं तुण्डमास्यं तपाननम् ।
- 415 ललाटमलिं भालं गोध्यलीके ललाटिका ॥ २८ ॥  
 कर्णः श्रोत्रं श्रवणं च शब्दमाहः श्रुतिः श्रवः ।  
 नकं तु नासिका नासा प्राणं घोणा च शिर्हिनी ॥ २९ ॥  
 नयन लोचन नेत्रमीक्षणं चश्चुरम्बकम् ।  
 अक्षि दृष्टिरित्यान्तस्तारका च कनीनिका ॥ ३० ॥
- 420 अर्धट्रवीक्षणं काक्षः कटाक्षोऽपाङ्गदर्शनम् ।  
 क्रोधाङ्गवो विकारो यो भ्रुउटिर्मुकुटिथ सा ॥ ३१ ॥  
 पद्म स्प्यञ्ज्ररोमाणि भ्रूरुच्यं रोमपद्मति ।  
 गाढो गण्डः कपोलक्ष चिगुकं दाधरादधः ॥ ३२ ॥

23 D1 missing.-d) B1 वरण प्राण<sup>2</sup> for क प्राण<sup>1</sup>.

24 D1 missing

25 D1 missing

26 D1 missing -d) B3 4 \*९४८

27 D1 missing.-a) B4 हृने -b) F1 in marg see m.

28 D1 missing -c) B1 लक्षार

29 D1 missing

30 D1 missing

31 D1 missing -b) B2 अनग<sup>2</sup> for अगाह<sup>1</sup>. -c) B1 क्रोधाङ्गवो.

32 D1 missing.

ओष्टोऽधरो दन्तवक्षं तथा च रदनच्छदम् ।  
रदना दशना दन्ता दिजा दंशा रदा अपि ॥ ३३ ॥ 425

जिह्वा रसज्ञा रसना कण्ठो निगरणो गलः ।  
अंशः स्कन्धो मुजशिरो बाहुर्वाहा च दोभुजः ॥ ३४ ॥

हस्तः वरः शयः पाणिः पश्चशाखश्च स स्मृतः ।  
अहुत्यः करशाखाः स्युसायाहुप्राङ्मुखी सप्ती ॥ ३५ ॥

कामाङ्गुशो महाराजः करजो नखो नखः । 430  
करशूकः कररुद्धो भुजास्तः पुनर्भवः ॥ ३६ ॥

शिरोधिः कंधरा ग्रीवा धमनिश्च शिरोधरा ।  
उरो हृदृदयं वक्षः स्तनान्तरभुजान्तरे ॥ ३७ ॥

स्तनौ कुचावुरोजौ च वक्षोजौ च पयोधरौ ।  
उदरं जठरं तुन्दं पिचण्डः कुक्षिरेव च ॥ ३८ ॥ 435

त्रिभूलिस्तद्दरे रेखा नाभिः स्पातुन्दकूपिगा ।  
अङ्गस्तु क्रोड उत्सङ्घः पृष्ठं वंशालिकं तथा ॥ ३९ ॥

मध्योऽवलम्बं विलम्बं मध्यमोऽलङ्क एव च ।  
काश्चीरदं कटिः श्रोणिः कटीरं च कुमती ॥ ४० ॥

अधो नितम्ब आरोहः स्त्रीस्त्वा जघनं पुरः । - 440  
उपस्थं च भगो योनिः स्त्रीचिंहं स्मरमन्दिरम् ॥ ४१ ॥

पुंधिहं मेहनं मेहैं शिशं शेषं इति स्मृतम् ।  
अपानं तु गुरं पायुखर सरिय समे उमे ॥ ४२ ॥

33 D1 missing.

34 D1 missing

35 D1 missing

36 D1 missing.

37 D1 missing.

38 D1 missing. - c) B2 तुः

39 D1 missing.

41 —b) B1. 2 यः.

12 —d) B4 त्र (in marg.)

जानूरुपर्वं चाष्ट्रीभवनिजस्त्रा तु पिण्डिका ।

445 पादः पदोऽहिश्वरणश्वलनः क्रमणः क्रमः ॥ ४३ ॥

मण्डनं स्यादलक्षोरो भूषणाभरणे अपि ।

शीर्षाभरणं शीर्षिपुर्वं चूडामणिः शिरोमणिः ॥ ४४ ॥

मौलिः किरीटं कोटीसुखीयं सुकुमरं तथा ।

आपीडः शेखरोत्सावतंसाः शिरसः क्षजि ॥ ४५ ॥

450 ललापकं ललाटस्थं कर्णपूर्वं तु कर्णगम् ।

मिलकं तमालपत्रं चित्रं पुण्ड्रं विशेषकम् ॥ ४६ ॥

पत्रक्षेखा पत्रलता पत्रमङ्गी ललाटिका ।

ताडङ्कस्तु ताडपत्रं कुण्डलं कर्णवेष्टकम् ॥ ४७ ॥

नासानामप्रतः पुष्पमाभरणं च मौक्किकम् ।

455 अङ्गनं कजलं चैव ताम्बूलं मुखरञ्जनम् ॥ ४८ ॥

प्रेषये कण्ठाभरणं कण्ठसूत्रं च कण्ठिका ।

हारो मुक्तावली मुक्तामाला मुक्ताकलापकम् ॥ ४९ ॥

हारमध्यमणिः ग्रोत्को नायस्त्तरलोऽपि च ।

केशरमङ्गरं चाहुरक्षकं करम्पूरणम् ॥ ५० ॥

460 मुद्रिका उर्मिका मुद्रभिजानं चाहुलीपकम् ।

कटको वलयागारी कङ्कण कारभूषणम् ॥ ५१ ॥

रसना मेषबला काञ्चनी कलापधारि ससकी ।

कटिसूत्रं सारसनं किङ्किणी क्षुद्रघण्टिका ॥ ५२ ॥

मङ्गीरं पाइकटकं तुलासेटिथ शुग्रम् ।

465 हसकं सिङ्गिनी चेति यामकोऽलक्कणः रमृत ॥ ५३ ॥

45 —a) B1 शोटी॒

49 —a) B1 कण्ठाभरणे, —d) B1 om माला मुत्ता

51 —a) B1 transp मुद्रिका and उर्मिका, B2 om cd

52 B3 om. —a) B1 नानि,

माला स्वदाम मास्य च स्नान मञ्जनगाप्तुर् ।  
चार्चिक्ष्य समालभनमहरागो विलेपनम् ॥ ५४ ॥

अशुर वसन वक्र वासधीरमम्बरम् ।  
पटक्ष सिवयथेऽपदस्या तोऽवत्त्वं सृत ॥ ५५ ॥

क्षौर्म दुकूल दुगुर पकूर पटोतमम् । 470  
वेपो नेत्रप्यमामलामुणीपो मूर्खेणेम् ॥ ५६ ॥

प्रापार उत्तरासङ्गो वैक्ष कृष्णिरापि च ।  
परिधान वेणुर वक्ष्या तपधिमाम्बलम् ॥ ५७ ॥

वशापटस्तु रौपीन नक्ष वर्णोऽपि च । 475  
प-ठादन प्राप्तरण स-यान चोत्तरीपम् ॥ ५८ ॥

कृपीस पञ्चुरथैर चोऽफल्युलिराहिरा ।  
चण्डातर चन्दन साटी चोटी च साटिरा ॥ ५९ ॥

अ तरीय विवसन परिधानमधोशुम् ।  
नीरी तद्वधन प्रत्य प्रालभ्य जुम्बण समे ॥ ६० ॥

चूर्णानि वासयोगा स्तु विष्टत पटवासन । 480  
वशार्देर्यस्तु गाथर्य संत्वारः सोऽविगमनम् ॥ ६१ ॥

आमोदक्ष परिनगे ग गे वासो विमर्ज ।  
इष्टाध शुगधि स्याद्वाभिर्व्विर्णतर्ण ॥ ६२ ॥

कुड्य धुमूण ध०५ रक्त काळ्मीजाम च ।  
श्रीछण्डो मलयजक्ष गोदीर्य चादन सृतम् ॥ ६३ ॥ 485

कर्णो घनसारक्ष चाद्रात्यो हिमगाढ़ा ।  
वग्नरिरा मृगमदो मृगनाभिर्व्विर्णगाण्डक ॥ ६४ ॥

56 —c) B2 भक्तर

57 —d) B1 कृता for कृ-उ B3 om 57cd

58 B3 om. 59 ab —c) B4 प्रथान

59 —a) B1 वस्त्र

62 —c) B1 इ वि B3 om वृष्टि रात्रि —सं०

63 B3 om तुक्तम् —सं०

कस्त्री गन्धधूली च मदना मृगनाभिजा ।  
कुण्डागरुः काकुतुण्डो राजाहं वंशिस्तगरुः ॥ ६५ ॥

490 चोचाहृयं तस्य सत्त्वं तद्दोपो देववस्तुभः ।  
परिकर्माह्नमंस्त्वारो मण्डनं च प्रसाधनम् ॥ ६६ ॥  
दर्पणो मुकुरादर्शी व्यजन तालबृन्तकम् ।  
शोभा कान्तिर्थिभूया श्रीर्क्षमीश्छाया शुतिश्छविः ।  
राढाभिष्ठ्या च लावण्यं सुप्रसा विश्वमोऽपि च ॥ ६७ ॥  
॥ इत्यह्नवर्गः ॥

495 मन्दिरं सदनं सम निलयो भवनं गृहम् ।  
ओको निवास आवासो धिष्यं धाम निकेतनम् ॥ ६८ ॥

आगारं वेदग वसनिर्भिशान्तं शरण ध्रयः ।  
प्रासाद आलयः सौधं हम्यं गेहं कुट्टाश्रयौ ॥ ६९ ॥  
गर्भीगारोऽवरको मण्डपो जनताश्रय ।

500 भाण्डगारः दोशकोग्नह्नप्य[ण] च वग्जिरे ॥ ७० ॥  
अष्टमष्टालकं क्षीमं गृहस्योपरिभूमिका ।  
विनशाला चतुर्द्वारं चन्दशाला शिरोगृहम् ॥ ७१ ॥

शाय्यागृहं वासगृहं कीडासम रतास्पदम् ।  
वातायनं गवाक्षस्थ जालको लघुमण्डप ॥ ७२ ॥

505 दीपो गृहमणिग्रीतिः प्रदीपः कल्जलधजः ।  
आसनं विष्टरः पीठं भद्रासनं तदुत्तमम् ॥ ७३ ॥  
खद्वा पर्यह्नपत्यक्षाएशाख्यामश्वमश्वसाः ।  
शाय्या च शयनं तत्पं शायनीप च तूलिसा ॥ ७४ ॥

68 —c) B1 आवासी for आवासो.

69 —a) B1 अंगार —b) B1 क्षय.

73 —c) B2 विष्टर.

74 —d) B1 शयनी १ for शयन-

उष्टीपूर्वमुखानमुपरहै च गिरुवग् ।  
चन्द्रोदयो वितान चोलोच यदक इत्ये ॥ ७५ ॥ 510

आलिङ्गन परिष्वज्ज संक्षेप उपगृहनम् ।  
अङ्गागली परिमो मेष्ट सङ्घसम्मी ॥ ७६ ॥

भेदुन कामकेलिथ समोग मु'त रत्न ।  
रहोगतिर्निधुयन प्राप्यर्थर्थक्ष मोइनम् ॥ ७७ ॥

क्षीडा लीला विलासथ केलिर्म रतिर्देव ।  
स्नेह ग्रीतिः प्रेमरागौ मैत्री सर्प च सैद्धम् ॥ ७८ ॥

रजा दीड़ा ग्राम हीथ मनदाश खादपनगा ।  
हासस्तु हासिरा हास्य हसन हसित स्तिरम् ॥ ७९ ॥

हर्षे प्रेमोद आनन्दो हादो मुमोदमेमदा ।  
हाव सुविरिरा अ्याद्राथधितसमुद्र ॥ ८० ॥ 520

दिगम सठजो डेवो विभवो भूसमुद्र ।  
तुष्टि ग्रीनी गनि स्वास्य मंगोगो निर्विनिर्षनि ॥ ८१ ॥

शानन सौद्य मुप शर्म शंसा या दुमवेदनम् ।  
विभिथ नियनिर्देष देव भाष्य दुष्ट तयः ॥ ८२ ॥

दयानुरग्ना प्रदग्नानुरोदाथ हुगा धृगा ।  
प्रसन्नगा प्रसतिथ प्रसादोऽनुपहो दितम् ॥ ८३ ॥ 525

माशो मनमप्निग्राम्य उन्द आकृत आशय ।  
श्रीर स्वभावः सदग्नो निर्सर्ग प्रहृती हयि ॥ ८४ ॥

अर्थर्थमद्रुत चित्र विष्मपक्षेयमित्यति ।  
फौद्रम् च कुतुर्क वौतुर्क च पुरुहतम् ॥ ८५ ॥ 530

लोभरत्ना गृहा निष्ठा वरहूता सेहा च लालसा ।  
कुमस्तरे इभिष्मापत्तुहिन्ना वास्त्रा मनोय ॥ ८६ ॥

75 — a) B1 उत्तरान्

78 — c) B1 २-८८

80 — b) B2 "मृगा for रामा — d) B2 विद् for विद्"

उपम्राह्यं दौकनिका प्राभृतोगायनोपदाः ।  
आज्ञा नियोग आदेशो निर्देशः शासनं वचः ॥ १२४ ॥

610 वाचा संधा प्रतिज्ञागृः संगरः मंविदाश्व्रवः ।  
आप्नायः संप्रदायश्च गुरुकृपः परंपरा ॥ १२५ ॥  
प्रशंसा वर्णना क्षाघा स्तवः स्तोत्रं स्तुतिर्नुतिः ।  
कीर्तिः क्षोक्तो यशो वर्णः साधुशादः समाज्ञया ॥ १२६ ॥

उपक्रोशोऽवर्णवादः कौलीनं वचनीयता ।  
615 शुगुप्ता गर्हणा निन्दा निर्वादश्वायादवत् ॥ १२७ ॥  
अनादरः परिभ्रो रीढावज्ञा निरस्किया ।  
अवहेलावगणना तक्षणं चापमानता ॥ १२८ ॥  
अभिघानं नामघेयं नामाख्या आङ्ग्योऽभिघा ।  
गोत्रं संज्ञा च मंबुद्धिर्हृनिराकरणं हवः ॥ १२९ ॥

620 अर्दना प्रार्थना याच्चा दानं ल्यागो विसर्जनम् ।  
विश्राणनं वितरणे स्पर्शनं प्रतिपादनम् ॥ १३० ॥  
याचकस्तर्कुक्तो माहीर्मार्गिणोऽर्थां वनीपकः ।  
धर्मः पुण्यं वृपः ऐयः सुकृतं शुभकर्म च ॥ १३१ ॥  
विलिप्य घट्टमपं पापमेनः पापा च पातकम् ।  
625 दुर्लिं वृजिनं पद्मधर्महथ दुःकृतम् ॥ १३२ ॥  
असत्यं वितर्यं कूटं मिथ्यालीकं मृगातृतम् ।  
सूर्ये तथ्यमृतं साम्यक् सूर्यतं च यथास्थितम् ॥ १३३ ॥  
विधिः यन्याचारमार्गा वृत्तं शीलं स्वभाववत् ।  
क्षान्तिः क्षमा निनिक्षा च तपस्या नियमस्तपः ॥ १३४ ॥

124 —d) B1 शागर्न for शागर्न.

132 —c) B2 वृवन for वृगिन.

134 —b) B1 मृभार for म्भाव.

उपग्रस्थोपवस्त ब्रत नियमग्रन्थम् ।	630
समाधिर्धारणा ध्यान प्रणिधान च चिन्तनम् ॥ १३५ ॥	
बुद्धिमेधा मति प्रज्ञा धिपणा धीक्ष शेषुगी ।	
मनीया प्रतिभा हति प्रेक्षा पण्डा च चेतना ॥ १३६ ॥	
चि सविज्ञानस्तिर्तिर्भगवो गेष्टम्ब्य ।	
तत्त्व रहस्य सारथ परमार्थक्ष निक्षय ॥ १३७ ॥	635
सिद्धान्ताग्रमसद्वातकृताता प्रोत्तय श्रुतम् ।	
समय प्रवचन सूत्र ग्राय शास्त्र च पुस्तकम् ॥ १३८ ॥	
राग्याय पठन याठोऽधीनिरध्ययन पठ ।	
जाप्य जापो जपो मने मानसे वचनेऽपि च ॥ १३९ ॥	
शब्दो नादो घटिर्धान निर्घोषो निष्पत्त त्वन ।	640
निर्णाद आरघो राघो निनादो निनदोऽपि च ॥ १४० ॥	
प्रतिनादः प्रतिशब्द प्रतिज्वान प्रनिश्चिति ।	
निदान कारण हेतु कृत्यर्थ प्रयोजनम् ॥ १४१ ॥	
दैवज्ञो गणको ज्ञानी मौहूर्तिको निमित्तवित् ।	
साक्षरो ज्योतिषिको उपोतिर्वेप्रश्नभित्ति स ॥ १४२ ॥	645
चिकित्सिको भिस्तर्यैयोऽगादगारथ रोगदृ ।	
चिकित्सितज्ञो दोषह भायुर्देशस्तु वैयर ॥ १४३ ॥	
न्युवेदक्ष यजुर्वेद सामवेदोऽप्यथर्वण ।	
शिला त्वयो व्याकरण छन्दोऽप्योतिर्तिरक्षय ॥ १४४ ॥	
पड़हा वेशाभ्यारो मीमांसारित्तिकी तथा ।	650
धर्मशास्त्र पुगाण च विद्या एतास्त्रुदर्शा ॥ १४५ ॥	

137 —a) B2 रि for विद्

141 —b) B2 श्रिधान for प्रशिधान —d) B2 अर्थ for अर्थ

142 —b) B2 शृङ्खर्त —c) B2 गवमर्त for गोरमर्त

143 —d) B2 देवर for देवर

144 —c) All mss गिरा for दिग्गा

145 —b) All mss भागिरिकी for भागिरिकी

देवाक्षयो देवगृहं चैत्यमायतनं मठः ।  
 विष्वं मूर्तिः प्रनिमाचर्चा महः पर्वं महोत्तवः ॥ १४६ ॥  
 जैना मीमांसका वौद्धाः शैवा वैशेषिका अपि ।  
 655 नैयापिकाथ सुख्यानि दर्शनानीह सन्ति पद् ॥ १४७ ॥  
 मोक्षोऽपवर्गो निर्वाणं सुक्तिनिःश्रेयसं शिवः ।  
 महोदयोऽमृतं सिद्धिः कैवल्यमपुनर्भवः ॥ १४८ ॥  
 कुशलं मङ्गलं भद्रं कल्प्याणं भावुकं शुभम् ।  
 क्षेमं भव्यं शिवं श्रेयः शास्तं स्वःश्रेयसं स्मृतम् ॥ १४९ ॥  
 660 स्वागतं स्वतिमेदं च स्वारथं वार्तागनामयम् ।  
 सदा ददातु सानन्दं चिदानन्दो जगत्प्रसुः ॥ १५० ॥  
 || इति पण्डितवर्गः ॥

इति भीष्मीत्युपाध्यायविरचितायां शारदीयाभिधार्या  
 लघुनाममालायां द्वितीयः काण्डः ॥ २ ॥

आद्याः क्षत्रिया वैश्याः शौद्धा चर्णचतुष्टयम् ।  
 665 प्रज्ञचारी गृही वानप्रस्थो भिक्षुरिहाथमाः ॥ १ ॥  
 मङ्गचारी तु वर्णा स्वादूहस्यः स्नातको गृही ।  
 धेखानसो वानप्रस्थो भिक्षुः सांन्यासिको यतिः ॥ २ ॥  
 परिवाट् परिक्षी च परिज्ञाजकनापसौ ।  
 पाराशरी मस्तकी च पापण्डाः सर्वलिङ्गिनः ॥ ३ ॥  
 द्विजातिर्तीक्षणो विप्रो भूदेवो वाढवो द्विजः ।  
 अप्रज्ञमा द्विजन्मा च पट्कर्मा सुखसंमवः ॥ ४ ॥

149 —b) B1.2 मादर्कं for भावुकं.

150 After st. 150 B4 adds:—

अन्तरम्भोवर्णीतारचिद्गायैः सुमंगृहीः ।

क्षेमिनीविकाराऽपोऽप्ये भिदपे हवेदीर्जिना ॥

2 —d) B2 संन्यासिको दरी for संन्यासिको दरी.,

3 —d) B2 पापण्डी for पापण्डाः.

यहो याम कतु सत्र सप्तवन्तुमर्होऽधर । 670  
 होमो होत्र वपटकारो हवन देवतर्पणम् ॥५॥  
 अजिन चम कृतिस्त्ववीर वस्त्र च वहकलम् ।  
 त्रितदिवेदिका वेदी मुहा स्या कन्दरा दरी ॥६॥  
 ॥ इति ब्रह्मवर्ग ॥

क्षत्रियो वाहुज क्षत्र राज्यो राजवशज ।  
 राजा राद् पार्थिन क्षमाभ्र महीक्षिनृपतिर्नृप ॥७॥ 675  
 प्रजापति क्षितिपतिर्नरदेवो नराधिप ।  
 भूप क्षितीशो भूषाल क्षोणीनाथो नरेभर ॥८॥  
 नरेन्द्रो भूपतिर्भूमुक् समाद् तु शास्ति यो नृप ।  
 चक्रवर्णी सर्वमौम सर्वदेशाधिपो हि य ॥९॥  
 नाथ प्रभु पति स्वामी विभु परिवृद्धोऽधिप । 680  
 ईश्वरो नायको नेता भर्तृद्व इन ईशिता ॥१०॥  
 राजविह त्वातपत्र छत्रमातपवारणम् ।  
 चामर बालब्यजन सिंहासन बृणासनम् ॥११॥  
 सभा समज्या परिषाससच्च समिति सद ।  
 गोद्धयास्थानी समाजक्ष पर्यत्सम्या समाजिका ॥१२॥ 685  
 अत पुर च शुद्धान्तोऽवरोधो वृप [ति<sup>१</sup>] क्षिय ।  
 महिधी पद्माङ्गी स्यात्सौमिद्वृक्ष कशुकी ॥१३॥  
 परिवार परिकर परिवर्ह परिच्छदः ।  
 प्रनिहारो द्वारपालो दीपारिकश वेत्रभृत् ॥१४॥

5 —b) B2 अभ्यर

10 —d) B1 भर्ता च for भर्तृद्व B2 ईशिता for ईशिता

11 —d) B2 सिंहासन गु

13 —a) B2 शुद्धान्त

14 —a) B2 परिच्छदे

- 690 अवसर्पं स्पशाभारो हेरिक प्रण(णि)घिश्वरः ।  
सदेशहारको दूतः पान्यस्तु पथिमोऽभग ॥ १५ ॥
- सेषक किंकरो भूयोऽनुजीव्यनुचरोऽनुग ।  
दास प्रेक्षो भूतकश्च चेट कर्मक्षोऽपि च ॥ १६ ॥
- पत्ति पदानिः पदग पुरोगामी पदातिरु ।  
695 भटा योगश्च योद्धारं सैन्याश्च सैनिका अपि ॥ १७ ॥
- शूरो चीरधारभटो विक्रात सुभटो वली ।  
कातरो भीरतो भीरु वादिशीको भयद्रुत ॥ १८ ॥
- पराक्रम पोरुष च बल शौर्यं च विक्रमम् ।  
शोज गणस्त्ररः स्थाम शक्तिर्यायं तथोऽर्जित् ॥ १९ ॥
- 700 आरन्त्रो इतु जगुर्मपक्षो द्विद् द्विपत्पर ।  
प्रत्यर्थी प्रत्यनस्याता सपलन शान्तमोऽहित ॥ २० ॥
- परिपन्थी प्रस्त्रनीको दस्युदुर्व्वदरातय ।  
अनीक कटक सैन्य चक्र दण्डो चल चमू ॥ २१ ॥
- वाहिनी घजिनी सेना पृतना च वरुधिनी ।  
705 अनीकिन्यक्षोहिणी च स्त्रन्वानार प्राकिनी ।  
इस्त्यस्त्रथपद्विध चतुरङ्ग चल स्मृतम् ॥ २२ ॥
- स्वात्सेनाक्षोहिणी नाम खागाष्टद्विने (२१८७०) मिजैः ।  
रथधैम्प्यो हथेलिन्ने (६५६१०) पञ्चमीष्ठ (१०९३५०) पदातिभि ॥ २३ ॥
- आधोरणो हस्तिपक्षो माहामात्रो निवायपि ।  
710 याता सादी वश्वारो नियन्ता सूतसारथी ॥ २४ ॥
- सेनाह वयच दशास्त्रसुन वर्म कङ्कट ।  
सारसन वधिराङ्ग वारगणस्तु कञ्चुक ॥ २५ ॥

17 —c) B2 भरा —d) B2 तेवरा for मेनिका

21 —d) B3 तन्मण्डा

25 —b) B2 पटक for कट्ट —b) B2 वञ्चुक

शिरस्त्रण तु शीर्षेण जालिका त्वङ्गरक्षिका ।  
शास्त्रमायुधमख च हेति प्रहरण स्मृतम् ॥ २६ ॥

धनु कोदण्डमिथासंधापो धन्य शरासनम् । 715

कार्मुक जीवा प्रत्यज्ञा ज्यामार्जसिज्जिनीगुणा ॥ २७ ॥

निपञ्चस्त्रणतटीयावृपासज्जस्तथेषुविदि ।  
इषुर्वीण शर पती काण्डो विशिख आद्युग ॥ २८ ॥

पृथक सायको रोपः कड्डपत्र शिलीमुख ।  
कलम्बाजिह्वगखाणा नाराचक्ष क्षुरप्रवत् ॥ २९ ॥ 720

खेमक पलक चर्म शखिका तु कृपाणिका ।  
असिवेनुसिपुत्री क्षुरिका क्षुरिका च सा ॥ ३० ॥

करवालासिनिर्जिनशक्तपाणतरवारय ।  
मण्डलाप्रभन्दहास खज्जकौक्षेयरिष्ट्य ॥ ३१ ॥

कुन्त प्रासस्तथा भङ्गो द्वुषणो मुद्रो घन । 725  
कुठार परक्षु पर्वी सुधितिक्ष परस्वध ॥ ३२ ॥

सप्राम समर युद्ध प्रबन सयुग रणम् ।  
जन्यमायोधन सख्यमाहव सपरायकम् ॥ ३३ ॥

संय समितिराजिर्युध ड्वामास्कन्दन सूधम् ।  
राटि समीक सस्फोटो विप्रह कलह कलि ॥ ३४ ॥ 730

थैतालिका बोधरुरा बन्दिन स्तुतिपाठका ।  
देशो जनपदो राष्ट्र नीढिप्रयमण्डले ॥ ३५ ॥

पूर नगर द्वङ्गो निवेशो नगरी पुरी ।  
स्थानीय निगमो प्राम पत्तन पुटमेदनम् ॥ ३६ ॥

वग्र शाल कोड्हुर्गी प्राकारो वरणथय । 735  
प्रलोली विशिखा रथ्या पुरद्वार च गोपुरम् ॥ ३७ ॥

तुरुष्का यवना म्लेच्छाः पारसीकाः शकास्तथा ।  
प्रष्टाना मुहूलाश्वेत स साहिस्तेषु योऽविषः ॥ ३८ ॥

740 सीतापतिर्दीशरथिः काकुस्त्यो भरताप्रजः ।  
खुनाथो रामचन्द्रः स्यात्सौमिप्रिस्तु लक्ष्मणः ॥ ३९ ॥

वैदेही मैथिली सीता जानकी पृथिवीसुता ।  
पौलस्त्यो रामणो रक्षो लक्ष्मेशो ददाकन्धरः ॥ ४० ॥

धर्मात्मजोऽजातशत्रुः शत्यारिश्च मुष्ठिष्ठिः ।  
भीमोऽरिवेक्तवीचक्षयोर्वायुपुत्रो बृकोदरः ॥ ४१ ॥

745 धनञ्जयोऽर्जुनः पार्थ इन्द्रपुत्रः कपिघ्वजः ।  
श्रेताश्वः फालगुनो जिष्णुः सब्यसाची च कर्णजित् ॥ ४२ ॥  
प(पा)श्चाली द्रौपदी कृष्णा याज्ञसेनी च वैदिजा ।  
हनूमानजनीपुत्रो मारुतिरेत्रकङ्कटः ॥ ४३ ॥

॥ इति राजवर्गः ॥

750 वैदेहिकक्षापणिको नैगमो वाणिजो वणिक् ।  
पश्याजीवः सार्थगाह. क्रयविकायिकः क्रयी ॥ ४४ ॥  
आपणो विपणिर्दृष्टस्तन्मार्गे स्याचतुष्पथः ।  
धान्यं शस्यं च तद्वेदा मुद्रगोधूमतन्दुलाः ॥ ४५ ॥  
अमत्रं भाजनं पात्रं पण्यं भाण्डं क्रयाणकम् ।  
वर्तनं जीवनं वृत्तिराजीयो जीविकापि च ॥ ४६ ॥

38 B3 missing cd

39 B3 missing -d) B2 नीभित्र for नीभित्रि

40 B3 missing

41 B3 missing

42 B3 missing

43 B3 missing

44 B3 missing. -d) B2 रिक्षक

45 B3 missing -b) B2 मार्गो for मार्गे B4 अनुभव

46 B3 missing

मूलद्रव्यं परिपणो नीती लाभोऽधिक फलम् । 755  
सत्यापनं सत्यंकारो मूल्यवस्त्वर्पवक्रयाः ॥ ४७ ॥

संपत्तिः श्रीर्विभूतिथ दश्मीसंपत्समृद्धयः ।  
श्रीमान्समृद्धो लक्ष्मीवानिन्य आद्यो घनेश्वरः ॥ ४८ ॥

आपद्विप[द्विप]तिथ दारिद्रं निःस्वर्निर्धनौ ।  
कर्दर्यः कृपणो लोभी बद्धमुष्टिर्मिनंपचः ॥ ४९ ॥ 760

गोकुलं तु ब्रजो धोयो गोष्ठुं गोपास्तु बल्लभाः ।  
दुग्धं पयोऽमृतं क्षीरं गोरसः क्षीरजं दधि ॥ ५० ॥

षृतमाण्यं हृषिः सर्पिः नवनीनं तु भक्षणम् ।  
उदधिन्मथिर्त तकमारनालं तु काञ्जिकम् ॥ ५१ ॥

हृविष्यानं तु क्षैरेयी परमानं च पायसम् । 765  
षृतपकं तु पकानं षृतपूरादिमेदवद् ॥ ५२ ॥

सूपः स्यात्प्रद्वित सूदोऽन्धः कूरं भक्तमोदनम् ।  
व्यञ्जनं तेमनं शाकः पूपः पूपा च पोलिका ॥ ५३ ॥

मोजनं जेमनाहासौ भक्षणं खादनाशने ।  
पिण्डासा तद् तृष्णोदन्या बुगुच्छा क्षुक्षुच्छा रुचिः ॥ ५४ ॥ 770  
खण्डस्तु मधुधूलिः स्यान्मस्यण्डी फाणिनं वरा ।  
सितोपला शर्किरा च सिताथेक्षुरसो गुडः ॥ ५५ ॥

47 B3 missing

48 B3 missing -a) B2 सप्तत् for सपत्ति -

49 B3 missing -a) B2 दरिद्र for दारिद्र

50 B4 missing धोयो अभि

51 B4 missing

52 B4 missing

53 B4 missing

54 B4 missing

55 B4 missing After st 55 B3 adds पूरा लोका प्रकृतदी जना  
पौराण नगरा ।

धेश्री जीवथ कृपिकृत्कर्पकथ कृषीपलः ।  
स्त्रं वप्रथ केदारो हलः सीरथ लाङ्गलम् ॥ ५६ ॥

- 775 कुम्भकारः कुलालथ कुम्भस्तु कलशो घटः ।  
स्वर्णकारः कलादथ मालाकारस्तु मालिकः ॥ ५७ ॥  
क्षुरमर्दी दिवाचीतिर्नपितोऽन्तापासाश्वपि ।  
मुण्डनं भट्टाकरणं नपनं परिवापनम् ॥ ५८ ॥  
वर्धकिः स्वपतिसाक्षा रथकारथ काष्ठनक् ।  
780 न्योरारो लोहकारथ शशमार्जोऽसिधावकः ॥ ५९ ॥  
ङ्गाजीवक्षित्रकारस्तन्तु[ स्तुन ]नायस्तु सौचिकः ।  
निर्णेजसः स्यादजफत्तन्तुवायः कुमिन्दकः ॥ ६० ॥  
चाक्रिकस्तैलिकस्तैली शिशिकारुककारवः ।  
कल्यपालः सुराजीनी शौणिङ्गिमो मण्डहारकः ॥ ६१ ॥  
785 मदिरा वारुणी मधु सुरा कादम्बरी मधु ।  
शुण्डा दालासपः सीधुर्गाल्वीकं कापिशायनम् ॥ ६२ ॥  
आमिनं पिदिनं मासं पल क्रव्यं च जङ्गलम् ।  
रुधिरे शोणितं रक्तमस क्षतजमयसृङ् ॥ ६३ ॥  
चूतनारोऽभद्रेवी चाशधूर्तं कितमथं सः ।  
790 दूतं दुरोदरं चाशवती पणथ कैतवम् ॥ ६४ ॥  
पाशका देवना अश्वाः सारयोऽष्टपदं फलम् ।  
स्तेनः पाट्वं दस्युधीरस्तस्करमोवर्ही ॥ ६५ ॥

56 B4 missing

57 B4 missing

58 B4 missing

59 B4 missing : -a) B2 नहो for नहा

60 B4 missing

61 B4 missing

62 B4 missing . B2 missing 62 a

63 B4 missing -b) B3 नहान् for नहा

64 B4 missing B2 om शिरथ न । एूदो —d) B3 नहा for नहा,

65 B4 missing

वैयर्तो धीवरो दासो वागुरिहस्तु जालिनः ।  
द्वन्धको मृगमुव्यधो मृगयाखेटसौ सप्तौ ॥ ६६ ॥

जीवान्तरः शाकुनिको पैतसिरहस्तु सोनिनः । 795  
पादूगचर्मकारक्षोपानलादूक्ष पादुका ॥ ६७ ॥

चाण्डालस्तु दिवाकीर्तिर्निपादथ जनगमः ।  
मातहृ श्वपचोडस्पृशोडन्तेशसी पुरवुक्षमौ ॥ ६८ ॥

इतरः प्राकृतो नीचं पागरथं पृथ्याजनं ।  
पुलिन्दः शम्बरो मिछः हिगतथं वनेचर ॥ ६९ ॥ 800

॥ इति शद्वर्गः ॥

उत्पत्तिर्जन्म जननमुत्पादो जनिरुद्धवः ।  
जीवित चासन् प्राणाः धासाथ असित मरुत् ॥ ७० ॥

युत्रा वयःस्थस्तरुणस्तारुण्यं यौवन वयः ।  
जरीयान्स्यविरो वृद्धो वर्धवय विक्षाता जरा ॥ ७१ ॥

गुणथानुत्तमः श्रेष्ठो योग्यः पूर्यो महान्युणी । 805  
श्रेयाञ्चिष्ठः सदाचारः साधुसम्यार्पिसज्जनाः ॥ ७२ ॥

विद्युतातः प्रथितो ज्ञातः प्रतीतो विश्वतोडपि च ।  
दातोदारो वशन्यथ त्राता गोता च रक्षकः ॥ ७३ ॥

कर्णेजपश्च पिशुनो द्विजिहो दुर्जनः खलः ।  
पापो धूर्त शठः कूः शुष्मो नीचोडघमोडनृजुः ॥ ७४ ॥ 810

66 B4 missing -b) B2 जालिना for जालिक

67 B4 missing B2 missing a -a) B1 3 जीवानिक for जीवान्तर  
—b) B :ीनिक for सौनिक

68 B4 missing -a) B2 चढाल -c) B2 गदर्द for अस्त्र॒

69 B4 missing -c) B2 मर for शम्बर

70 B4 missing

71 B4 missing

72 B4 missing -c) B1 शृङ for शिष्ठ

73 B4 missing -a) B2 शृणे

74 B4 missing -c) B2 transp पूर्ण and शठ

दत्तोऽभिमानी गर्विष्ठो गर्विनः स्तव्य उच्चतः ।  
 कलङ्को लाञ्छन लक्ष्म प्रिहमङ्कश्च लक्षणम् ॥ ७५ ॥  
 वैरं निरोधो दिव्यः शूङ्खलो निगडोऽन्दुकः ।  
 विज्ञोऽन्तरायः प्रत्यूहो रोगातङ्कगदामयाः ॥ ७६ ॥

- 816 पापाणः प्रस्तारे प्रावा दृष्टदश्मोपलः शिला ।  
 रेणुर्धूली रजः पाशुः पङ्कथिखिल्लर्दमौ ॥ ७७ ॥  
 व्यवसायोदयमोद्योगाभियोगोत्साहविकामाः ।  
 खुरली तु अमोऽम्यासः संवाहन तु मर्दनम् ॥ ७८ ॥  
 मिष्टं स्थादुक्ष मधुरः कपायस्तुरो रसः ।  
 820 पाचनोऽस्त्रो दन्तशठः कटुकः कटुरुपणः ॥ ७९ ॥  
 स्याद्वृत्तणः सर्वरसः क्षारस्तिकं तु तीक्षणवत् ।  
 रक्तः शोणोऽरुणस्ताम्भो लोहितः पाटलोऽपि च ॥ ८० ॥  
 शेतः शुक्लः सिनः शुभ्रो वलक्षो ध्यपलः शुचिः ।  
 गौरोऽगदातो विशदः पाण्डुः पाण्डुर उम्भपलः ॥ ८१ ॥  
 825 पीतो गौरो हरिदामः पालाशो हरितो हरित् ।  
 कालः इयामः सितिः कृष्णः इयामलो मेचकोऽसितिः ॥ ८२ ॥  
 नीलो रामोऽग्रनामक्ष कर्मुरादास्तु मिथ्रिनाः ।  
 युग्मं द्रवं युग्मं द्वंद्वमुग्मयं युग्मलं द्रवी ॥ ८३ ॥  
 यमलं मिथुनं द्वैतं प्रयं च त्रियं त्रयी ।  
 830 रामुहो निगहो व्यूहो वृद्धं चक्र कदम्परम् ॥ ८४ ॥

75 B4 missing -a) B2 इयो for दृष्टो -c) B2 लक्ष्म for लक्षण

76 B4 missing

77 B4 missing. -a) B2 प्रस्तारो for प्रस्तरो

78 B4 missing

79 B4 missing

80 B4 missing -c) B2 रक्त

81 B4 missing.

82 B4 missing -b) B2 दृष्टानी

83 B4 missing

84 B4 missing

ओघः संघो व्रजो वातो निकरः प्रकरथयः ।  
संदोहः संहतिः स्तोमो वारः समुदयो गणः ॥ ८५ ॥

समुदयः समवायो निकुरम्बं च संचयः ।  
जालः कलापः पटलः संवातः पूगभण्डलै ॥ ८६ ॥

राशि. पुञ्जोत्करी कूट जात यूर्यं मरः कुञ्चम् । 835  
ग्रामे वर्गः समाहारे निहायो निचयोऽपि च ॥ ८७ ॥

राजिर्मलागलिः श्रेणिस्ततिः पट्टिश्च धोरिणी ।  
सं॒ समस्तं सरुठं समप्र निखिलाखिले ॥ ८८ ॥

विश्वं कृत्यं तयारोप खण्डेऽप्यं शरुठं दलम् ।  
स्तोरु तुच्छं दन्त्रमस्यं मात्रा लेशः कणो लपः ॥ ८९ ॥ 840

अषु सूक्ष्म लघु श्लक्षण क्षामः क्षीणः कृशस्तनु ।  
बहिष्ठं प्रचुरु प्राज्य पुष्कलं बहुलं वद्ध ॥ ९० ॥

अद्भ्रं भूरि भूयिष्ठं भूयक्षं प्रबलोऽधिकः ।  
खर्पं दूस्तं वामर्तं च प्रलभ्य दीर्घमायतम् ॥ ९१ ॥

उच्च ग्राशूलनं तुङ्गं निश्च नीचं न्यगानतम् । 845  
विश्वं कुहर छिद्रं रम्बं गर्तवटी विलम् ॥ ९२ ॥

विचाळं तन्तरं मध्यमन्तरालं च मध्यमम् ।  
अगलं कुटिलं वक्तं सरलं प्रगुणो नदु ॥ ९३ ॥

बृहदिशालं विस्तीर्णं महच्च विपुलं पृथु ।  
कठोरः कटिनो रुक्षो निष्टुरः कर्कशः खरः ॥ ९४ ॥ 850

85 B4 missing -d) B2 वार, B3 वाप B1 2 युण for गण

86 B4 missing

87 B4 missing

88 B4 missing

89 B4 missing -c) B3 transp स्तोक and तुच्छ -d) B2 लेश

90 B1 4 missing

91 B1 4 missing

92 B1 4 missing

93 B1 4 missing -a) B3 वन्ते

94 B1 4 missing -After 91 ab. B3 adds रक्तां गरीष्म निष्पमूर्द न्यूद  
युरु रूदम् ।

तीनोमो दारुण धोरं दृग्मुदाममुक्तम् ।  
मुकुमारः मुक्तपर्वः कोमलो मृदुलो मृदु ॥ ९५ ॥

सुन्दर रुचिर रुच्य XXXX मनोहरम् ।  
मनोज्ञ मञ्जुल मञ्जु येशव वल्लु बन्धुरम् ॥ ९६ ॥

855 कान्त रम्य चारु हारि कमलीयं मनोरमम् ।  
हृष काम्य रमणीयं प्रशस्तं साधु शोभनम् ॥ ९७ ॥

मुख्यः प्रधानः प्रभरो वर्णोऽप्रयोऽप्रेतरोऽप्रणीः ।  
प्रशृष्टथ परार्थक्ष पुंगवः सत्तम परः ॥ ९८ ॥

पाररत्यः प्रथमः पूर्व वादिरायादिमोऽप्रिणः ।

860 जघन्यः पक्षिमोऽन्त्यथ पात्रात्यक्षमोऽन्तिमः ॥ ९९ ॥  
पूर्व पवित्र मैथ्यं च मलिन च मलीमसम् ।

निर्णिक्त क्षाद्वित धौतमुड़वं निर्मितं शुनि ॥ १०० ॥

समान सद्वा XX सकाशा. संलिमः समः ।

अनुहारमोपमानं समकक्षा तुलोपमा ॥ १०१ ॥

865 समीप निरुट पात्र्यं सतयाम्यण्णमन्तिरम् ।  
उपरुण्ठ सनिधानोगन्ते सविधसनिदी ॥ १०२ ॥

निप्रकृष्ट पर दूरं ध्रुवं निल च शास्त्रतम् ।

चञ्चलं चपलं लोलं तरलं चटुलं चटम् ॥ १०३ ॥

वैलिन प्रेहित धूतमान्दोलिन च वीजितम् ।

870 दोला ग्रेहोलन प्रेष्ठा हिन्दोलक्षापहिन्दितम् (२) ॥ १०४ ॥

95 B1 4 missing

96 B1 4 missing

97 B1 4 missing

98 B1.4 missing

99 B1 4 missing -b) B2 आय for आरि

100 B1 4 missing

101 B1 4 missing B3 om 101

102 B1 4 missing -a) B2 उपचर्व for पार्व

103 B1 4 missing

104 B1 4 missing

सहन मेदुर सान्द्र नीरन्ध्र निविड दद्म् ।

प्रकट हु सुठ सृष्ट प्रकाश व्यक्तमुखगम् ॥ १०५ ॥

त्वरित स र शीप्र तण्ण क्षिप्र द्रुत लघु ।

जयो वैगो रथो रहस्तरो मन्दे तु मायर ॥ १०६ ॥

अयर्ये निर्भर तीव्र गाढ बाढ दद्म भृशम् ।

875

पूरित भरित पूर्ण शन्यरिक्ताखिलोदसा ॥ १०७ ॥

रकुलाचुचमकीर्णकीर्णराशाधसक्ता ।

परीन निनित व्याप्त दिघलिस्ताकुण्डिता ॥ १०८ ॥

सपृक्तः खक्षितो भिन्न समलित करम्बित ।

आक्षित सहितो युक्त समवेत समन्वित ॥ १०९ ॥ 880

सिद्धे निर्वृत्तनिष्पक्ते निर्मितो विहित कृत ।

रम्बमासादित प्रात व्यक्तमुसृष्टमुञ्जितम् ॥ ११० ॥

उरीकृत प्रतिज्ञातमर्हीकृत प्रतिष्ठितम् ।

प्रस्थापित प्रतिसृष्ट प्रदित ब्रेवितोऽपि च ॥ १११ ॥

रुद्र निरोहित छन द्यादित विहितावृते ।

885

उपादितमुन्मृक्षितमुख्यात भग्नमुकृतम् ॥ ११२ ॥

उक्त जटिपतमाद्यात भाषित कथितोदिते ।

प्रतिकूल विलोम च प्रतीप वामभेव च ॥ ११३ ॥

ज्ञात मुद्रमवसित विदितावगते अपि ।

\*यस्मासस्तु विपर्यासो वैपरीय विपर्यय ॥ ११४ ॥

890

105 B1 4 missing

106 B1 4 missing

107 B1 4 missing -c) B3 घृणित for पूरित -d) B3 om रिक्ता

108 B1 4 missing

109 B1 4 missing

110 B4 missing B1 missing 110 ab

111 B4 missing

112 B4 missing a) B2 रुद्र

113 B4 missing B3 om 113 cd

114 B4 missing After st 114 B3 adds प्रानेकूल विलोम च प्रारीय  
वामभेव च ।

प्रत्यादिष्ट प्रतिसिंह निरस्त नुकीरितम् ।  
थ(थ)स्तं भ्रष्टं च प्रदक्षिणं पवित गलिनं च्युतम् ॥ ११५ ॥

अन्वेषितं गवेषितगच्छिष्ठे गार्गीत तथा ।  
घेदितं खण्डितं कृतं ठिक्क द्वन ठिक्क दिनम् ॥ ११६ ॥

895 पाटितं दातितं भिन्नं पिदे ठिपितवेवितो ।  
बद्धो निगडितो नदः कीलितो यन्त्रितः सिनः ॥ ११७ ॥  
दग्धः प्रज्वलितः धूद्धो हेतिर्ज्वालाशिवार्जितः ।  
आङ्गरेज्जालै रक्षा तु भसितं भरम भूतिन्त ॥ ११८ ॥

900 आद्रं तु लिपितं क्लिन शुष्कमाश्यालनीरसी ।  
निशिनं नेजिते तीक्ष्णे कुण्ठित वेगवर्जितम् ॥ ११९ ॥  
वर्तुरं मण्डलं वृत्त निस्तलं वलयाकृतिः ।  
असं कोटिरपि: कोण ग्रान्तं पर्यन्तप्रत्यन्तप्रत् ॥ १२० ॥

सदेहः संशयो रेको निष्पयो निर्णयोऽपि च ।  
तथा विश्रामविश्वासप्रतीतिप्रत्ययाः समाः ॥ १२१ ॥

905 आर्भच्छाडम्बराटोपाः व्यापप्रसरमृडनाः ।  
आधारः स्यादवष्टमः स्यादालम्बनमाथयः ॥ १२२ ॥

स्थरूप लक्षणं भावो रूपधर्मागरीतयः ।  
सृष्टिः सर्गेष्व निर्माणं करणं घटन कृति ॥ १२३ ॥

जग्मूः पूक्ष. शाल्मलिक्ष कुशः कोङ्काभिधस्तथा ।  
910 शारदीयः पुष्कराख्यः सप्त द्वीपा इमे स्मृताः ॥ १२४ ॥  
लक्षणक्षीरदध्याज्यसुरेधूस्तगदुसागरा ।  
भारताख्ये किंपुरुष द्विवर्णगित्वावृतम् ।  
रम्पकाख्य पश्चमक खण्ड पष्ठ हिरण्मयम् ॥ १२५ ॥

115 B4 missing

116 B4 missing अन्वेषित गवेषित

119 —b) B2 नीतसे

कुहलण्ड च भद्रालय केतुमालमिति स्मृतम् ।  
एतानि नव सणानि जग्द्वीरविभागत ॥ १२६ ॥ 915  
 वीणापारणवाजिसिंहहरिगानक्षप्रगालाचला  
 चद्रथानरचन्द्रीकजलमुक्तापासिनज्ञ हय ।  
 हस खोलिठकेविरीरगुड स्वर्णानिलार्वस्तमो  
 गुज्जा थीफलपदारीपवटीना सारङ्गशब्दा इमे ॥ १२७ ॥  
 श्रीसिंह च वृषो शुके हरिहरे च मीरे भारीवे 920  
 चद्रेमे वनिराजभाजियहने वदो यमे पारदे ।  
 नागे वर्णसमीरेऽपि दहने स्फदे च सक दने  
 मार्त्तेऽशनिपलगेभरदिने खड्गहरि वीरित ॥ १२८ ॥  
 अर्द्धमर्केटमण्डुरविष्णुग्रसरमय ।  
 हुङ्कर्सिंहशीर्णशुभ्रमाक्ष हरयो दश ॥ १२९ ॥ 925  
 दिग्दिविधिनिर्वर्गवज्रगामवाणवारिपु ।  
 भूमी पश्ची च गो द्वो विद्वद्विदेशाधा मत ॥ १३० ॥  
 ॥ इति श्रीत्वर्णवर्गं ॥

महाक्षविद्युद्ददसवीर्णारथैर्मनोरमे ।  
 वर्मरत्नीय माण्डोऽय पूर्णिनो हर्षशीरिता ॥ १३१ ॥  
 श्रीमन्नागपुरीयाहयतपाग-द्वाधिषा सज्जना 930  
 सुरथीद्रभुच्छक्षेतिगुरवस्तेवा पद नुभवात् ।  
 भूषभिवजनोचिता लकुरा श्रीगमगालामिमा  
 चक्र फटरहर्षनीतिरविग्रह शेताम्बरग्रामणी ॥ १३२ ॥  
 भूद्वीपर्णसिरिदिनम समुद-  
 पातलद्विग्रहग्रामवायुनानि यापत् । 935  
 यान्मुद विरतो भुवि पुण्डरातो  
 तामस्तिग विजयता दन नाममाणा ॥ १३३ ॥  
 ॥ इति धीशारदीयाम्याममाणा सपुर्णा ॥

---

# GLOSSARY

[Figures indicate line numbers]

अ अंश m shoulder 427 अंशु m ray 141 अंगुक n garment 468 अंगुमत् m the individual soul 400 अंगुमालिन् m the sun 128 अहम् n sin 625 अदि m foot 445 अद्रिप m tree 282 अद्वार m sea ocean 224 अप p p smeared 878 अप्त n an organ of sense 399 अप्त m die 791 अप्तदेविन् m gambler 789 अप्तपूर्ण m gambler 789 अप्तमा f envy jealousy 536 अप्तचर्ती f gambling 790 अप्तान्ति f envy, jealousy 536 अप्ति n the eye 419 अप्ताहिणी f army 705 अप्तिल a all whole 838 अपाद्यार m physician 646 अपाम m tree 283 अपारु m fragrant substance 489 अपस m tree 283 अपसि m The sage Agastī 152 अपोचर m Brahman 9 अपि m fire 331 अपिभू m N of Kārttikeya 67 अपाजगमन् m brahmin 669 अपाधिन् a chief 857 अपिम a first 859 अपेसर a foremost 857 अप्त a chief 857 अप्त n sin 625 अप्त m the sap 437 अप्त m mark 813 अप्तपाली f embrace 512 अप्त m body 397 अप्तर m son 381 अप्तय(ण) n court yard 500	अन्द n armlet 459 अन्ना f woman 364 अङ्गरधिका f armour 713 अन्नराग m smearing 467 अन्नविक्षेप m kind of dance or movement of the limbs 568 अन्नस्तकार m decoration of the body 491 अन्तार m kind of dance 568 अन्तार m charcoal 898 अन्तरुक m the planet Mars 146 अन्तिका f bodice 476 अन्तिरस m epithet of Bhṛaspati 147 अन्तिकृत a accepted 883 अन्तुल m thumb 429 अन्तुलि f finger 429 अन्तुलीयक n finger ring 460 अन्तुष्ट m the thumb 429 अचल m mountain 215 अचला f the earth 211 916 अच्युत m N of Viṣṇu 21 अज m epithet of Brahman 18 अज m goat 330 अजात्यन n silence 550 अजात्यातु m epithet of Yudhiṣṭhīra 743 अ[ आ ]जानेय m species of horse 312 अनिन n hide (of an antelope) 672 अनिर n court yard 500 अनिश्चय m arrow 720 अज m fool 594 अन्तल m the end of a garment 469 अजन n black pigment 455 अजनाम a dark-blue 827 अजनीय m N of Hinumān 748 अट्टीय f forest 280 अट n upper storey 501 अट्टालक n upper storey 501 अणि f corner 902 अणिमत् m one of the eight powers of siddhis 354
---	---

अणु *a* small, little 841  
 अण्डन *m* bird 197  
 अण्डज *m* fish 243  
 अरथपूर्ण *a* excessive 875  
 अथवण *m* the Atharvaveda 648  
 अद्भुत *a* plentiful much 843  
 अद्भुत *n* wonder 529  
 अद्भुत *m* N of a sentiment 583  
 अदिति *m* mountain 216  
 अधर *m* lip 421  
 अधर्मी *m* wicked person 810  
 अधिक *a* much, abundant 843  
 अधिकार *n* military girdle 712  
 अधिप *m* lord 680  
 अधिवासा *n* scenting with perfumes 481  
 अध्याति *f* study 638  
 अधोऽङ्गुक *n* under garment 478  
 अधाक्षर *m* N of Visnu 31  
 अज्ञयन *n* study 638  
 अप्यापक *m* teacher 596  
 अप्यवर *m* traveller 691  
 अप्यवन् *m* way 318  
 अप्यवर *m* sacrifice 670  
 अन *m* chariot 314  
 अनह *m* god of love 57  
 अनहम् *m* name of Kama deva 916  
 अनहृत्वन् *m* bull 320  
 अनहृष्टाही *f* cow 322  
 अनस्ति *n* sky 119  
 अनस्ति *m* N of Sesa 296  
 अनस्ति *f* the earth 211  
 अनस्ति *m* god of love 61  
 अनल *m* fire 331  
 अनाद्र *m* disrespect 616  
 अनिष्टिप *m* fish 244  
 अनियुति *f* uneasiness anxiety 551  
 अनिल *m* wind 203  
 अनीक *n* army 703  
 अनीतिना *f* army 705  
 अनुकम्पा *f* compassion 525  
 "अनुकोशा *m* compassion 525  
 अनुग *m* servant 692  
 अनुप्रह *m* favour 526  
 अनुचर *m* servant 692

अनुचिन् *m* servant 692  
 अनुनय *m* conciliation 562  
 अनुयाग *m* inquiry 564  
 अनुयादिन् *m* parrot 189  
 अनुहार *m* similarity 864  
 अनूचान *m* one well versed in the Vedas 597  
 अनूकु *m* wicked person 810  
 अनृत *n* falsehood 626  
 अनेकप *m* elephant 309  
 अनोकह *m* tree 282  
 अन्त *m* end limit 902  
 अन्तरक *m* N of Yama 110  
 अन्तराय *m* obstacle 814  
 अन्तराल *n* middle part 847  
 अन्तरिक्ष *n* the sky 118  
 अन्तराय *n* under-garment 478  
 अन्त करण *n* mind 403  
 अन्तु पुर *n* harem 636  
 अन्तावसायिन् *m* barbar 777  
 अन्तिक *a* near 865  
 अन्तिम *a* last 860  
 अ-तेवासिन् *m* pupil 598  
 अन्तोवासिन् *m* candala 798  
 अन्त्य *a* last 860  
 अ-दुक *m* chain 813  
 अन्धकार *n* darkness 160  
 अ-वकारि *m* N of Siva 46  
 अन्धतमस *n* darkness 161  
 अन्धम् *m* god 73  
 अन्धु *f* well 249  
 अ-व्रय *m* family race 388  
 अन्विष्ट *p* *p* searched sought 893  
 अ-विष्ट *p* *p* searched for 893  
 अपविति *f* worship offering 606  
 अपाय *n* offspring 385  
 अपत्रपा *f* bashfulness 517  
 अपमानता *f* disrespect 617  
 अपराध *m* fault 544  
 अपणा *f* N of Parvati 54  
 अपवरक *m* inner apartment 499  
 अपवर्गी *m* final emancipation 656  
 अपवाद *m* censure, reproach 615  
 अपहिति (?) *n* swing 870  
 अपाकृदर्शन *n* side glance 420

अपान *n* anus 443  
 अपित्र *n* fire 333  
 अप्सरस् *f* nymph 99  
 अपवा *f* woman 362  
 अप्तम् *m* the moon 136  
 अप्त *n* lotus 257  
 अपित्रनी *f* lotus plant 261  
 अप्तम् *m* year 166  
 अपिष्य *m* sea, ocean 225  
 अपिधननिदनी *f* N of Lakṣmi 50  
 अपिधय *m* N of Agastya 153  
 अपिधमन्दिर *m* epithet of Varuna 107  
 अपिधवलमा *f* river 230  
 अपिवशायिन् *m* N of Viṣṇu 29  
 अभिक *m* husband 372  
 अभिरथ्या *f* splendour, lustre 494  
 अभिजन *m* family, race 388  
 अभिधा *f* name 618  
 अभिपान *n* name 618  
 अभिनय *m* dramatic action 568  
 अभिश्राप *m* opinion 527  
 अभिमान *m* pride 533  
 अभिमानिन् *a* proud 811  
 अभियोग *m* effort 817  
 अभिलाप *m* desire 532  
 अभिवादन *n* bow 602  
 अभिपत्न *m* jealousy 536  
 अभ्यर्थी *m* *f* *n* near 865  
 अभ्यास *m* practice, study 818  
 अभ्युधान *n* rising in honour of 607  
 अभ्र *n* sky 117  
 अभ्र *n* cloud 173  
 अमर *m* god 70  
 अमय *n* pot, vessel 753  
 अमर *m* anger 535  
 अमरात्री *f* N of Indra's city 89  
 अमर्य *m* god 72  
 अमृत *m* god 73  
 अमृत *n* nectar 87  
 अमृत *n* water 221  
 अमृत *n* final beatitude 657  
 अमृत *n* milk 762  
 अम्बा *n* the eye 418  
 अम्बर *n* the sky 118  
 अम्बर *n* garment 468

अम्बा *f* mother 379  
 अम्तु *n* water 220  
 अम्बुज *n* lotus 257  
 अम्बुद *m* cloud 175  
 अम्बुष्ट *m* cloud 173  
 अम्भस् *n* water 220  
 अम्भाज *n* lotus 258  
 अम्भानी *f* lotus plant 261  
 अम्भोधर *m* cloud 175  
 अम्माहृ *n* lotus 254  
 अम्ल *a* sour 820  
 अपन *n* year 162  
 अप्यन *n* way, road 319  
 अरण्य *n* forest 280  
 अरविन्द *n* lotus 253  
 अराति *m* enemy 702  
 अराळ *a* crooked 848  
 अरि *m* enemy 700  
 अरुज *m* god 74  
 अरण *m* the sun 131  
 अरण *a* red 822  
 अरण्यानुग *m* N of Garuḍa 193  
 अर्क *m* the sun 121  
 अर्चा *f* worship 606  
 अर्चा *f* idol, image 653  
 अर्चि *m* *f* flame 897  
 अर्चिन् *n* ray 142  
 अर्जुन *m* Arjuna 745  
 अरुनी *f* cow 323  
 अर्णी *m* water 220  
 अर्णव *m* sea, ocean 225  
 अर्थ *m* wealth 352  
 अर्थ *m* motive 645  
 अर्थिन् *m* suppliant 622  
 अरहना *f* asking, begging 620  
 अर्द्ध *n* half 839  
 अर्द्धत् *f* glance 420  
 अर्गेक *m* child 392  
 अर्यमन् *m* the sun 124  
 अर्यन् *m* horse 311  
 अरहणा *f* worship 606  
 अद्वा *m* lord god 12  
 अर्द्धकार *m* ornament 446  
 अर्टेक *m* waist (?) 438  
 अलक *m* hair 406

अलकापति *m* epithet of Kubera 106  
 अलंक *m* red lac 465  
 अलि *m* bee 268  
 अलिक *n* forehead 415  
 अलीक *n* forehead 415  
 अलीक *a* false 626  
 अत्य *a* little 840  
 अवगानना *f* disrespect 617  
 अवगत *p p* known, understood 889  
 अवज्ञा *f*, disrespect 616  
 अवट *m* hole, cavity 846  
 अवतंस *m* ornament worn on the head 449  
 अवदात *a* white 824  
 अवधि *f* boundary 559  
 अवनि *f* the earth 211  
 अवरोध *m* harem 686  
 अवर्णवाद *m* reproach, censure 614  
 अवलम्ब *n* the waist 438  
 अवलितता *f* pride 534  
 अवधन्म *m* support 906  
 अवसर *m* time 543  
 अवसर्प *m* spy 690  
 अवसित *p p* known, understood 889  
 अवहेला *f* disrepect 617  
 अवि *m* ram 329  
 अदान *n* eating 769  
 अदीला *f* unchaste woman 392  
 अशेष *a* all, whole 839  
 अदमन् *n* stone 815  
 अध *m* horse 310  
 अध्यादार *m* horse-man 710  
 अधा *f* mare 313  
 अधिनीयुष *m* *du* the physicians of gods 94  
 अष्टपाद *m* the fabulous animal Sarabha 305  
 अष्टमूर्ति *m* N of Siva 44  
 अष्टालया *f* bedstead (?) 507  
 अटापद *n* game board 791  
 अष्टपद *n* gold 347  
 अटीवत् *m n* knee 444  
 अस्ती *f* unchaste woman 392  
 असाध *n* lie 626  
 अति *m* sword 723

असित *m* the planet Saturn 150  
 असित *a* black 826  
 असिधावक *m* armourer 780  
 असिषेतु *f* knife 722  
 असिषुद्धि *f* knife 722  
 असुर *n* pain, agony 553  
 असुर *m* demon 113,115  
 अस्या *f* malice, envy 536  
 असृत *n* blood 788  
 अस *n* weapon 714  
 अस्वम *m* god 74  
 अस्त्रिय *m* Cāṇḍala 798  
 अस *n* blood 783  
 अस *m* corner, angle 902  
 अहंकार *m* pride 533  
 अहन् *n* day 156  
 अहर्षति *m* the sun 130  
 अहमुरु *n* day break, dawn 157  
 अहस्तक *m* the sun 123  
 अहि *m* serpent 290  
 अहिक *m* N of Ketu 152  
 अहित *a* disagreeable 544  
 अहित *m* enemy 701  
 अहिप्रिय *m* wind 205  
 अहिविकासभाङ् *n* lotus 258

## आ

आकर्ष *n* dress 471  
 आर्त( का )रण *n* invitation 619  
 आकाश *n* sky 117  
 आकीर्ण *a* filled with 877  
 आङ्गुल *a* filled with 877  
 आहृत *n* meaning, intention 527  
 आक्रोश *m* curse 557  
 आसेप *m* censure, reproach 557  
 आखण्डक *m* epithet of Indra 79  
 आखेन्क *m* chase 794  
 आत्या *f* name 618  
 आत्यात *p p* said 887  
 आग *m* fault 544  
 आगम *m* the Vedas 636  
 आगार *n* house 497  
 आगृ *f* promise 610  
 आसारी *f* south east 170  
 आनार *m* custom 628

आचार्य m teacher 597  
 आजि m f. battle 729  
 आजीव m livelihood 754  
 आजु f order 609  
 आज्ञा n ghee 763  
 आज्ञा m N of an ocean 911  
 आज्ञाप m pride arrogance 905  
 आडम्बर m pride, arrogance 905  
 आश्च a rich 758  
 आतङ्क m fear 540  
 आतङ्क m disease 814  
 आतपन n umbrella 682  
 आतपवारण n parasol 682  
 आतोद्ध n musical instrument 575  
 आत्मज m son 381  
 आत्मन् m the individual soul 400  
 आत्मभू m N of Brahman 19  
 आत्मराति f nature 907  
 आदर m respect 607  
 आदर्श m mirror 492  
 आदि a first 859  
 आदितेय m god 72  
 आदित्य m god 70  
 आदित्य m the sun 120  
 आदिम a first 859  
 आदेश m order 609  
 आद्य a first 859  
 आधार m support 906  
 आधि f agony 552  
 आधोरण m elephant driver 709  
 आठक m kettle drum 580  
 आनत a low 845  
 आनंद n drum 577  
 आनन n the mouth 414  
 आनन्द m joy 519  
 आदालित a shaken, trembled 869  
 आग्निक्षिकी f logic 650  
 आप m water 222  
 आराम f river 229  
 आषण m market place 751  
 आपणिक m merchant 749  
 आपद f adversity 759  
 आर्पित m chaplet tied on the crown  
     of the head 449  
     l. no. 466

आभरण n. ornament 446  
 आभरण n nose-ornament (?) 454  
 आभील n injury, pain 554  
 आभय m disease 814  
 आमिष n flesh 787  
 आमोद m fragrance, perfume 482  
 आज्ञाय m tradition 611  
 आञ्ज m mango-tree 286  
 आयत a long 844  
 आयतन n sanctuary 652  
 आयास m exertion, effort 555  
 आयुध n weapon 714  
 आयुर्वेद m physician 647  
 आयाधन n battle 723  
 आर m the planet Mars 148  
 आरानाल n gruel (= Mar काजी) 764  
 आरानंद m hero 696  
 आरव m sound 641  
 आराधना f service devotion 605  
 आराम m grove 278  
 आराह m woman's waist, the buttocks 440  
 आर्ति f distress 554  
 आद a wet 899  
 आरंटी f pride, self conceit 905  
 आय a respectable 806  
 आपुष्म husband 373  
 आर्या f N of Pārvati 54  
 आलङ्घन n support 906  
 आलय m house 498  
 ओलिङ्ग n embrace 511  
 आली f female companion  
     (of a woman) 395  
 आवर्त m whirl pool 236  
 आवलि f line, row 837  
 आवाप m bracelet 461  
 आवास m house 496  
 आवृत्त p p concealed hidden 885  
 आसय m meaning, intention 527  
 आसा f quarter 168  
 आसाविष्य m. serpent 294  
 आसुग m wind 205  
 आसुग m arrow 718  
 आसुगसुगि m fire 333  
 आस्त्र n wonder 529  
 आस्यान m f n dried up 899

आश्रय *m* house 498  
 आश्रय *m* support 906  
 आश्रयात् *m* fire 335  
 आश्रय *m* promise 610  
 आश्रित *a* accompanied 880  
 आसन *n* seat 506  
 आसव *m* wine, liquor 786  
 आसादित *a* obtained 882  
 आसु *m* pl. life 802  
 आस्कन्दन *n* battle 729  
 आस्तिक *m* pupil 599  
 आस्थानी *f* assembly 685  
 आस्य *n* the mouth 414  
 आधप *m* demon 116  
 आहय *m* battle 728  
 आहार *m* eating food 769  
 आद्य *m* name 618

इपुषि *m* quiver 717  
 इष्टगान्धि *m* fragrance 483  
 इष्यास *m* bow 715

## इ

ईक्षण *n* the eye 418  
 ईरित *p p* said 891  
 ईपा *f* malice, envy 536  
 ईश *m* N of Siva 40  
 ईशान *m* N of Siva 40  
 ईशानी *f* the north-east 171  
 ईशिगृ *m* lord 681  
 ईशिव *n* one of the eight powers or siddhis 355  
 ईशर *m* Lord 681  
 ईश्वरा *f* N of Parvati 52  
 ईश्वरी *f* N of Parvati 51

## उ

उक *p p* spoken, uttered 887  
 उक्ति *f* speech 563  
 उधन् *m* bull 320  
 उम *m* N of Siva 38  
 उम *a* dreadful 851  
 उच्च *a* high 845  
 उच्चे अवस् *m* Indra's horse 92  
 उच्छ्रृङ्ख *n* pillow 509  
 उज्ज्विभत *n* full blown flower 275  
 उज्जित *a* abandoned 882  
 उज्ज्वल *a* white 824  
 उज्ज्वल *a* clean, clear 862  
 उदु *f* star 139  
 उद्गुप *n* raft 241  
 उद्गुपति *m* the moon 136  
 उत्कट *a* excessive 851  
 उत्कण्ठा *f* eagerness 549  
 उत्कर *m* heap multitude 835  
 उत्कलिका *f* wave 235  
 उत्कलिका *f* anxiety, eagerness 549  
 उत्पात *p p* uprooted removed 886  
 उत्सर *m* garland in the hand 449  
 उत्सम *a* the best 805  
 उत्तमाला *n* the head 405  
 उत्तर *n* reply 564  
 उत्तरा *f* the north 171  
 उत्तराशापति *m* epithet of Kubera 106

## इ

इक्षु *m* N of an ocean 911  
 इक्षुरस *m* unrefined sugar 772  
 इक्ष्याल (?) *m* charcoal 898  
 इक्ष्या *f* desire 532  
 इतर *m* low man 799  
 इखरी *f* unchaste woman 392  
 इन *m* the sun 128  
 इन *m* lord 681  
 इन्दिन्दिर *m* bee 267  
 इन्दिरा *f* N of Lakshmi 0  
 इन्दीवर *n* lotus 263  
 इन्दू *m* the moon 135  
 इन्दुमोलि *m* N of Siva 48  
 इन्दुरस्तु *f* moon light 138  
 इन्द्र *m* Indra 77  
 इन्द्र *m* lord 681  
 इन्द्रपुत्र *m* N of Arjuna 745  
 इन्द्राणी *f* Indra's wife 87  
 इन्द्रावर्त *m* N of Visnu 28  
 इन्द्रिय *n* organ of sense 399  
 इभ *m* elephant 307  
 इभ्य *a* rich 758  
 इला *f* the earth 214  
 इलावत *n* one of the nine divisions of the earth 912  
 इपु *m* arrow 718

उच्चासहरा *m* upper garment 472  
 उच्चारीयक *n* upper garment 475  
 उच्चावधारज *m* N of Dhruva 152  
 उत्पत्ति *f* birth, origin 801  
 उत्पल *n* lotus 262  
 उत्पादित *p p* removed, uprooted 886  
 उत्पाद *m* birth 801  
 उत्पुल *n* full blown flower 276  
 उत्पद्धर *m* the lap 437  
 उत्साह *m* effort, energy 817  
 उत्सृष्ट *a* abandoned 882  
 उद्धिकृत *n* butter milk 764  
 उदक *n* water 221  
 उदय *m* sea ocean 223  
 उदन्त *m* news report 560  
 उदम्या *f* thirst 770  
 उद्दन्वत् *m* sea ocean 225  
 उद्यान *n* well 249  
 उदयम् *m* N of a mountain 914  
 उदयपदि *m* N of a mountain 218  
 उद्दर *n* the belly 435  
 उद्दार *a* liberal, munificent 808  
 उद्दित *p p* spoken, uttered 887  
 उद्गम *a* excessive 851  
 उद्गृह *a p p* uprooted, removed 886  
 उद्भव *m* birth 801  
 उद्यम *m* business effort 817  
 उद्यान *n* garden 278  
 उद्याप *m* business 812  
 उद्युक्त *a* empty 816  
 उद्युक्त *n* son 380  
 उद्योग *m* marriage, wedding 369  
 उद्योग *m* anxiety, sorrow 552  
 उद्यत *a* elevated proud 811  
 उन्मादन *m* N of one of the five  
     arrows of Cupid 64  
 उन्मिष्यित *n* full blown (flower) 275  
 उन्मूलित *p p* removed, uprooted 886  
 उपकरण *a* near 866  
 उपकारि *f* censure, reproach 614  
 उपहृत *n* embrace 511  
 उपप्रद *n* offering, present 605  
 उपदात *f* present 605  
 उपदेह *m* teacher 596  
 उपपाद *n* pillow 509

उपरिः *f* fraud, deceit 537  
 उपबृह *n* pillow 509  
 उपमा *f* comparison 864  
 उपमान *n* resemblance 864  
 उपथम *m* marriage 368  
 उपल *m* stone 815  
 उपलभिः *f* knowledge, intellect 634  
 उपवन *n* grove, garden 279  
 उपवस्त *n* fast 630  
 उपवास *m* fast 630  
 उपस्थ *n* the organ of generation 441  
 उपहर *m* offering 606  
 उपाशु *m* secrecy 542  
 उपाख्याय *m* teacher 596  
 उपानहृ *f* shoe 796  
 उपास्त *a* near 866  
 उपायन *n* present gift 608  
 उपालम *m* reproof 558  
 उपास्ति *m* worshipper 599  
 उपासहरा *m* quiver 717  
 उपास्ति *f* service devotion 605  
 उपेन्द्र *m* N of Visnu 24  
 उपय *n* pair 828  
 उपाः *f* N of Parvati 52  
 उपापत्ति *m* N of Siva 43  
 उपर *m* serpent 291  
 उपरि *m* ram 329  
 उपरि *m* ram 329  
 उपरु *n* bosom, breast 433  
 उपरिहृन *a* accepted 883  
 उपरिः *m* the female breast 434  
 उपरिः *f* N of an apsaras 96  
 उपरि *f* the earth 213  
 उपर्यण *a* clear, manifest 872  
 उपर्योग *m* awning 510  
 उपरोल *m* wave 236  
 उपरस्त *m* N of Sukra 149  
 उपरा *a* pungent 820  
 उपर्यव *m* fire 738  
 उपसु *f* day break, dawn 157  
 उष *m* camel 324  
 उष *a* hot 145  
 उषागदिम *m* the sun 127  
 उषोग्र *m* turban 471  
 उष्णित *n* crown 448  
 उष्म *m* ray 141

अ

- अडा *f* wife 376  
 अङ्ग *m* the thigh 443  
 अङ्गवंश *m n* knee 444  
 अज्ञासु *n* vigour 699  
 अत्तर्वलोक *m* heaven 76  
 अस्मि *f* wave 235  
 अस्मिका *f*, finger ring 460

ऋ

- ऋग्य *n* wealth 352  
 ऋषि *n* star 139  
 ऋग्यद *m* the Rgveda 648  
 ऋशु *a* straight 848  
 ऋतु *n* truth 627  
 ऋतु *m* season 162  
 ऋभु *m* God 74  
 ऋशुराज *m* N of Indra 84  
 ऋपम *m* a musical note 569  
 ऋषि *m* ascetic 601

ए

- एकदन्त *m* epithet of Ganesa 6  
 एकपिण्डि *m* N of Kubera 104  
 एकान्त *n* secrecy 542  
 एटक *m* ram 329  
 एण *m* dear 300  
 एनसू *n* sin 624

ऐ

- ऐरावत *m* Indra's elephant 91  
 ऐरावती *f* lightning 177  
 ऐलखिल *m* N of Kubera 103  
 ऐमर्य *n* prosperity 353

ओ

- {ओक *m* house 496  
 {ओकस *n* house 496  
 ओध *m* flow 237  
 ओष *m* multitude 831  
 ओनसू *n* vigour 699  
 ओबन *n* boiled rice 767  
 ओपर्विष *m* the moon 135  
 ओट *m* the lip 424

औ

- औरतुकय *n* eagerness 549  
 औद्रय *n* arrogance, pride 534  
 और्य *m* submarine fire 341

क

- यभरा *f*, neck 432  
 कसारि *m* N of Visnu 32  
 क *m*, N of Brahman 19  
 ककुमत् *m* bull 321  
 ककुमती *f* the hip 439  
 ककुम *f* quarter 168  
 कक्ष *m* forest 279  
 कक्षापट *m* cloth passed between the legs to cover the privities 474  
 कद्दृ *m* armour 711  
 कद्धण *n* bracelet 461  
 कद्धपत्र *m* arrow 919  
 कद्धवन्प *n* water (?) 222  
 कच *m* hair 406  
 कद्धप *m* tortoise 247  
 कद्धप *m* N one of the nine treasures (of Kubera) 356  
 कद्धा *f* the hem of the lower garment tucked into the waistband 473  
 का *n* lotus 258  
 कजल *n* black pigment 455  
 कजलध्यन *m* lamp 505  
 कन्तुक *m* bodice 476  
 कन्तुक *m* armour 712  
 कन्तुकिन् *m* attendant on women's apartment 697  
 कन्तुलिका *f* bodice 476  
 कटक *m* bracelet 461  
 कटक *n* army 703  
 कटाक *m* glance 420  
 कटि *f* the hip 439  
 कटिगुर *n* girdle 463  
 कटार *n* the hip 439  
 कटु *a* pungent 820  
 कटुक *a* pungent 820  
 कटिन *a* harsh 850  
 कटोर *a* harsh 850  
 कण *m* small quantity 840  
 कटक *m* thrill, bristling of hair 548

## GLOSSARY

कर्णकाशन *m* camel 324  
 कर्ण *m* throat 426  
 कर्णदलू *n* neck ornament 456  
 कर्णदमरण *n* neck ornament 456  
 कर्णिका *f* neck-ornament 456  
 कर्णीरव *m* lion 303  
 कर्णित *p p* told, expressed 887  
 कर्दक *m*awning 510  
 कर्दमक *n* multitude 830  
 कर्दम *m* miser 760  
 करुला *f* plantain tree 287  
 कर्म *n* gold 343  
 कर्नी *f* girl 384  
 कर्णिलिङ्ग *f* pupil of an eye 419  
 कर्णु *m* god of love 63  
 कर्णदर्य *f* cave valley 673  
 कर्दर्य *m* god of love 59  
 कर्ण्यका *f* girl 384  
 कर्णा *f* girl 384  
 कर्णप *n* decent, cheating 537  
 कर्पदिन *m* N of Siva 45  
 कर्पलहृत *m* N of Siva 41  
 कर्पि *m* monkey 327  
 कर्पितव्य *m* an epithet of Arjuna 745  
 कर्पोल *m* the cheek 423  
 कर्मद *m* tortoise 247  
 कर्मटी *f* tortoise (female) 247  
 कर्मन *m* god of love 63  
 कर्मनीय *a* charming 855  
 कर्मल *n* water 222  
 कर्मल *n* lotus 253  
 कर्मलभू *m* N of Brahman 18  
 कर्मला *f* N of Laksmi 49  
 कर्मललया *f* N of Laksmi 49  
 कर्मलाभ्यन *m* N of Brahman 19  
 कर्मलिनी *f* lotus plant 260  
 कर्मप *m* shaking, trembling 552  
 कर्म *m* ray 140  
 कर्म *m* the hand 428  
 कर्मक *m* pomegranate tree 287  
 कर्मन *n* finger nail 430  
 कर्मिन *m* elephant 309  
 कर्मन *n* organ of sense 399  
 कर्मन *n* making effecting 908  
 कर्मशास्त्र *n* the head 405

कर्मन *m*, camel 324  
 कर्मूरण *n* armlet 459  
 कर्मूषण *n* bracelet 461  
 कर्मिषत *a* mixed 879  
 कर्मैह *m* finger nail 431  
 कर्मात *m* sword 723  
 कर्मात्रवा *f* finger 429  
 कर्मैक *m* finger nail 431  
 कर्मिन *m* elephant 305  
 कर्म *m* N of a sentiment 582  
 कर्मण *f* compassion 525  
 कर्मणु *m* elephant 309  
 कर्मन *a* harsh 850  
 कर्म *m* the ear 416  
 कर्मण *n* ear ring 450  
 कर्मितेत *m* an epithet of Arjuna 746  
 कर्मिवार *m* helmsman 242  
 कर्मणूर *n* ear ring 450  
 कर्मणेष्टक *n* ear ring 453  
 कर्मणप *m* slanderer villain 809  
 कर्मम *n* mud 816  
 कर्मप *m* ragged cloth 474  
 कर्मै *m* camphor 486  
 कर्मै *n* gold 345  
 कर्मैर *a* variegated 827  
 कर्मक *m* servant 693  
 कर्मनाशित *m* the sun 125  
 कर्मक *m* cultivator 773  
 कर्मै *f* river 229  
 कर्मकर्णी *f* cuckoo 183  
 कर्मङ्ग *m* stigma 812  
 कर्मत्र *n* wife 376  
 कर्मधैत *n* gold 345  
 कर्मज *m* arrow 720  
 कर्मस *m* jar 775  
 कर्मह *m* battle 730  
 कर्मद *m* goldsmith 776  
 कर्मानाम *m* the moon 136  
 कर्माप *m* girdle 462  
 कर्माप *m* bundle 834  
 कर्माप्ति *m* peacock 181  
 कर्मि *m* battle 730  
 कर्मेवर *n* the body 397  
 कर्म *m* N of a heavenly tree 93  
 कर्म *n* a measure of time 163

कल्प *m* universal destruction 167  
 कल्प *m* rule 628  
 कल्प *m* ritual 649  
 करण्यान्त *m* universal destruction 167  
 कल्पय *n* sin 624  
 कल्पय *n* day break dawn 157  
 कल्पयपाल *m* distiller 784  
 कल्पणा *n* gold 346  
 कल्पणा *n* welfare 658  
 कल्पोल *m* wave 235  
 कल्पच *n* armour 711  
 कल्पी *f* braid or fillet of hair 409  
 कल्पि *f* N of Sukra 149  
 कल्पि *m* wise man 589  
 कल्पयत्मन *m* N of Garuda 194  
 कलाय *a* astringent 819  
 कट *n* pain 553  
 कल्पूरिका *f*, musk 487  
 कल्पूरी *f* musk 488  
 काळतुण्ड *m* a kind of sandal (*r*) 489  
 काळपश्चक *m* side lock of hair on the temple of boys 411  
 काळुरस्य *m* an epithet of Rama 739  
 काकोदर *m* serpent 293  
 काकाल *m* poison 299  
 काल *m* glance 420  
 काल्पना *f* desire 531  
 काल्पन *n* gold 343  
 कालि *f* girdle 462a  
 काली *f* girdle 462  
 कालीपद *n* the hips and the loins 439  
 कालिक *n* gruel 764  
 काण्ड *m* arrow 718  
 कातर *m* coward 697  
 कात्याधना *f* N of Parvati 52  
 कादम्ब *m* kind of swan 192  
 कादम्बरा *f* wine, liquor 785  
 काद्रवेय *m* serpent 295  
 कालन *n* grove 278  
 काल्प *m* lover husband 371 *r*  
 काल्त *a* lovely, charming 855  
 काल्ता *f* wife 375  
 काल्तार *m* forest 279  
 काल्ति *f* lustre, beauty 493  
 काल्दिशाकि *m* coward 697

कारिशायन *n* wine, liquor 786  
 काम *m* god of love 57  
 काम *m* desire 532  
 कामकेलि *f* sexual intercourse 513  
 कामोङ्गा *m* finger nail 430  
 कामिनी *f* woman 363  
 कामधार *m* a species of horse from Kamboja country 312  
 काम्य *a* charming 856  
 काय *m* body 397  
 कारण *n* cause 643  
 कार *m* artisan 783  
 कारव *m* artisan 783  
 कारस्वर *n* gold 345  
 कार्तिकेय *m* N of Karttikeya 65  
 कासुक *n* bow 716  
 काल *m* epithet of Yama 110  
 काल *a* black 826  
 कालकृष्ण *m* poison 298  
 कालिन्दी *f* the river Yamuna 234  
 काली *f* N of Pārvati 52  
 काल्य *m* N of Sukra 149  
 कालमीरनमन *n* saffron 484  
 काल्यपा *f* the earth 212  
 कालतकृ *m* carpenter 779  
 काटा *f* quarter 168  
 कालार *m* lake 251  
 किंकर *m* servant 692  
 किनर *m* demigod 99  
 किनरेत *m* epithet of Kubera 102  
 किषुरूप *n* one of the nine divisions of the earth 912  
 किषुरूपाधिप *m* N of Kubera 102  
 किष्वद्वित्त्वन्ता *f* report, rumour 560  
 किंकादिवि *m* kind of bird 190  
 किंडिणा *f* tinkling ornament 463  
 किंवद *m* gambler 789  
 किरण *m* ray 140  
 किरात *m* man of the Bhil tribe 800  
 किरीर *n* crown 448  
 किल्विप *n* sin 624  
 किशोर *m* colt 313  
 किनारक *m* child 383  
 किसलय *m* sprout 273  
 कीचकारि *m* epithet of Bhima 744

कीलास *m* N of Yama 112  
 कीर *m* parrot 189  
 कीर्ति *f* fame 613  
 कीरित *p p* tied, bound 896  
 कु *f* the earth 213  
 कुर्कर *m* dog 326  
 कुर्खि *f* the belly 435  
 कुरुक्षुम *n* saffron 484  
 कुर्म *m* the female breast 434  
 कुर्म *m* the planet Mars 146  
 कुर्म *m* bower 280  
 कुरुर *m* elephant 306  
 कुरुविहारिन् *n* N of Viṣṇu 36  
 कुर्म *m* tree 282  
 कुर्म *m n* house 498  
 कुर्मिनी *f* procuress bawd 390  
 कुर्यार *m* axe 726  
 कुरुष *a* fool 593  
 कुर्मित *a* blunted 900  
 कुर्मूर *n* earring 453  
 कुरुद्विलिन् *m* serpent 293  
 कुरुक्षुम *n* curiosity 530  
 कुरुक्षुम *n* curiosity 530  
 कुर्म *m* spear 725  
 कुर्मल *m* hair 406  
 कुर्म *m* Lind of flower 285  
 कुर्म *m*, N of one of the nine treasures  
     (of Kubera) 357  
 कुर्मर *m* Kubera 101  
 कुर्मर *m* N of Kārttikeya 68  
 कुर्मर *m* boy 383  
 कुर्मरी *f* girl 384  
 कुर्म *n* lotus 262  
 कुर्मधान्धव *m* the moon 137  
 कुर्मिनी *f* lotus 264  
 कुर्मिनीपति *m* the moon 135  
 कुर्मदत्ती *f* lotus 264  
 कुर्म *m* jar 775  
 कुर्मकार *m* potter 775  
 कुर्मग *m* epithet of Agasti 153  
 कुर्मभृत् *m* elephant 307  
 कुर्म *m* deer 300  
 कुर्म *m* curl 410  
 कुर्माण *n* one of the nine divisions of  
     the earth 914

कुरुद *m* cock 187  
 कुल *n* family race 388  
 कुल *n* collection, multitude 835  
 कुलनी *f* wanton woman 392  
 कुलाल *m* potter 775  
 कुवलय *n* lotus 262  
 कुविद्वक *m* weaver 782  
 कुण *n* water 219  
 कुण्ड *m* one of the seven Dvīpas 909  
 कुण्डल *m* learned man 591  
 कुण्डल *n* welfare 658  
 कुण्डशय *n* lotus 253  
 कुसुम *n* flower 270  
 कुसुमायुध *m* god of love 61  
 कुह *m* N of Kubera 103  
 कुहर *n* hole cavity 846  
 कुट *n* fraud, deceit 537  
 कुट *n* fraud 626  
 कुट *n* heap, multitude 835  
 कुप *m* well 249  
 कुर *n* boiled rice 767  
 कुच *m* beard 412  
 कुपास *m* kind of bodice 476  
 कुम *m* tortoise 247  
 कुलकापा *f* river 229  
 कुल *n* bank 238  
 कुरुवाकु *m* cock 187  
 कुरुक्षु *n* difficulty, trouble 554  
 कुत *a* accomplished 881  
 कुतान्त *m* epithet of Yama 109  
 कुतान्त *m* conclusion 636  
 कुति *f* making 908  
 कुतिम् *m* learned man 589  
 कुत्त *p p* cut 894  
 कुत्ति *f* hide 672  
 कुर्मिवासस *m* N of Siva 41  
 कुर्मा ग. मालाम 642  
 कुर्मन *a* all, whole 839  
 कुपग *a* master 760  
 कुपा *f* compassion 525  
 कुपाण *m* sword 723  
 कुर्माणिका *f* knife 721  
 कुर्मिट्यानि *m* fire 338  
 कुर्मा *a* small, little 841  
 कुर्मानु *m* fire 336

कृष्णानुरेत् *m* N of Siva 46  
 कृपोदी *f* woman (having thin waist) 367  
 कृषिकृ *m* cultivator 773  
 कृषीवल *m* farmer 773  
 कृषि *m* learned man 590  
 कृष्ण *m* N of Visnu 21  
 कृष्ण *a* black 826  
 कृष्णार्द्धमंड *m* fire 332  
 कृष्णसार *m* kind of deer 301  
 कृष्णार्द्धमंड *m* kind of sandal 489  
 कैकिरु *m* peacock 180  
 केतक *m* Ketaka tree 284  
 केतका *f* Ketaka tree 284  
 कैतन *n* banner 317  
 कैतु *m* the planet Ketu 152  
 कैटु *m* flag 317  
 कैतुमाल *n* one of the nine divisions of the earth 914  
 केदार *m* field 774  
 कैथर *m* armlet 459  
 कैलि *f* sport 515  
 कैश *m* hair 406  
 कैशकलाप *m* Mass of hair 408  
 कैशचय *m* , 408  
 कैशपाश *m* " 408  
 कैशभार *m* " 408  
 कैशरथता *m* " 408  
 कैशव *m* N of Visnu 21  
 कैतरिन् *m* lion 302  
 कैटनजित् *m* N of Visnu 31  
 कैतव *n* deceit, cheating 537  
 कैतव *n* gambling 790  
 कैर *n* lotus 262  
 कैरविणी *f* lotus 264  
 कैलासनाथ *m* epithet of Kubera 105  
 कैवर्त *m* fisherman 793  
 कैवल्य *n* final beatitude 657  
 कौक *m* bird Cakravaka 184  
 कौकनद *n* (red) lotus 259  
 कौकिल *f* cuckoo 182  
 कौटि *f* corner 902  
 कौटीर *n* crown 448  
 कौइ *m* fort 735

कौण *n* corner 902  
 कौटप्प *n* bow 715  
 कौप *m* anger 535  
 कौमल *a* tender 852  
 कौछ *m* raft 241  
 कौल *m* hog 325  
 कौविद *m* learned man 588  
 कौश *m* store house 500  
 कौश *m* store house 500  
 कौधिय *m* sword 724  
 कौतुक *n* curiosity 530  
 कौतुहल *n* curiosity 530  
 कौपिन *n* cloth passed between the legs to cover the privities 474  
 कौमुदी *f* moon light 138  
 कौलीन *n* scandal 614  
 कौविक *m* N of Indra 84  
 कौतु *m* sacrifice 670  
 कौउच्चिसिन् *m* N of Siva 43  
 कौतुकू *m* God 74  
 कौन्द *m* cry 546  
 कौम *m* foot 445  
 कौमण *m* foot 445  
 कौमलक *m* camel 324  
 कौविक्षिक *m* merchant 750  
 कौवाणक *n* commodity 753  
 कौविन् *m* merchant 750  
 कौल्य *n* flesh 787  
 कौटा *f* sport 515  
 कौटासपान् *n* bed-chamber 503  
 कूप *m* anger 535  
 कूर *m* wicked person 810  
 कौञ्ज *m* one of the seven Dvîpas 909  
 कौड *m* the lap 437  
 कौष *m* anger 535  
 कौटु *m* jackal 328  
 कौषी *f* female jackal 324  
 कौशमेदन *m* N of Karttikeys 67  
 कूम *m* fatigue 555  
 कूँझ *a* wet 899  
 कूण *m* moment 162  
 कूण *m* moment 543  
 कूणदि *f* night 159  
 कूणरेच *f* lightning 177  
 कूरतज *n* blood 738

कृष्ण *n* man of the Kṣatriya caste 674  
 कृष्णिय *m* Kṣatriya 662  
 कृष्ण *f* night 159  
 कृष्ण *f* the earth 212  
 कृष्ण *f* forgiveness 629  
 कृष्ण *m* universal destruction 167  
 कृष्ण *m* house 497  
 कृष्णिति *f* forgiveness 629  
 कृष्ण *a* little small 841  
 कृष्ण *m* salt 821  
 कृष्णित *a* washed, cleaned 862  
 कृष्णिति *f* the earth 210  
 कृष्णिपति *m* king 676  
 कृष्णिराज *m* king 677  
 कृष्णिप *a* quick 873  
 कृष्ण *a* small little 841  
 कृष्णीर *n* water 221  
 कृष्णीर *n* milk 762  
 कृष्णीर *m* one of the seven seas 911  
 कृष्णिरक्ष *m* child 383  
 कृष्णिरज *n* curd 762  
 कृष्णुद *m* wicked person 810  
 कृष्णुदधिका *f* tinkling ornament 463  
 कृष्णुप *f* hunger 770  
 कृष्णुप *f* hunger 770  
 कृष्णुप *n* arrow 720  
 कृष्णुमादित् *m* barbar 777  
 कृष्णिका *f* knife 722  
 कृष्ण *n* body 396  
 कृष्ण *n* field 774  
 कृष्णिविद् *m* cultivator 773  
 कृष्ण *n* welfare 659  
 कृष्णेयी *f* dish prepared with milk 765  
 कृष्णी *f* the earth 210  
 कृष्णिनाथ *m* king 677  
 कृष्णीम *n* fine garment 470  
 कृष्णीन *n* terrace 501  
 कृष्ण *f* the earth 210  
 कृष्णामृत् *m* mountain 215  
 कृष्णामृत् *m* king 675  
 कृष्णेऽ *m* poison 297

## स

स *n* sky 118  
 स *n* organ of sense 399

सूर्य *m* the sun 121  
 सूर्य *m* bird 195  
 सूर्य *m* arrow 720  
 सूचर *m* bird 198  
 सूचित् *p p* mixed 878  
 सूझन *m* wagtail 190  
 सूझत *m* wagtail 190  
 सूद्धवा *f* bed stead 507  
 सूड्हा *m* sword 724  
 सूड्ह *m* candied sugar 771  
 सूड्हपशु *m* N of Siva 47  
 सूर्यित् *p p* cut broken 894  
 सूर *a* hot 145  
 सूर *m* donkey 325  
 सूर *a* harsh 350  
 सून्दरु *n* silver 348  
 सूर्व *a* short 844  
 सूल *n* villain 809  
 सूरतक *n* ditch 250  
 सूरदन *n* eating 769  
 सूरिल *m* vacuity, gap 876  
 सूरुली *f* practice 818  
 सूरुक *m* shield 721  
 सूर *m* grief sorrow 551  
 सूर *m* fatigue 555

३

गाम *n* sky 117  
 गंगा *f* the Ganges 231  
 गंगाधर *m* N of Siva 39  
 गंग *m* elephant 306  
 गंगानन *m* epithet of Ganesa 5  
 गंगाराति *m* lion 304  
 गण *m* multitude 833  
 गणक *m* astrologer 644  
 गणाधिप *m* epithet of Ganesa 6  
 गणिका *f* harlot, courtesan 391  
 गण्ड *m* the cheek 423  
 गति *f* vehicle 316  
 गिरि *m* disease 814  
 गदाधर *m* N of Viṣṇu 33  
 गदी *f* car, chariot 314  
 गाढ *m* fragrance perfume 482  
 गंगारुदी *f* musk 488  
 गंगामादन *m* N of a mountain 914

गन्धर्व *m* Gandharva 99  
 गन्धव *m* horse 311  
 गन्धय *m* singer 566  
 गन्धवह *m* wind 202  
 गन्धवाह *m* wind 202  
 गन्धसार *m* sandal 288  
 गमसित *m* the sun 127  
 गमसित *m f* ray 141  
 गरुद *n* poison 297  
 गरिमन् *m* one of the eight powers or siddhis 354  
 गरुदध्वनि *m* N of Viṣṇu 29  
 गरुदवाहन *m* N of Viṣṇu 34  
 गरुत् *m* wing 199  
 गरुदमार् *m* Garuda 194  
 गता *f* thunder 178  
 गर्भित *n* thunder 178  
 गति *m* hole 846  
 गर्दभ *m* donkey 325  
 गभागार *m* inner apartment 499  
 गर्व *m* pride 533  
 गर्वित *a* proud 811  
 गर्विष्ट *a* proud 811  
 गहणा *f* reproach censure 615  
 गल *m* the throat 426  
 गङ्गित *p p* fallen 892  
 गङ्गु *m* the cheek 423  
 गवाक्ष *m* window 504  
 गवेषित *p p* searched sought 893  
 गद्धन *n* wood forest 280  
 गद्धय *n* gold 344  
 गाड *a* excessive 875  
 गात्र *n* the body 396  
 गात्र *n* singing 566  
 गान्धार *m* a musical note 569  
 गिन्तुक *n* pillow 509  
 गिरि *f* mountain 215  
 गिरिजा *f* N of Parvati 54  
 गिरिधर *m* N of Viṣṇu 34  
 गिरिस *m* N of Siva 40  
 गिरीस *m* N of Siva 40  
 गात्र *n* song 565  
 गीत *n* singing 566  
 गीति *f* singing song 566  
 गीर् *f* Goddess of speech 3

गीवाण *m* God 73  
 गीप्ति *m* epithet of Bhagavati 148  
 गुड *m* unrefined sugar 772  
 गुणवत् *virtuous* 805  
 गुणित् *a* virtuous 805  
 गुणित *a* covered 878  
 गुद *n* the anus 443  
 गुप्ताद *m* serpent 294  
 गुरु *m* the planet Jupiter 147  
 गुरु *m* teacher 596  
 गुरुत्वम् *m* tradition 611  
 गुह *m* epithet of Kartikeya 65  
 गुहा *f* cave 673  
 गुरुक *m* N of a class of demi gods 100  
 गुरुकेशर *m* epithet of Kubera 102  
 गुहा *n* wife 375  
 गुहा *n* house 495  
 गृहमणि *m* lamp 505  
 गृहस्थ *m* house holder 664  
 गृहिणी *f* wife 376  
 गृहित् *m* house holder 663  
 गीर *n* singing 566  
 गोइ *n* house 498  
 गोि *f* heaven 76  
 गा *m f* ray 141  
 गा *f* the earth 214  
 गा *m* bull 320  
 गोि *f* cow 322  
 गांडल *n* cow house 761  
 गोंग *m* mountain 216  
 गात्र *n* family race 388  
 गात्र *n* name 619  
 गोत्रमेदिन् *m* N of Indra 88  
 गात्रा *f* the earth 212  
 गाँधि *f* forehead 415  
 गाँधूम *m* wheat 752  
 गाय *m* cow herd 761  
 गोपालिय *m* N of Viṣṇu 34  
 गोतुर *n* city gate 736  
 गान्त् *m* protector 808  
 गोमायु *m* jackal 328  
 गोरस *m* curds 762  
 गोवर्धनपर *m* N of Viṣṇu 33  
 गोविन्द *m* N of Viṣṇu 21  
 गोतार्पे *n* sandal 289, 485

गाहु *n* cow house 761  
 गाही *f* assembly 685  
 गौर *a* white 824  
 गौर *a* yellow 825  
 गौरव *n* respect 607  
 गौरी *f* N of Parvati 51  
 गौरीसुत *m* epithet of Ganeśa 7  
 ग्रन्थ *m* book 637  
 ग्रन्थि *f* knot of lower garment 479  
 ग्रह *m* planet 140  
 ग्रहण *n* an organ of sense 399  
 ग्रहपति *m* the sun 127  
 ग्राम *m* scale in music 572  
 ग्राम *m* multitude, collection 836  
 ग्राम *m* village 734  
 ग्राम्यधर्म *m* sexual intercourse 514  
 ग्रीष्म *m* the hot season 164  
 ग्रावन् *m* stone 815  
 ग्राहिन् *m* supplant 622  
 ग्रीवा *f* the neck 432  
 ग्रीवेय *n* neck-ornament 456  
 ग्राहनि *f* fatigue 555  
 ग्रही *m* the moon 132

## प

घट *m* jar 775  
 घटन *n* making effecting 908  
 घटा *f* measure of time 162  
 घन *m* cloud 172  
 घन *m* the body 398  
 घन *m* club, mace 725  
 घनरस *n* water 222  
 घनसार *m* camphor 486  
 घनाघन *m* cloud 172  
 घनाधय *m* sky 119  
 घर्म *m* sweat 547  
 घर्म *n* day 156  
 घुम्पण *n* saffron 484  
 घृणा *f* compassion 525  
 घृणि *m* ray 142  
 घृत *n* ghee 763  
 घृतपदक *n* kind of cake 766  
 घृतपूर्फ *f* kind of sweetmeat 766  
 घृताची *f* N of an apsaras 95

घोटक *m* horse 310  
 घण्टा *f* nose 41/  
 घेर *a* lend (?) 572  
 घार *a* dreadful 851  
 घरिणी *f* line 837  
 घाष *m* cow house 761  
 घाण *n* nose 417  
 घ्राणतपैष *m* fragrance, perfume 483

## च

चकोर *m* bird Cakora 186  
 चक *m* bird Cakravaka 185  
 चक *n* army 703  
 चक्र *n* collection multitude 83  
 चकपर *m* N of Viṣṇu 33  
 चकपाणि *m* N of Viṣṇu 23  
 चकवास्थव *m* the sun 127  
 चकवर्तिर् *m* emperor 679  
 चक्रवाक *m* bird cakravaka 184  
 चक्राङ्ग *m* swan 191  
 चक्षुम् *m* the eye 418  
 चक्षु धवस् *m* serpent 295  
 चक्षरीक *m* bee 267  
 चक्षुल *a* unsteady 868  
 चक्षुला *f* lightning 176  
 चक्षु *f* beak 200  
 चटु *n* flattery 562  
 चटुल *a* unsteady 868  
 चण्ड *a* hot 145  
 चण्डालक *n* small petti coat 477  
 चण्डाल *m* Candala 797  
 चण्डिका *f* N of Parvati 53  
 चण्डि *f* N of Parvati 53  
 चतुर *m* wise man 591  
 चतुरहृण *n* complete army consisting  
     of elephants chariots cavalry  
     and infantry 706  
 चतुरार *n* court yard 502  
 चतुर्मुङ्ग *m* N of Viṣṇu 23  
 चतुर्मुख *m* N of Brahman 16  
 चतुर्पथ *m* crossway 751  
 चबर *n* court yard 500  
 चन्दन *n* sandal 485  
 चन्दनानुम् *m* sandal tree 288

चन्द्र *m* catastrophe 486  
 चन्द्र *m* the moon 132  
 चन्द्रमस् *m* the moon 132  
 चंद्रशाला *f* turret 502  
 चन्द्रोलेर *m* N of Siva 38  
 चन्द्रहस्त *m* sword 724  
 चन्द्रिका *f* moon light 138  
 चन्द्रोदय *m*awning 510  
 चन्द्रोपोत्त *m* moon light 138  
 चपल *a* unsteady 868  
 चपला *f* lightning 176  
 चमू *f* army 703  
 चम्पक *m* campaka tree 284  
 चप *m* rampart 735  
 चप *m* collection, multitude 831  
 चर *m* spy 690  
 चरण *m* foot 445  
 चरणायुध *m* cock 188  
 चरम *a* last 860  
 चरवर *n* world 207  
 चर्वे (सर्व) *m* one of nine treasures  
     (of Kubera) 357  
 चमोकर *m* shoe-maker 798  
 चमेन् *n* hide 672  
 चमेन् *n* shield 721  
 चमणी *f* disloyal woman 393  
 चल *a* unsteady 868  
 चलचक्षु *m* bird Cakora 186  
 चलन *m* foot 445  
 चलनक *n* short petty-coat 477  
 चालिक *m* oil maker 783  
 चाटु *n* flattery 562  
 चाण्डाल *m* Cāñdala 797  
 चातक *m* Cātaka 179  
 चातक bird Cātaka, 917  
 चान्दि *m* the planet Mercury 147  
 चाप *m* bow 715  
 चामर *n* chowrie 683  
 चामीकर *n* gold 344  
 चार *m* spy 690  
 चाह *a* lovely, charming 855  
 चारिष्प *n* smearing 467  
 चाप *m* kind of bird 190  
 चिह्निसक *m* physician 646  
 चिह्निगित्त *m* physician 647

चिह्न *m* hair 406  
 चिखिल *m* mud 816  
 चि(च)बीक *m* bee 917  
 चित्र *f* intellect 634  
 चित्र *n* mind 402  
 चित्रसमुच्छिति *f* pride, arrogance 533  
 चित्र *n* sectorial mark on the fore-head 451  
 चित्र *n* wonder 529  
 चित्रक *m* lion 304  
 चित्रकार *m* tiger 305  
 चित्रकार *m* painter 781  
 चित्रमातु *m* the sun 122  
 चित्रमातु *m* fire 332  
 चित्रशाला *f* turret 502  
 चित्रन *n* reflection 550  
 चित्रन *n* meditation 631  
 चिन्ता *f* anxiety 552  
 चितुक *n* the chin 423  
 चित्रनन्द *m* Brahman 10  
 चिह्न *m* banner 317  
 चिह्न *n* mask 812  
 चिर *n* bark 672  
 चीधर *n* garment 468  
 चुन्दी *f* bawd, female messenger 390  
 चूटा *f* hair on the top of the head 411  
 चूडामणि *m* crest-jewel 447  
 चूत *m* mango-tree 286  
 चूष्ण *n* fragrant powder 480  
 चेत *m* servant, 693  
 चेटिका *f*, female servant 389  
 चेती *f* female servant 389  
 चेतन *m* individual soul 400  
 चेतना *f* intelligence 633  
 चेतस् *n* mind 402  
 चेल *n* garment 469  
 चित्र *n* temple 652  
 चोच *n* woody cassia? 490  
 चोटी *f* petty-coat 477  
 चोट्य *n* wonder, surprise 529  
 चोळ *m* bodice 476  
 चौर *m* thief 792  
 चुत *p p* dropped, fallen. 892

४

छग *m.* goat 330  
 छगल *m.* goat 330  
 छत्र *n.* parasol 682  
 छद *m.* leaf 272  
 छदन *n.* leaf 272  
 छदस् *n.* feather 199  
 छम *m.* fraud trick 537  
 छमद् *m.* intention 527  
 छमदस् *m.* metrics 649  
 छम *n.* secret 542  
 छम *p.p.* concealed hidden 885  
 छल *n.* deceit, fraud 537  
 छल *n.* pretext pretence 538  
 छवि *f.* light, lustre 142  
 छवि *f.* beauty, splendour 493  
 छाग *m.* goat 330  
 छागवाहन *m.* fire 336  
 छाम *m.* pupil 598  
 छापित *p.p.* concealed, hidden 885  
 छाया *f.* beauty splendour 493  
 छायासुत *m.* the planet Saturn 150  
 छित *p.p.* cut 894  
 छिद्र *n.* hole 846  
 छिद्रित *p.p.* pierced bored 895  
 छित *p.p.* cut, divided 894  
 छुरिका *f.* knife 722  
 छेक *m.* citizen 593  
 छेदित *p.p.* cut, divided 894

५

ज  
 जगथसु *m.* the sun 125  
 जगत् *m.* world 207  
 जगनी *f.* the earth 213  
 जगत्प्राण *m.* wind 203  
 जगत्प्राप्त *m.* the supreme being 12  
 जघन *n.* the pundenda 440  
 जघन्य *a.* last 860  
 जहूगल *n.* flesh 787  
 जठर *n.* the belly 435  
 जट *a.* cold 144  
 जट *a.* fool 594  
 जनीगम *m.* Cāṇḍī 797  
 जनक *m.* father 378  
 जनताभय *m.* pavilions 499

जनन *n.* family, race 388  
 जनन *n.* birth, origin 801  
 जननी *f.* mother 379  
 जनपद *m.* country 732  
 जनयितृ *m.* father 378  
 जनयित्री *f.* mother 379  
 जनार्दन *m.* N of Viṣṇu 23  
 जनि *f.* birth 801  
 जनी *f.* wife 375  
 जन्मु *m.* the individual soul 400  
 जन्मत् *n.* birth, origin 801  
 जन्म्य *n.* battle 723  
 जन्मु *m.* individual soul 401  
 जप *m.* muttered prayer 639  
 जपा *f.* the china rose 284  
 जन्मुक *m.* jackal 328  
 जम्बु *f.* N of an island 909  
 जम्भाराति *m.* epithet of Indra 80  
 जपन्त *m.* N of Indra's son 89  
 जरा *f.* old age 804  
 जरामीर *m.* god of love 63  
 जरीयस् *m.* old man 804  
 जल *n.* water 219  
 जलन *n.* lotus 256  
 जलनीव *m.* water animal 248  
 जलद *m.* cloud 173  
 जलधर *m.* cloud 174  
 जलयिता *f.* river 230  
 जलनिधि *m.* sea, ocean 225  
 जलपति *m.* N of Varuna 108  
 जलमुखमुखू *m.* peacock 180  
 जलमृष्ट *m.* cloud 173  
 जलशायिन् *m.* N of Viṣṇu 30  
 जलधर्य *m.* pond, tank 250  
 जलित *p.p.* spoken 887  
 जल *m.* speed 874  
 जाह्नगल *n.* flesh 787  
 जात *n.* collection 835  
 जातहरा *n.* gold 345  
 जातवेदम् *m.* fire 333  
 जारी *f.* jasmine 284  
 जातुपान *m.* demon 115  
 जानकी *f.* N of Sītā 741  
 जानि *f.* wife 375  
 जातु *m.* the knee 444

जाप *m.* muttered prayer. 639  
 जाप्य *n.* a prayer to be muttered in low voice. 639  
 जामि *f.* sister. 387  
 जाम्बूनद *n.* gold. 346  
 जाया *f.* wife. 375  
 जाल *m.* collection, mass. 834  
 जालक *m.* window. 504  
 जालिक *m.* bird-catcher. 793  
 जालिका *f.* chain-armour. 713  
 जालम *m.* fool. 594  
 जाह्नवी *f.* N. of the Ganges. 231  
 जिनेश्वर *m.* Supreme Lord. 11  
 जिन *m.* Lord. 12  
 जिन *m.* epithet of Buddha. 14  
 जिष्णु *m.* epithet of Indra. 81  
 जिष्णु *m.* N. of Arjuna. 746  
 जिह्वा *m.* serpent. 291  
 जिह्वा *f.* the tongue. 726  
 जीमूल *m.* cloud. 175  
 जीवोर *m.* the bird cakora. 186  
 जीव *m.* the planet Jupiter. 147  
 जीव *m.* individual soul. 400  
 जीव *m.* agriculturist. 773  
 जीवन *n.* water. 220  
 जीवन *n.* livelihood. 754  
 जीवा *f.* bow-string. 716  
 जीवानतक *m.* bird-catcher. 795  
 जीविका *f.* livelihood. 754  
 जीवित *n.* life. 802  
 ज़ुगुप्सा *f.* censure, reproof. 615  
 जुग्धण *n.* a garland (worn round the neck etc.). 479  
 जैमन *n.* eating, food. 769  
 जैवात्रु *n.* the moon. 134  
 जैन *m.* N. of a Darśana. 654  
 जृ *m.* the planet Mercury. 147  
 जृसि *f.* intellect. 633  
 जात *p.p.* known, understood. 889  
 जात *a.* well-known. 807  
 जात *n.* intellect. 634  
 जातिन् *m.* astrologer. 644  
 जपा *f.* the earth. 213  
 जपा *f.* bow-string. 716  
 ज्योति *f.* star. 140

ज्योति *m.* fire. 339  
 ज्योति *f.* lamp. 505  
 ज्योतिपिक *m.* astrologer. 645  
 ज्योतिर्विद *m.* astrologer. 645  
 ज्योतिस् *n.* ray. 141  
 ज्योतिस् *m.* Jyotiṣ (a vedāṅga). 649  
 ज्योतिरस्ता *f.* moon-light. 138  
 ज्येठ *m.* fire. 331  
 ज्वाला *f.* flame. 897  
 ज्वालाजिह्वा *m.* fire. 340

## ॥

सालरी *f.* kind of drum. 501  
 साप *m.* fish. 243

## ॥

दिग्म *m.* child. 382

## ॥

दंडा *f.* large drum. 580  
 दौकनिका *f.* present. 608

## ॥

दक्ष *n.* butter-milk. 764  
 दत्थण *n.* disrespect. 617  
 दत्थन् *m.* carpenter. 779  
 दट *n.* bank. 238  
 दटिनी *f.* river. 227  
 दडाग *m.* lake. 251  
 ददित् *f.* lightning. 176  
 दटियत् *m.* cloud. 172  
 दत *n.* stringed musical instrument. 576  
 दति *f.* row, line. 837  
 दात्र *n.* truth. 635  
 दायागत *m.* epithet of Buddha. 173  
 दत्य *n.* truth. 627  
 दनय *m.* son. 380  
 दनु *f.* body. 396  
 दनु *a.* small, little. 841  
 दनुष *n.* armour. 711  
 दनुष *f.* body. 396  
 दनुषपात् *m.* fire. 337  
 दनुषद *n.* wing. 199  
 दनुख *n.* hair on the body. 412

तन्तुल *n* lotus fibre 265  
 तन्तुवाय *m* tailor 781  
 तन्तुवाय *m* weaver 782  
 तन्दुल *m* rice 752  
 तन्दा *f* sleepishness 541  
 तन्वी *f* woman 367  
 तपन *m* the sun 122  
 तपनीय *n* gold 346  
 तपस् *n* penance 629  
 तपस्या *f* penance 629  
 तपस्विन् *m* ascetic 600  
 तम *m* N of the planet Rahu 151  
 तमस् *n* darkness 160  
 तमालपत्र *n* mark on the forehead 451  
 तमिक्ष *n* darkness 161  
 तम्पा *f* cow 323  
 तम्पा *f* cow 323  
 तर *m* speed 874  
 तरङ्ग *m* wave 235  
 तरङ्गी *f* river 227  
 तरणि *m* the sun 122  
 तरणि *f* boat 240  
 तरण्ड *m* raft 241  
 तरल *m* central gem of a necklace 458  
 तरल *a* unsteady 868  
 तरवारि *f* sword 723  
 तरस् *n* vigour 699  
 तरी *f* boat 240  
 तरु *m* tree 281  
 तरुण *m* a youth 803  
 तरुक *m* suppliant 622  
 तर्जन *n* redicule 557  
 तप *m* desire 532  
 तलप *m* bed 308  
 त्रिवेष *m* heaven 76  
 त्रस्फर *m* thief 792  
 ताढ़ *m* ornament for the ear 453  
 ताडपत्र *n* ornament for the ear 453  
 ताण्डव *n* dancing (in general) 567  
 तात *m* father 378  
 तान *m* a musical term 574  
 तापन *m* N of one of the five arrows  
     of cupid 64  
 तापस *m* ascetic 666  
 तामरस *n* lotus 254

तामस *n* darkness 161  
 ताम्बूल *n* tambula 455  
 ताम्र *a* red 822  
 ताम्रचूड *m* cock 187  
 ताम्राशी *f* cuckoo 182  
 तार *n* silver 348  
 तार *a* high (as a note) 572  
 तारका *f* pupil of the eye 419  
 तारकारि *m* N of Karttikeya 68  
 तारा *f* star 140  
 तारुण्य *n* youth 803  
 तार्षीर *m* N of Garuda 193  
 ताळ *m* beating time (in music) 572  
 ताट्युस्तक *n* fan 492  
 ताविष्य *m* heaven 76  
 तिक्क *a* pungent 821  
 तिम *a* hot 145  
 तितिक्षा *f* forbearance 629  
 तिमिगिल *m* fish 245  
 तिमि *m* fish 244  
 तिमिर *n* darkness 160  
 तिमिरारि *m* the sun 131  
 तिरिक्षिया *f* disrespect 616  
 तिरोहित *p p* concealed hidden 885  
 तिलक *n* mark on the fore head 451  
 तिलोत्तमा *f* N of an apsaras 95  
 तीक्ष्ण *a* hot 145  
 तीक्ष्ण *m* poison 297  
 तीक्ष्ण *a* pungent 821  
 तीक्ष्ण *a* sharp 900  
 ताइगातु *m* the sun 128  
 तीर *n* bank 238  
 तीर्थंकर *m* the supreme lord 12  
 तीर्थयाक *m* hair 407  
 तीव *a* hot 145  
 तीव *a* dreadful 851  
 तीव *a* excessive 875  
 तुङ्ग *a* high, lofty 845  
 तुङ्ग *m* f offspring 385  
 तुङ्ग *a* little 840  
 तुङ्ग *n* the mouth 414  
 तुङ्ग *n* the belly 435  
 तुङ्गदृष्टिका *f* cavity of the navel 436  
 तुरंग *m* elephant 310  
 तुरङ्ग *m* horse 310

तुरद्यम *m* horse 310  
 तुरापाद *m* N of Indra 85  
 तुरुक *m pl* N of a people, the  
     Turks 737  
 तुला *f*, comparison 864  
 तुलाकृषि *f* anklet 464  
 तुरर *a* astringent, 819  
 तुप्तर *a* cold 144  
 तुष्टि *f* satisfaction 522  
 तृण *m* quiver 717  
 तृष्णीर *m* quiver 717  
 तूर *m* kind of musical instrument 575  
 तूर *a* quick 873  
 तूर्य *n* kind of musical instrument 575  
 तूर्णिका *f* (cotton) bed 508  
 तूर्णीम् *ind* in silence 550  
 तृ॒र *f* desire 532  
 तृ॒र *f* thirst 770  
 तृ॒पा *f* thirst 770  
 तृ॒ष्णा *f* desire 531  
 तैनस् *n* light, lustre 142  
 तैनित *a* sharp 900  
 तमन *n* sense, condiment 768  
 तैलिक *m* oil man 783  
 तैलपर्णिक *n* sandal 289  
 तैलिन् *m* oil man 783  
 तोर *n* offspring 385  
 ताकक *m* cataka bird 179  
 तोद *n* water 219  
 तौर *a* abandoned 382  
 त्याग *m* gift 620  
 त्रपा *f* boastfulness 517  
 त्रय *n* triad 829  
 त्रयी *f* triad 829  
 त्र्यन्त *m* the sun 122  
 त्रात् *a* a protector 808  
 त्राय *m* fear 540  
 त्रिह *n* back bone 437  
 त्रितय *n* triad 829  
 त्रिदा *m* god 69  
 त्रिदिव *n* heaven 75  
 त्रिदिवा *m* god 72  
 त्रिपाता *f* the Ganges 232  
 त्रिपुरामत्क *m* N of Siva 45  
 त्रिपाता *f* night 758

त्रिलोचन *m* N of Siva 39  
 त्रियति *f* three folds or wrinkles of  
     skin above the navel 436  
 त्रिविकम *m* N of Visnu 28  
 त्रिविष्ण *n* heaven 75  
 त्रिलोतस् *f* the Ganges 231  
 त्रोडि *f* beak 200  
 त्र्यम्बक *m* N of Siva 38  
 त्र्यक् *n* hide 672  
 त्र्यरित *a* quick 873  
 त्रिवृप् *f* light, lustre 142

४

दंश *m* tooth 425  
 दंश *m* armour 711  
 दश *a* skilful 592  
 दक्षिणादिक्षिपति *m* N of Yama 111  
 दक्षिणा *f* the South 170  
 दंष *p p* burnt 897  
 दण्ड *m* lotus stalk 295  
 दण्ड *m* army 703  
 दण्डभूत *m* N of Yama 112  
 दधि *m* curds 762  
 दधि *m* N of an ocean 911  
 दमुज *m* demon 114  
 दम्भ *m* tooth 425  
 दम्भवस्त्र *n* the hip 424  
 दम्भसर *a* sour, acid 820  
 दम्भसूक *m* serpent 291  
 दम्भायल *m* elephant 307  
 दम्भित्र *m* elephant 307  
 दम्भ *a* little, small 840  
 दम्भनस् *m* fire 338  
 दम्भती *m* du husband and wife 387  
 दम्भ *m* deceit, cheating 537  
 दम्भी *f* compassion 525  
 दम्भित *m* husband, lover 371  
 दम्भिती *f* wife 377  
 दम्भिती *m* du husband and wife  
     387  
 दर *m* fear 540  
 दरद *m* poison 299  
 दरी *f* cave, valley 673  
 दर्दुर *m* frog 246  
 दृप *m* pride, arrogance 534

दप्तक *m.* god of love. 60  
 दप्तेण *m.* mirror. 492  
 दर्बाकर *m.* serpent. 292  
 दल *n.* leaf. 272  
 दल *n.* part, piece. 839  
 दलित *n.* full-blown flower. 276  
 दव *m.* forest-conflagration. 342  
 दशकन्धर *m.* epithet of Rāvana. 742  
 दशन *m.* tooth. 425  
 दशबद्ध *n.* epithet of Buddha. 14  
 दस्यु *m.* oppressor. 702  
 दस्यु *m.* thief. 792  
 दहन *m.* fire. 331  
 दाक्षायणी *f.* epithet of Pārvatī. 54  
 दाढ़िम *m.* pomegranate tree. 287  
 दाग *a.* munificent. 808  
 दान *n.* gift. 620  
 दानव *m.* demon. 113  
 दानवारि *m.* god. 72  
 दामन् *n.* garland. 466  
 दामोदर *m.* N of Visnu. 22  
 दार *m. pl.* wife. 375  
 दारक *m.* son. 380  
 दारकर्मन् *n.* marriage. 369  
 दारित *p. p.* torn, rent. 895  
 दारिद्र *n.* poverty. 759  
 दारण *a.* dreadful. 851  
 दाल *n.* wine, liquor. 786  
 दाव *m.* forest. 279  
 दाव *m.* forest-conflagration. 342  
 दाशरथि *m.* epithet of Rāma. 739  
 दास *m.* servant. 693  
 दास *m.* fisherman. 793  
 दासी *f.* female-servant. 389  
 दामेर *m.* camel. 324  
 दिक् *f.* quarter. 168  
 दिकरी *f.* girl. 384  
 दिप्त *p. p.* smeared. 878  
 दिवावासस् *m.* N of Siva. 46  
 दित *p. p.* cut, divided. 894  
 दितिष्ठृत *m.* demon. 114  
 दिन *n.* day. 156  
 दिन *n.* day, measure of time. 162  
 दिवाकर *m.* the sun. 131  
 दिवेभर *m.* the sun. 120

दिव *n.* day. 156  
 दिवन् *m.* day. 156  
 दिवस *m.* day. 156  
 दिवस्पति *m.* Indra. 80  
 दिवाकर *m.* the sun. 125  
 दिवाकीर्ति *m.* barbar. 777  
 दिवाकीर्ति *m.* cāndāla. 797  
 दिविषद् *m.* god. 73  
 दिवीकस् *m.* god. 76  
 दिशा *f.* quarter. 168  
 दिष्ट *n.* fate. 524  
 दीक्षित *m.* pupil. 598  
 दीधिति *f.* ray. 140  
 दीप *m.* lamp. 505  
 दीपि *f.* light, lustre. 143  
 दीर्घ *a.* long. 844  
 दीर्घपृष्ठ *m.* serpent. 293  
 दीर्घिका *f.* lake. 249  
 दुखल *n.* fine garment. 470  
 दुगुल *n.* fine cloth. 470  
 दुगुल *n.* fine cloth. 470  
 दुध *n.* milk. 762  
 दुन्दुभि *f.* kettle-drum. 580  
 दुरित *m.* sin. 625  
 दुरोदर *n.* gambling. 790  
 दुर्ग *m.* fort. 735  
 दुर्गां *f.* N of Pārvatī. 52  
 दुर्जन *m.* villain. 809  
 दुर्वेण *n.* silver. 348  
 दुर्दृढ *m.* enemy. 702  
 दुलि *f.* tortoise. 247  
 दुश्यन *m.* Indra. 80  
 दुहितृ *f.* daughter. 381  
 दुङ्गजा *m.* sin. 625  
 दुख *n.* pain. 553  
 दूत *m.* messenger. 691  
 दूसी *f.* female messenger. 590  
 दूर *a.* distant, remote. 857  
 दृष्ट *a.* excessive. 851  
 दृष्ट *a.* firm. 871  
 दृष्ट *a.* proud. 512  
 दृष्टि *f.* the eye. 4<sup>1</sup>; 5<sup>2</sup>  
 दृष्टि *f.* stone. 215  
 दृष्टि *f.* the eye. 4<sup>1</sup>; 5<sup>2</sup>  
 दृष्ट *m.* god. 63

देवकीनन्दन *m* N of Viṣṇu 32  
 देवगृह *n* temple 652  
 देवर्पण *n* sacrifice 671  
 देवता *f* god 69  
 देवन *m* die 791  
 देवनन्दि*m* N of the door keeper of Indra 93  
 देवराज *m* Indra 86  
 देववहन *m* sandal powder 490  
 देवाधिदेव *m* supreme being 11  
 देवालय *m* temple 652  
 देवी *f* epithet of Parvati 54  
 देश *m* region country 732  
 देस *m* species of horse 312  
 देह *m* body 396  
 देहिन् *m* individual soul 400  
 देह्य *m* demon 113  
 देहयुग *m* N of the preceptor of the demons 149  
 देवदेव *m* wind 205  
 देवतरिग *m* N of Viṣṇu 22  
 देवते*d* *m* demon 114  
 देवत *n* fate 524  
 देवज *m* astrologer 644  
 दोल *f* swing 315  
 दाम्भि *m* wise man 590  
 दारण *m* physician 647  
 दारा*f* night 159  
 दारू *m* *n* arm 427  
 दोलय *m* tortoise 247  
 दोलारिक *m* door keeper 689  
 दृष्टि *f* light lustre 142  
 दृष्टि *f* beauty, lustre 493  
 दृश्यि *m* the sun 129  
 दृश्यि *n* wealth 351  
 दृश्य *n* gambling 790  
 दृश्यरात्रि *m* gambler 789  
 दृशि *f* heaven 76  
 दृशि *f* the sky 118  
 दृष्टि *m* town 733  
 दृश्य *m* sport 515  
 दृश्यि *n* wealth 351  
 दृश्य *n* wealth 351  
 दृशि *m* tree 283  
 दृश्यग *m* mace 725

दृश्यत *n* quick (a time in music) 571  
 दृश्यम *m* tree 281  
 दृश्यिण *m* epithet of Brahma 16  
 दृश्यानि *f* boat 240  
 दृश्यपदि*f* Draupadi 747  
 दृश्यद *n* battle 729  
 दृश्यद्वार *m* bird cakravāka 184  
 दृश्य *n* pair 828  
 दृश्याधिक *m* epithet of Buddha 14  
 दृश्यी *f* pair 828  
 दृश्यामन् *m* the sun 123  
 दृश्यकेष्ठ *m* N of Viṣṇu 36  
 दृश्यपाल *m* door keeper 689  
 दृश्यि *m* bird 195  
 दृश्यि *m* tooth 425  
 दृश्यि *m* brahma 668  
 दृश्यन्मन् *m* brahma 669  
 दृश्यराज *m* the moon 133  
 दृश्याति *m* brahma 668  
 दृश्यिङ्ग *m* serpent 292  
 दृश्यिणि *n* slanderer 809  
 दृश्यिणि *f* wife 377  
 दृश्यि *m* elephant 307  
 दृश्यि *m* elephant 308  
 दृश्यिफ *m* bee 266  
 दृश्यि *m* or दृश्यर् enemy 700  
 दृश्यिपती*f* river 230  
 दृश्यिपिन् *m* tiger 305  
 दृश्यि *n* pair 829  
 दृश्यिग *m* epithet of Ganesa 6

## प

परंतप्य *m* fire 332  
 परंतप्य *m* N of Arjuna 745  
 परन *n* wealth 351  
 परनद *m* N of Kubera 101  
 परनाधिप *m* N of Kubera 101  
 परुष *n* bow 715  
 परनपर *m* rich person 758  
 पर्य *n* bow 715  
 परमसि *f* the neck 432  
 परमिति *m* braided hair 409  
 पर *m* mountain 216  
 परणि *f* the earth 209  
 परा *f* the earth 209

धर्ती *f.* the earth 209  
 धर्म *m.* religion 623  
 धर्म *m.* nature, form 907  
 धर्मसाराज *m* N of Yama 109  
 धर्मसाराख *n* religious law 651  
 धर्मायमज *m* epithet of Yudhiṣṭhīra 743  
 धर्म *m* husband 370  
 धर्वल *a* white 823  
 धारू *m* N of Brahman 17  
 धात्री *f* the earth 210  
 धान्य *n* grain 752  
 धामन् *n* ray 141  
 धामन् *n* house 496  
 धामपति *m* the sun 129  
 धारणा *f* boundary 559  
 धारणा *f* meditation 631  
 धारापर *m* cloud 174  
 धात्तेराष्ट्रक *m* kind of swan 192  
 धिक् *in* interjection of censure 557  
 धिष्ण *m* epithet of Bhṛaspati 148  
 धिष्णा *f* intellect 632  
 धिष्णय *n* star 140  
 धिष्णय *n* house 496  
 धी *f* intellect 632  
 धीमत् *m* learned man 588  
 धीवर *m* fisherman 793  
 धुनी *f* river 227  
 धृत *a* trembling, shaking 869  
 धूमप्यज *m* fire 340  
 धूमयोनि *m* cloud 174  
 धूर्जटि *m* N of Śiva 45  
 धूर्स *m* wicked person 810  
 धूलि *m* f. dust 816  
 धृति *f* satisfaction 522  
 धृष्णि *f* disloyal woman 393  
 धेतु *f.* cow 323  
 धैवत *m* a musical note 570  
 धैरण *n* vehicle 316  
 धौत *a* washed, cleaned 862  
 ध्यान *n* meditation 631  
 धूप *m* N of Brahman 17  
 धूप *m* Dhruva 152  
 धूप *a* permanent, constant 867  
 ध्यान *m* motion 316  
 ध्यान *m* flag 317

ध्वजिनी *f.* an army 704  
 ध्वनि *m* sound 640  
 ध्वनि *n* sound 640  
 ध्वानि *n* darkness 160  
 ध्याम्बाराति *m* the sun 130

## न

नक्क *m* ragged cloth 474  
 नक *m* crocodile 248  
 नद *n* nose 417  
 नक्षत्र *n* star 139  
 नक्षत्रेश *m* the moon 134  
 नख *m* finger nail 430  
 नखर *m* finger nail 430  
 नवराषुप *m* lion 303  
 नग *m* mountain 215  
 नग *m* tree 283  
 नगर *n* town 733  
 नगरी *f* town 733  
 नगरासु *m* bird 197  
 नति *f* bow 601  
 नदी *f* river 227  
 नदीभर *m* sea, ocean 226  
 नद *p* *p* tied, fastened 896  
 नद्यन *n* Indra's garden 91  
 नद्यन *m* son 380  
 नद्यनन्दन *m* N of Viṣṇu 35  
 नमस् *m* sky 117  
 नमस्वत् *m* wind 203  
 नमोमणि *m.* the sun 129  
 नमोग्नुप *m* bird cātaka 179  
 नभाद *m* cloud 175  
 नमस्कार *m* bow 602  
 नमस्त्रिया *f* obeisance 603  
 नमस्ता *f* obeisance 603  
 नमुचिद्गद *m* N of Indra 84  
 नयन *n* the eye 418  
 नर *m* man 360  
 नरकान्तहृ *m* N of Viṣṇu 32  
 नरदेव *m* king 676  
 नरवाहन *m* N of Kubera 104  
 नरेन्द्र *m* king 678  
 नरेचर *m* king 677  
 नर्तन *n* dance 567  
 नर्मन *n* sport 513

महिना *n* lotus 255  
 महिनी *f* lotus plant 260  
 मधुतोति *n* butter 763  
 माक *m* heaven 72  
 माकनायक *m* N of Indra 81  
 माकिर *m* god 70  
 मरण *m* serpent 294  
 मारा *m* elephant 308  
 मारगिर *m* citizen 593  
 मारगलाक *m* patala 268  
 मार्गी *f* N of a quarter 171  
 माटक *n* dance (1) 567  
 माटिका *f* dance (?) 567 *n*  
 मालव *n* dancing 561  
 माप *m* husband 370  
 माप *m* lord 680  
 माद *m* sound (in general) 566  
 माद *m* sound, 640  
 मापिन *m* barber 777  
 मामि *f* novel 436  
 मामित्र *m* N of Brahman 18  
 मामेय *n* name 618  
 मामक *n* name 618  
 मायक *m* husband 373  
 मायक *m* central gem of a necklace 458  
 मायड *m* lord 681  
 मारद *m* son of Brahman 20  
 मारद *m* N of divinity 94  
 मारथ *n* arrow 720  
 मारुपण *m* N of Visnu 22  
 मारी *f* woman 362  
 मास *n* lotus-stalk 265  
 मात्रीक *n* lotus 258  
 माधिक *m* helmsman 242  
 मामा *f* nose 417  
 मामाप्रसुप्त *n* nose-ornament 454  
 मामिका *f* nose 417  
 मिकर *a* near 865  
 मिहर *m* collection, multitude 831  
 मिहाय *m* heap multitude 836  
 मिहुङ *m* bower 220  
 मिहुङ्क *n* collection multitude 833  
 मिहुङ्क *n* house 496  
 मिहित *a* all whole 833  
 मिहित *m* chain 813

मिहित *a* bound, tied 896  
 मिगम *m* road 318  
 मिगम *m* town, city 734  
 मिगरण *m* the throat 426  
 मिचय *m* heap, multitude 836  
 मिचित *a* covered 878  
 मित्रय *m* buttocks, a woman's waist 440  
 मित्रिमिनी *f* woman 363  
 मित्र *a* permanent, constant 867  
 मिदान *n* cause 643  
 मिद्र *f* sleep 541  
 मिद्राय *n* closed flower 277  
 मिघात *m* N of Kubera 104  
 मितुदन *n* sexual enjoyment 514  
 मिनद *m* sound 641  
 मिनाद *m* sound 641  
 मिन्दा *f* reproach censure 615  
 मियान *n* tank 250  
 मिपुण *m* clever man 592  
 मिषित *a* thick, dense 871  
 मिम *n* pretext, pretence 538  
 मिमित्तिविद् *m* astrologer 644  
 मिह *a* low 845  
 मिगमा *f* river 227  
 मिथित *f* fate 524  
 मियनृ *m* charioteer 710  
 मियम *m* penance 629  
 मियमराहन *n* vow 630  
 मियोग *m* order 609  
 मिरहर *a* fool 595  
 मिरभ *m* Brahman 10  
 मिर्यंक *a* vain, useless 556  
 मिरस्त *p* *p* thrown 891  
 मिरकि *f* the Nirukta or science of etymology 649  
 मिर्यंप *n* saint 601  
 मियोग *m* sound 640  
 मिर्येर *m* god 69  
 मिमित्ति *f* river 229  
 मिर्यंप *m* determination 903  
 मिर्यिक *a* washed cleaned 867  
 मिर्यंप *m* washerman 782  
 मिर्यंग *m* order, command 609  
 मिर्यंप *a* poor 739

निदुंदि *a* fool 595  
 निमर *a* excessive 875  
 निर्भूल *a* clear 862  
 निर्माण *n* creation 908  
 निर्मित *a* created 881  
 निर्यामक *m* helmsman 242  
 निर्वाण *n* final emancipation 656  
 निर्वाद *m* blame reproach 615  
 निर्वृत *a* accomplished 881  
 निर्वृति *f* satisfaction 522  
 निराद *m* sound 641  
 निलय *m* house 495  
 निलम्प *m* god 70  
 निलिम्पिका *f* cow 323  
 निवसन *n* under garment 478  
 निवह *m* collection 830  
 निवास *m* house 496  
 निवेश *m* town 733  
 निशा *f* night 158  
 निशाकर *m* the moon 134  
 निशानाथ *m* the moon 135  
 निशान्त *n* house 497  
 निशव्वेदिन् *m* cock 188  
 निशित *a* sharp 900  
 निशीथिनी *f* night 159  
 निश्चय *m* truth 635  
 निश्चय *m* determination 903  
 निष्ठ *m* quiver 717  
 निष्ठ *m* a musical note 570  
 निषाद *m* candalas 797  
 निषादिक् *m* elephant driver 709  
 निष्ठुर *a* harsh 850  
 निष्ठात *a* clever 592  
 निष्ठा *a* accomplished 881  
 निसर्ग *m* nature 528  
 निस्तल *n* circle 901  
 निर्धिरा *m* sword 723  
 निस्तव *n* sound 640  
 निकुञ्ज *n* pleasure garden 279  
 निफल *a* useless 556  
 निधेयस *n* final emancipation 656  
 निहत *a* poor 759  
 नीच *m* low man 799  
 नीच *m* wicked person 810  
 नीच *a* low 845

नीडनिलय *m* bird 198  
 नीर *n* water 219  
 नीरजिनी *f* lotus plant 261  
 नीरम्ब *a* dense, thick 871  
 नीरम *a* dry 99  
 नील *n* sapphire 350  
 नील *m* kind of bird 190  
 नील *m* one of the nine treasures of Kubera 357  
 नालकण्ठ *m* N of Siva 44  
 नीलकण्ठ *m* peacock 180  
 नीललोहित *m* N of Siva 44  
 नीलोपल *n* lotus 263  
 नीबी *f* knot of sn under garment 479  
 नीबी *f* capital, principal 755  
 नावृत *m* country 732  
 नुति *f* praise 62  
 नुच *a* dispelled 891  
 नृत (?) 286  
 नृपुर *n* anklet 464  
 नृ *m* man 361  
 नृत्य *n* dance 565, 567  
 नृप *m* king 675  
 नृपति *m* king 675  
 नृपस्ती *f* queen 686  
 नृपासन *n* royal throne 683  
 नेतृ *m* lord 681  
 नेत्र *n* the eye 418  
 नेत्ररामद् *n* eye lash 422  
 नेत्रासु *n* tear 547  
 नेष्ट्य *n* dress 471  
 नैगम *m* merchant 749  
 नैयायिक *m* naiyāyika 655  
 नैरंत *m* demon 115  
 नैर्वति *f* south west 170  
 नौ *f* boat 240  
 नाका *f* boat 240  
 न्यक् *low* 845

## प

पात्र *n* sweet meat 766  
 पधति *f* root of a wing 200  
 पधस् *n* feather 199  
 पक्षिरू *m* bird 195  
 पक्षिराज *m* N of Garuda 494

पश्मन् *n.* eye-lash. 422  
 पश्च *n.* sin. 625  
 पश्च *m.* mud. 816  
 पश्चम *n.* lotus. 258  
 पश्चिमी *f.* lotus-plant. 261  
 पश्चेत् *n.* lotus. 257  
 पश्चिमि *f.* line, row. 837  
 पश्चिमन् *m.* man. 361  
 पश्चम *m.* a musical note. 569  
 पश्चिमर *m.* god of love. 57  
 पश्चिमाल *m.* hand. 428  
 पश्चिमन *m.* lion. 304  
 पट *m.* garment. 469  
 पटल *m.* heap, multitude. 834  
 पटवासक *m.* perfumed powder. 480  
 पटु *a.* hot. 145  
 पटु *m.* learned man. 591  
 पटोत्तम *n.* very fine cloth 470  
 पटूकूल *n.* very fine cloth 470  
 पटूराजी*f.* chief queen. 687  
 पठ *m.* study. 638  
 पठन *n.* study. 638  
 पण *m.* gambling. 790  
 पणाक्षना *f.* harlot. 390  
 पण्डि *f.* intellect. 633  
 पण्डित *m.* learned man. 588  
 पण्य *n.* commodity. 753  
 पण्यक्षी *f.* harlot, courtesan. 391  
 पण्याजी*m.* merchant. 750  
 पर्तम *m.* the sun. 121  
 परतग *m.* bird. 197  
 परतव् *m.* bird. 196  
 परत्र *n.* wing. 199  
 परत्रिन् *m.* bird. 196  
 पराक्रा*f.* banner. 317  
 पराक्रीनी *f.* army. 705  
 परि *m.* husband. 370  
 परि *m.* lord. 680  
 परित *p.p.* fallen. 892  
 परिमता *f.* chaste and virtuous wife. 389  
 परतन *n.* town, city. 734  
 परि *m.* foot-soldier. 694  
 परनी *f.* wife. 374  
 पर्य *n.* wing. 199  
 पर्व *n.* leaf. 272

पर्व *n.* vehicle. 316  
 पत्र *n.* letter. 561  
 पत्रभङ्गी *f.* mark on the forehead. 452  
 पत्ररथ *m.* bird. 197  
 पत्रलता *f.* mark on the forehead 452  
 पत्रलेखा *f.* mark on the forehead 452  
 पत्रिका *f.* letter. 561  
 पत्रिन् *m.* bird. 196  
 पत्रिन् *m.* arrow. 718  
 पथिक *m.* traveller. 691  
 पवित्र *m.* road. 318  
 पव्यार *f.* road, way. 319  
 पदु *m.* foot. 445  
 पदग *m.* foot-soldier. 694  
 पद्मी*f.* road. 318  
 पद्माति *m.* foot-soldier. 694  
 पद्मातिक *m.* foot-soldier. 694  
 पद्मति *f.* road. 318  
 पद्म *n.* lotus. 253  
 पद्म *n.* one of the nine treasures (of Kubera). 356  
 पगनाभ *m.* N. of Visnu. 25  
 पगनाभाद्रियोनि *m.* N. of brahman. 19  
 पद्मचन्द्र *m.* the sun. 130  
 पद्मा *f.* N. of Lakshmi. 49  
 पद्माकर *m.* lake. 252  
 पद्मिनी *f.* lotus plant. 260  
 पद्मिनीपति *m.* the sun. 129  
 पद्मग *m.* serpent. 290  
 पद्मस् *n.* water. 220  
 पद्मस् *n.* milk. 762  
 पद्मोधर *m.* female breast. 434  
 परम्परोतिस् *m.* brahman. 9  
 पर *m.* enemy. 700  
 पर *a.* best. 858  
 पर *a.* distant, remote. 867  
 परमुण *f.* cuckoo. 182  
 परमहन् *n.* Brahman. 9  
 परमृता *f.* cuckoo. 182  
 परम *m.* Brahman. 10  
 परमात्मन् *m.* Brahman. 9  
 परमाण *n.* rice boiled in milk. 765  
 परमार्थ *m.* truth. 635  
 परमेश्वर *m.* Brahman. 10  
 परमेश्विन् *m.* N. of Brahman. 16

परम्परा *f* tradition 611  
 परदृ *m* axe 726  
 परक्षय *m* axe 726  
 पराक्रम *m* valour 698  
 पराग *n* pollen of a flower 271  
 पराय्य *a* best excellent 858  
 परिकर *m* retinue 688  
 परिकेमन् *n* decoration 491  
 परिप्रह *m* wife 375  
 परिचयो *f* worship, attendance 604  
 परिच्छद् *m* retinue 688  
 परिणय *m* marriage 368  
 परिदेवन *n* cry, bewailment 546  
 परियान *n* under garment 473  
 परिरण *m* capital, principal 755  
 परिपन्थिन् *m* enemy, 702  
 परिवर्द्ध *m* retinue 688  
 परिभ्रम *m* disrespect 616  
 परिभाषण *n* reproof 558  
 परिमल *m* perfume, fragrance 482  
 परिरक्षित् *m* ascetic 666  
 परिम्बन *m* embrace 512  
 परिवापन *n* shaving 778  
 परिवार *m* retinue 688  
 परिजृष्ठ *m* lord 680  
 परियात् *m* ascetic 666  
 परियात्क *m* ascetic 666  
 परिषत् *f* assembly 684  
 परिष्वङ् *m* embrace 511  
 परित *a* encompassed 878  
 परेरताञ् *m* N of Yama 109  
 पञ्जन्य *m* cloud 175  
 पञ्जी *n* leaf 272  
 पञ्जङ् *m* bedstead 507  
 पर्यन्त *m* edge, limit 902  
 पर्वत *m* mountain 215  
 पवन् *n* festival 653  
 पञ्ज *m* axe 726  
 पञ्जुपाणि *m* N of Gapeşa 5  
 पपद् *f* assembly 685  
 पल *n* measure of time 162  
 पल *n* flesh 787  
 पलाद् *m* demon 116  
 पलाद् *m* leaf 272  
 पलाश *a* green 825

पलाशिन् *m* tree 782  
 पलवह *m* bedstead 507  
 पलव *m* leaf 273  
 पलवर *n* lake 252  
 पवनाशन *m* serpent 292  
 पवन *m* wind 203  
 पवमान *m* wind 204  
 पवित्र *a* pure, sacred 861  
 पवित्रा *f* the Ganges 233  
 पश्च *m* goat 330  
 पञ्चपति *m* N of Siva 41  
 पञ्चात्पाप *m* repentance 551  
 पञ्चम *a* last 860  
 पञ्चिसदिवति *m* epithet of Varuna 108  
 पञ्चमा *f* the west 170  
 पञ्चमाङ्गल *n* garment 473  
 पाशु(सु) *f* dust 816  
 पाशुली *f* unchaste woman 392  
 पाक *m* child 392  
 पाकशासन *m* epithet of Indra 77  
 पाचन *a* sour 820  
 पांचाली *f* N of Draupadi 747  
 पाटचर *m* thief 792  
 पाटक *a* red 822  
 पाटित *p* *p* broken, torn 895  
 पाठ *m* study 638  
 पाठक *m* teacher 596  
 पाठीन *m* fish 245  
 पाणि *m* hand 428  
 पाणिशुद्धीता *f* wife 376  
 पाणिप्रहण *n* marriage 369  
 पाणिपाठन *n* marriage 368  
 पाण्डु *a* white 824  
 पाण्डुर *a* white 824  
 पातर *n* sin 624  
 पात्र *n* pot, vessel 753  
 पात्र *m* water 220  
 पाद *m* ray 141  
 पाद *m* foot 445  
 पादकटक *n* anklet 464  
 पादप *m* tree 281  
 पादुका *f* shoe 796  
 पादुक *f* shoe 796  
 पादुकत *m* shoe-maker 796  
 पानीय *n* water 219

पात्य *m* traveller 691  
 पाप *n* sin 624  
 पाप *m* wicked person 810  
 पाप्मन् *m* sin 624  
 पापर *m* low man 799  
 पाचम *n* rice boiled in milk 765  
 पायु *m* anus 443  
 पारस्पीक *m* pl Persians 737  
 पारावार *m* sea, ocean 226  
 पाराशारिन् *n* religious mendicant 667  
 पारिलोत *m* N of a heavenly tree 97  
 पारियाति (त)क *m* N of a mountain 914  
 पारिन्द्र *m* lion 302  
 पार्य *m* N of Arjuna 745  
 पार्थिव *m* king 675  
 पार्वती *f* N of Parvati 51  
 पार्वतीसुत *m* epithet of Karttikeya 65  
 पार्ष *a* near 865  
 पालाश *a* green 825  
 पावक *m* fire 335  
 पादाक *m* die 791  
 पादासूत *m* epithet of Varuna 107  
 पादिन्द्र *m* epithet of Varuna 108  
 पाशात्य *a* last 860  
 पापिडन् *m* imposter 667  
 पाप्याण *m* stone 815  
 पिकी *f* cuckoo 182  
 पित्तण्ड *m* the belly 435  
 पिण्ठ *n* the body 398  
 पिण्डिका *f* the calf of the leg 444  
 पितामह *m* epithet of Brahman 15  
 पितृ *m* father 878  
 पितृपति *m* N of Yama 111  
 पिनाचिन् *m* N of Siva 42  
 पिपास *f* thirst 770  
 पिपाच *m* goblin 180  
 पिपित *n* flesh 787  
 पिशुन *m* villain, slanderer 809  
 पिट्ठात (प) *m* perfumed powder 480  
 पिहित *p p* covered, concealed 885  
 पीठ *n* seat 506  
 पीडी *f* agony, pain 553  
 पीत *a* yellow 825  
 पीताम्बर *m* N of Visnu 25  
 पीयूष *n* nectar 87

पीछ *m* elephant 309  
 पुश्टली *f* harlot, unchaste woman 393  
 पुश्चिह *n* the penis 442  
 पुंगव *a* best, excellent 858  
 पुत्र *m* heap, multitude 835  
 पुरभेदन *n* town, city 734  
 पुण्डरीक *n* lotus 259  
 पुण्डरीक *m* lion 304  
 पुण्डरीकाश *m* N of Visnu 24  
 पुण्ड्र *n* a sectarian mark on the fore head 451  
 पुण्य *n* religion 623  
 पुण्यजन *m* demon 116  
 पुण्यजनेश्वर *m* N of Kubera 103  
 पुर *m* son, 380  
 पुरी *f* daughter 381  
 पुरहृ *n* the body 398  
 पुर्वमंड *m* finger nail 431  
 पुर्वमंदिर *m* final beatitude 657  
 पुर्वमंसित *m* the individual soul 401  
 पुर्वान् *m* man 361  
 पुरुदर *m* N of Indra 77  
 पुर *m* the body 339  
 पुर *n* town 733  
 पुरुदर *n* city gate 736  
 पुरुधा *f* woman 367  
 पुरुभिद *m* N of Siva 44  
 पुराण *n* the purana 651  
 पुराणपुरुष *m* N of Visnu 30  
 पुरी *f* town 733  
 पुरुष *m* man 361  
 पुरुष *m* the individual soul 401  
 पुरुषोत्तम *m* N of Visnu 24  
 पुरुहृत *m* epithet of Indra 79  
 पुरोगमित् *m* foot-soldier 694  
 पुरुक *m* thrill, bristling of hairs 548  
 पुर्विन *n* sandy beach 238  
 पुरिन्द्र *m* man of a Bhil tribe 800  
 पुलोमारी *f* N of Indra's wife 87  
 पुलोमारी *m* N of Indra 85  
 पुरुकर *n* the sky 118  
 पुरुकर *n* water 221  
 पुरुष *n* lotus 253  
 पुरुकर *m* kind of drum 579

- उष्कर *m* one of the seven dîpas 910  
 उष्करिणी *f* pool, pond 250  
 उष्कल *a* much 842  
 उष्म *n* flower 270  
 उष्मधनवन् *m* god of love 59  
 उष्मनेत्रम् *n* pollen 271  
 उष्मरस *m* flower juice honey 271  
 उष्मलि॒*m* bee 268  
 उष्मेशु *m* god of love 62  
 उलक *n* book 637  
 उल्ल *m* heap multitude 834  
 उलि॒*f* worship 606  
 उल्प *a* venerable 805  
 उल्ल *a* pure sacred 861  
 उल्ल *m* kind of bread 769  
 उल्ल *f* kind of bread 769  
 उल्ल *f* town 733  
 उल्लित *a* complete filled 876  
 उल्ल *m* man 361  
 उल्ल *a* complete, filled 876  
 उल्लता *f* boundary 559  
 उल्ल *a* first 859  
 उददेव *m* demon 114  
 उल्ल *f* the East 170  
 उल्ल *m* the sun 121  
 उल्लित *f* inquiry 564  
 उल्लना *f* army 704  
 उल्लग्न *m* low man 799  
 उल्लिती *f* the earth 214  
 उल्लितसुता *f* N of Sita 741  
 उल्ल *a* large, great 849  
 उल्लुक *m* child 383  
 उल्लुरोमन् *m* fish 243  
 उल्लवी *f* the earth 209  
 उल्लकु *m* serpent 293  
 उल्लक *m* arrow 719  
 उल्लहर *m* wind 204  
 उल्ल *n* the back bone 437  
 उल्लित *f* ray 142  
 उल्ल *a* charming beautiful 854  
 उल्ल *m* boat 239  
 उल्ल *m* child 382  
 उल्लवाइक *m* steersman, helmsman 242  
 उल्लिका *f* kind of bread 768
- ऐरस्य *a* first 859  
 ऐरा *n* valour 698  
 ऐलस्य *m* epithet of Kubera 102  
 ऐलस्य *m* an epithet of Râvana 742  
 अक *a* manifest 872  
 अकाग्र *m* wind 204  
 अकर *m* collection, multitude 831  
 अकारा *a* clear manifest 872  
 अहति *f* nature 528  
 अहृष्ट *a* chief, excellent 858  
 अयुग *a* straight 848  
 अचुर *a* much 842  
 अचेत्य *m* N of Varuna 107  
 अच्छादन *n* upper garment 475  
 अना *f* offspring progeny 335  
 अनापति *m* epithet of Brahman 15  
 अनापति *m* king 676  
 अना *f* intellect 632  
 अन्वलिक *pp* burst bladdered 897  
 अणति *f* bow 602  
 अण(ग)िरि *m* spy 690  
 अणविन् *m* husband 372  
 अणाम *m* bow 602  
 अणिपात *m* salutation 603  
 अणिपात *n* meditation 631  
 अतानिनी *f* creeper 269  
 अतिहूल *a* unfavourable, adverse 888  
 अतिक्षिप *p* *p* thrown 891  
 अतिष *m* anger 535  
 अतितेजस्य *f* the fore part of the leg 444  
 अतिला *f* oath 610  
 अतिक्षात *a* admitted 883  
 अतिक्षान *n* echo 642  
 अतिनाद *m* echo 642  
 अतिपादन *n* giving gift 621  
 अतिना *f* intellect 633  
 अतिना *f* image 653  
 अतिवरास्य *n* reply 564  
 अतिवाच्य *m* echo 642  
 अतिक्षुत *a* agreed promised 883  
 अतिक्षुति *f* echo 642  
 अतिस्पृष्ट *a* despatched 884  
 अतात *a* well known 807  
 अतीति *f* belief 904  
 अतीप *a* unfavourable, adverse 888

प्रतीहार *m* door-keeper 639  
 प्रतीली *f* street 736  
 प्रत्यग्नि *f* bow-string 716  
 प्रत्यनीक *m* enemy 702  
 प्रत्यय *m* conviction, belief 904  
 प्रत्यर्थिन् *m* enemy 701  
 प्रत्यवस्थात् *m* enemy 701  
 प्रत्यादिष्ट *p p* thrown 891  
 प्रत्यूष *m* day break, dawn 157  
 प्रत्यूह *m* obstacle 814  
 प्रथम *a* first 859  
 प्रथित *a* well-known 807  
 प्रदोष *m* lamp 505  
 प्रदीपन *m* kind of poison 293  
 प्रदुम्न *m* god of love 61  
 प्रद्युतन *m* the sun 125  
 प्रधन *n* battle 727  
 प्रधान *a* chief 857  
 प्रकुण्ड *n* full blown flower 276  
 प्रबल *a* very great 843  
 प्रतुद *n* full-blown flower 274  
 प्रभजन *m* wind 202  
 प्रभा *f* light, lustre 142  
 प्रभाकर *m* the sun 124  
 प्रभात *n* dawn 157  
 प्रभातज्ञ *m* cock 188  
 प्रभु *m* the lord 12, 680  
 प्रभवाधिप *m* N of Siva 40  
 प्रभदा *f* woman 366  
 प्रभील *f* sleepishness 541  
 प्रभोद *m* joy 619  
 प्रयास *m* effort, exertion 555  
 प्रयोजन *n* use 643  
 प्रलम्ब *a* long 844  
 प्रलय *m* universal destruction 167  
 प्रदर्शन *n* exposition 637  
 प्रधर *a* chief 857  
 प्रवाढ *m* new leaf, sprout 273  
 प्रवाल *m* N of an animal 916  
 प्रवाह *m* current 237  
 प्रधीग *m* wise man 591  
 प्रधृति *f* news, tidings 560  
 प्रदीपा *f* praise, 612  
 प्रदात *a* laudable 856  
 प्रध *m*. inquiry 564

प्रधविद् *m* astrologer 645  
 प्रधान *m pl* N of a people (?) 738  
 प्रसक्ति *f* favour 526  
 प्रसचता *f* favour 526  
 प्रस्र *m* increasing 905  
 प्रसाद *m* favour 526  
 प्रसादन *n* pleasing 562  
 प्रसादना *f* service devotion 604  
 प्रसाधन *n* decoration 491  
 प्रसूति *f* offspring 385  
 प्रसून *n* flower 270  
 प्रस्तुत *p p* fallen, degraded 892  
 प्रस्तर *m* stone 815  
 प्रस्ताव *m* time 543  
 प्रस्थापित *a* established 884  
 प्रहरण *n* weapon 714  
 प्रहि *m* well 259  
 प्रहित *n* saute, condiment 767  
 प्रहित *a* despatched, 884  
 प्रातु *a* high, lofty 845  
 प्राकाम्य *n* one of the eight powers or siddhis 355  
 प्राकार *m* rampart 735  
 प्राहृत *m* low man 799  
 प्राचीनवाहिस *m* N of Indra 83  
 प्राज्ञ *m* learned man 588  
 प्राज्ञ *a* abundant 642  
 प्राण *m* vigour 699  
 प्राण *m pl* life 802  
 प्राणसम *m* husband 372  
 प्राणिन् *m* the individual soul 400  
 प्राणेश *m* husband, lover 372  
 प्रातर् *ind* at dawn 157  
 प्रान्त *m* edge, border 902  
 प्राप्त *a* obtained 882  
 प्राप्ति *f* one of the eight powers or siddhis 355  
 प्राप्तृत *n* present 608  
 प्राप्तना *f* asking, begging 620  
 प्रालम्ब *n* garland (worn round the neck) 479  
 प्रावरण *n* upper garment 475  
 प्रावरट *n* upper garment 472  
 प्राप्त *m* spear 725  
 प्रापाद *m* house 498

प्रिय *m* husband 371  
 प्रियतम *m* husband 373  
 प्रियतमा *f* wife 377  
 प्रिया *f* wife 374  
 प्रीत *m* husband 373  
 प्रीति *f* affection 516  
 प्रीति *f* satisfaction 522  
 प्रेक्षा *f* intellect 633  
 प्रेक्षा *f* swing 315 870  
 प्रेक्षित *a* shaken 864  
 प्रेक्षिलन *n* swing 870  
 प्रेमन् *n* affection 516  
 प्रेपस् *m* husband 372  
 प्रेयसी *f* wife 374  
 प्रश्य *m* servant 693  
 प्रथित *a* despatched 884  
 प्रेष *m* husband 372  
 प्रोक्ति *f* conclusion 636  
 प्रक्ष *m* one of the seven dvipas 909  
 प्रव *m* raft 241  
 प्रव *m* frog 246  
 प्रव *m* cangdala 798  
 प्रुत *m* N of an accent 585  
 प्रुष्प *p* burnt 897

## क

फणिन् *m* serpent 293  
 फल *n* game board 791  
 फलक *n* shield 721  
 फलवत् *m* tree 283  
 फलादन *m* parrot 189  
 फाणित *n* raw sugar 771  
 फालगुन *m* an epithet of Arjuna 746  
 कुल *n* full blown flower 274  
 केरव *m* jackal 328  
 कह *m* jackal 328

## घ

घहिष्ट *a* much 842  
 घकारि *m* an epithet of Bhima 744  
 घद *p* *p* tied fastened 896  
 घदसुटि *a* miser 760  
 घनिदृ *m* bard 731  
 घाघ *m* the body 398  
 घन्धु *m* brother 386

घाञुक *m* a kind of flower 285  
 घाञुकी *f* an unchaste woman 393  
 घञुर *a* lovely beautiful 854  
 घई *n* leaf 272  
 घहि *m* fire 334  
 घहिण *m* peacock 181  
 घहिन् *m* peacock 181  
 घहिसुल *m* god 74  
 घल *n* strength valour 698  
 घल *n* army 703  
 घलक्ष *a* white 823  
 घलराति *m* N of Indra 82  
 घलाहक *m* cloud 174  
 घलि *f* offering 606  
 घलिन् *m* hero 696  
 घलिभिद् *m* N of Viṣṇu 31  
 घलीवां *m* bull 321  
 घलव *m* cow herd 761  
 घहु *a* much 842  
 घहुल *a* much 842  
 घहुलात्मज *m* N of Karttikeya 68  
 घाढ *a* excessive 875  
 घाण *m* arrow 718  
 घाघ *m* *f* distress 554  
 घान्धव *m* brother 386  
 घाल *m* child 382  
 घाल *m* hair 406  
 घाल *a* fool 594  
 घालधाटक *m* colt 313  
 घालव्यवत्तन *n* chowrie 683  
 घाला *f* young woman 365  
 घालिका *f* g rl 384  
 घालिश *a* fool 594  
 घाम *m* tear 547  
 घाहि *f* the arm 427  
 घाहु *m* the arm 427  
 घाहुन् *m* kṣatriya 674  
 घाहुरसक *n* armlet 459  
 घिदाजस् *m* N of Indra 81  
 घिम *n* image 653  
 घिल *n* hole cavity 856  
 घिलेशय *m* serpent 294  
 घिसतन्तु *m* lotus fibre 265  
 घिसप्रसूत *n* lotus 255  
 घिसिनी *f* lotus-plant 260

योगस्त्र *m* N of a sentiment 583  
 युद्धम् *m* cāndāla 798  
 युद्ध *m* epithet of Buddha 13  
 युद्ध *p* *p* known, understood 889  
 युद्धिः *f* intellect 632  
 युप *m* the planet Mercury 147  
 युष *m* wise man 588  
 युक्तुश्च *f* hunger 770  
 यूद्धः *a* large, great 859  
 यूहतिका *f* upper garment 472  
 यूहस्ति *m* the preceptor of gods 93  
 यूहस्ति *m* the planet Mars 147  
 याध *m* knowledge, intellect 634  
 याद्यकर *m* hard 731  
 योगिसत्त्व *m* epithet of Buddha 13  
 याहिरथ *n* boat 239  
 योद्ध *m* the Buddha 654  
 योगचारिन् *m* student 663  
 यज्ञन् *m* Brahman 15  
 यज्ञपुष्प *m* kind of poison 299  
 यज्ञपुत्री *f* N of Sarasvati 4  
 याद्यम् *m* brahamanya 662  
 याद्यम् *m* brahhmanya 668  
 याद्या *f* goddess of speech 3  
 याद्यी *f* N of a quarter 171

## ग

ग *a* star 140  
 गरु *n* boiled rice 767  
 गर्भ *f* devotion 604  
 गरुण *n* eating food 769  
 गग *m* Pudendum muliebre 441  
 गग *m* the sun 121  
 गग *m* knowledge 634  
 गगधन् *m* the lord 12  
 गगिनी *f* sister 387  
 गम *p* *p* destroyed 886  
 गरु *m* wave 235  
 गरु *m* warrior 695  
 गद *m* bullock 320  
 गद *n* welfare 658  
 गद *n* one of the nine divisions of  
the earth 914  
 गदाहर्ण *n* shaving 778  
 गदासन *n* splendid seat 506

भय *n* fear, fright 540  
 भयद्रुत *a* coward 697  
 भयानक *m* N of a sentiment 582  
 भर *m* collection, multitude 835  
 भरताधन *m* epithet of Rama 739  
 भरित *a* filled complete 876  
 भर्ग *m* N of Siva 42  
 भर्तु *m* husband 370  
 भर्तु *m* lord 681  
 भर्त्सन *n* reproach 557  
 भर्मन् *n* gold 344  
 भल *m* spear 725  
 भव *m* name of Siva 42  
 भवन *n* house 495  
 भवानी *f* N of Parvati 51  
 भव्य *n* welfare, prosperity 659  
 भपण *m* dog 326  
 भसित *n* ashes 898  
 भस्मन् *n* ashes 898  
 भा *f* light, lustre 142  
 भागिरथी *f* the Ganges 233  
 भाग्य *n* fate 524  
 भान *n* pot, vessel 758  
 भाण्ड *n* commodity 753  
 भाण्डागार *n* store-house 500  
 भातु *m* the sun 120  
 भातु *m* ray 140  
 भाता *f* woman 366  
 भामिनी *f* woman 363  
 भारत *n* N of a division of the earth  
912  
 भारती *f* goddess of speech 3  
 भार्गव *m* N of Sukra 149  
 भार्या *f* wife 374  
 भात *n* the fore head 415  
 भालसोधन *m* N of Siva 47  
 भाव *m* opinion 527  
 भाव *m* nature form 907  
 भाषुक *n* welfare 658  
 भाषित *n* speech 563  
 भाषित *p* *p* spoken, uttered 887  
 भास्कर *m* the sun 121  
 भास्त्र *m* the sun 123  
 भिष्य *m* mendicant 601  
 भिष्य *m* hermit 663

भिन्न *p p* broken, torn 895  
 भिल *m* man of Bhil tribe 800  
 भियरू *m* physician 646  
 भी *f* fear 540  
 भीति *f* fear 540  
 भीम *m* Bbima, son of Wind 206  
 भीम *m* N of Siva 48  
 भीम *m* Bhima 744  
 भीष्म *f* a (timid) woman 365  
 भीर *a* coward 697  
 भीरक *a* coward 697  
 भीमस्त्र *f* the Ganges 232  
 भुज *m* the arm 427  
 भुजग *m* serpent 290  
 भुजर *m* serpent 290  
 भुजगाभुज *m* peacock 181  
 भुजाम *m* serpent 290  
 भुजशिरस् *n* the shoulder 427  
 भुजाकण्ठ *m* finger nail 431  
 भुजान्तर *n* the bosom, breast 433  
 भुवन *n* the world 207  
 भु *f* the world 209  
 भूलाया *f* darkness 161  
 भूतधारा *f* the earth 213  
 भूतनाथ *m* N of Siva 43  
 भूतनाथा *f* N of Parvati 56  
 भूति *f* wealth 353  
 भूति *f* ashes 898  
 भूतम *n* gold 347  
 भूदेव *m* brahmin 668  
 भूधर *m* mountain 216  
 भूप *m* king 677  
 भूपति *m* king 678  
 भूपाल *m* king 677  
 भूभुज *m* king 678  
 भूमि *f* the earth 209  
 भूयस् *a* much 843  
 भूयिष्ठ *a* much 843  
 भूरि *a* much abundant 843  
 भूरिचन्द *m* gold 347  
 भूपण *n* ornament 446  
 भूस्यक *m* man 361  
 भृकुटि *f* frown 421  
 भृत *m* bee 266  
 भृतक *m* servant 693

भूत *m* servant 692  
 भृश *a* excessive 875  
 भेक *m* frog 246  
 भेरी *f* kettle-drum 580  
 भेल *m* raft 241  
 भेरवी *f* N of Parvati 56  
 भोवत् *m* husband 370  
 भोगिन् *m* serpent 291  
 भाजन *n* meals 769  
 भीम *m* the planet Mars 146  
 भङ्गटि *f* frown 421  
 भङ्गर *m* bee 266  
 भङ्गरालक *m* curl 410  
 भङ्ग *p p* fallen, degraded 892  
 भाहू *m* brother 386  
 भृ *m* eye brow 422

## म

मास *n* flesh 787  
 मकर *m* sea monster 243  
 मकर *m* N of one of the nine treasures (of Kubera) 356  
 मकरवेन *m* God of love 58  
 मकरन्द *m* the juice of flowers honey 271  
 मकरालय *m* sea ocean 224  
 मतिनी *f* boat 240  
 मख *m* sacrifice 670  
 मधवन् *m* N of Indra 83  
 मधवन् *m* epithet of Indra 78  
 महाल *m* the planet Mars 146  
 महाल *n* welfare 658  
 मञ्जन *n* bathing 466  
 मञ्ज *m* bed stead 507  
 मञ्जक *m* bed-stead 507  
 मञ्जु *a* pleasing charming 854  
 मञ्जुघापा *f* N of an apsaras 95  
 मञ्जुल *a* beautiful charming 854  
 मठ *m* temple 652  
 मणि *m* jewel 349  
 मण्डल *n* ornament 446  
 मण्डल *n* decoration 491  
 मण्डप *m* pavilion 499  
 मण्डल *n* country 732  
 मण्डल *n* collection 834

मण्डल *n.* circle. 901  
 मण्डलाम *m.* bent-sword. 724  
 मण्डहारक *m.* distiller. 784  
 मण्डक *m.* frog. 246  
 मत *n.* opinion. 527  
 मतहन *m.* elephant. 306  
 मति *f.* intellect. 632  
 मत्स्य *m.* fish. 243  
 मरह्यपटी *f.* coarse auger. 771  
 मधित *n.* butter-milk. 764  
 मद *m.* pride. 534  
 मदन *m.* God of love. 57  
 मदना *f.* musk. 483  
 मदिरा *f.* wine, liquor. 785  
 मध *n.* wine, liquor. 785  
 मधु *n.* wine, liquor. 785  
 मधुकर *m.* bee. 268  
 मधुधूली *f.* molasses. 771  
 मधुम *m.* bee. 268  
 मधुर *a.* sweet. 819  
 मधुराकापिनी *f.* cuckoo. 183  
 मधुलिद *m.* bee. 268  
 मधुमत *m.* bee. 267  
 मधुसत *m.* God of love. 61  
 मधुमूदन *m.* N. of Viṣṇu. 25  
 मध्य *m.* the waist. 438  
 मध्य *a.* mean (time in music). 571  
 मध्य *a.* middle. 847  
 मध्यम *m.* the waist. 438  
 मध्यम *m.* a musical note. 569  
 मनस *n.* the mind. 402  
 मनसिज *m.* God of love. 59  
 मनोग *f.* intelligence. 633  
 मनोविद् *m.* a wise man. 589  
 मनुज *m.* man. 360  
 मनुष्य *m.* man. 360  
 मनुष्यधनेन् *m.* epithet of Kubera. 105  
 मनुष्यलोक *m.* the world. 208  
 मनोज *a.* pleasing, charming. 854  
 मनोभव *m.* god of love. 58  
 मनोरथ *m.* desire. 403  
 मनोरम *a.* lovely, charming. 855  
 मनोहर *a.* pleasing, charming. 853  
 मन्त्र *f.* fault, offence. 544  
 मन्त्र *a.* slow. 874

मन्द *m.* the planet Saturn. 150  
 मन्द *a.* fool. 594  
 मन्दालिनी *f.* the Ganges. 232  
 मन्दाक्ष *n.* bashfulness. 517  
 मन्दार *m.* N. of heavenly tree. 98  
 मन्दिर *n.* house. 495  
 मन्द *a.* low (tone in music). 572  
 मन्मथ *m.* god of love. 58  
 मन्तु *m.* anger. 535  
 मधूख *m.* ray. 141  
 मधूर *m.* peacock. 180  
 मरकत *n.* emerald. 349  
 मराल *m.* swan. 191  
 मरणिचि *m.* ray. 140  
 महत *m.* the wind. 201  
 महत् *m.* breath. 802  
 महत *m.* god. 70  
 महापथ *m.* sky. 118  
 महत्वद *m.* epithet of Indra. 82  
 महत्वस्य *m.* N. of Indra. 85  
 मंकट *m.* monkey. 327  
 मत्य *m.* man. 360  
 मद्दन *n.* rubbing. 818  
 मद्दल *m.* kind of drum. 579  
 मर्यादा *f.* boundary. 559  
 मलय *m.* N. of a mountain. 914  
 मलयङ्ग *m.* sandal. 288  
 मलयङ्ग *m.* sandal-wood. 485  
 मलयाचल *m.* N. of a mountain. 217  
 मलिन *a.* impure. 861  
 मलीमस *a.* impure, unclean. 861  
 मलिका *f.* jasminum zambac. 284  
 मस्तकिन् *m.* religious mendicant 667  
 मस्त *n.* the head. 404  
 मस्तक *n.* the head. 404  
 मस्तिक *n.* the head. 404  
 मह *m.* festival. 653  
 महत् *a.* great. 805  
 महत् *a.* large, great. 849  
 महस *n.* light, lustre. 143  
 महादेव *m.* N. of Siva. 37  
 महामार *m.* lion. 103  
 महारथ *n.* N. of one of the nine trea-  
 sures (of Kubera). 356  
 महामात्र *m.* elephant-driver. 709

महामाया *f* N of Parvati 55  
 महाघ्रा *m* elephant 308  
 महारस *n* gold 347  
 महाराज *m* finger nail 430  
 महासेन *m* epithet of Karttikeya 66  
 महिम्ब *m* one of the eight powers or  
     siddhis 354  
 महिला *f* woman 362  
 महिपी *f* the principal queen 687  
 मही *f* the earth 210  
 महीशुर *n* king 675  
 महोदय *m* tree 281  
 महैश्वर *m* N of a mountain 914  
 महैश्वर *m* N of Siva 37  
 महोपती *f* N of Parvati 55  
 महोपल *n* lotus 254  
 महोत्तम *m* festival 653  
 महोदय *m* final emancipation 657  
 मा *f* N of Laksmi 49  
 माकन्द *m* mango tree 286  
 माणिक्य *n* ruby 350  
 मातृह *m* elephant 306  
 मातृज्ञ *m* Candala 798  
 मातृरिश्च *m* the wind 202  
 मातृलि *m* Indra's charioteer 90  
 मातृ *f* mother 379  
 मात्र *f* a little 840  
 मात्र *m* N of Visnu 21  
 मात्यकीक *n* wine, liquor 786  
 मात्र *m* pride 533  
 मात्रव *m* man 360  
 मात्रस *n* the rind 402  
 मात्रसोक्षु *m* swan 191  
 मानिनी *f* woman 374  
 मात्रुप *m* man 360  
 माया *f* trick, deceit 539  
 माय *m* god of love 57  
 मायम *m* N of the one of the five  
     arrows of Cupid 64  
 मातृत *m* the wind 201  
 मातृति *m* N of Hanumat 748  
 मारी *m* way 318  
 मार्य *m* custom 628  
 मार्यग *m* suppliant 622  
 मार्यित *p p* searched, sought 893

मार्यंद *m* the sun 124  
 मार्ता *f* row, line 837  
 मार्ता *f* garland 466  
 मार्ताकार *m* florist 776  
 मार्तिक *m* florist 776  
 मार्त्य *n* garland 466  
 मास *m* month 162  
 मार्तिपञ्च *m* epithet of Yama 112  
 मार्हिती *f* cow 323  
 मितपच *a* miser 760  
 मितदु *m* sea ocean 226  
 मित्र *m* the sun 122  
 मित्र *n* friend 394  
 मिथुन *n* pair 829  
 मित्या *ind* falsely 626  
 मित्र *a* mixed 879  
 मित्र *n* pretext 538  
 मिट *a* sweet 819  
 मिहिर *m* the sun 124  
 मीन *m* fish 243  
 मीनकर्त्तव्य *m* god of love 60  
 मीमांसक *m* a follower of the Mimamsa  
     school 654  
 मीलित *n* closed flower, a bud 279  
 मुक्त *n* garland on the head 448  
 मुक्तन्द *m* N of Visnu 25  
 मुक्तन्द *m* N of one of the nine trea-  
     sures (of Kubera) 327  
 मुक्त *m* mirror 492  
 मुक्ताकलापक *n* pearl necklace 457  
 मुक्तामाला *f* pearl-necklace 457  
 मुक्तावली *f* pearl necklace 457  
 मुक्ति *f* final emancipation 656  
 मुद *n* face mouth 414  
 मुखकेश *m* beard 412  
 मुखरज्ञ *n* tambula 455  
 मुख्यसम्बन्ध *m* brahmin 669  
 मुख्य *a* chief 857  
 मुराय *f* young woman 366  
 मूड *n* the head 404  
 मुर्दम *n* shaving 777  
 मुर्म *m* joy 519  
 मुदिर *m* cloud 172  
 मुदू *m* kind of bean 752  
 मुद्र *m* club, mace 725

मुद्रा *m* pl N of a people 738  
 मुद्रा *f* finger ring 460  
 मुद्रिका *f* ring 460  
 मुद्रित *n* closed flower, a bud 277  
 मुधा *ind* in vain 556  
 मुनि *m* epithet of Buddha 14  
 मुनि *m* ascetic 600  
 मुनुष्य *m* ascetic 601  
 मुर्त *m* kind of drum 577  
 मुरली *f* flute 578  
 मुरारि *m* N of Viṣṇu 24  
 मृड *a* fool 594  
 मृख *a* fool 594  
 मूलंता *f* scale (in music) 573  
 मूर्खना *f* increasing 905  
 मूर्ति *f* the body 397  
 मूर्ति *f* image 653  
 मूर्धन् *m* the hair 407  
 मूर्धन् *m* the head 405  
 मूर्धवेदन् *n* turban 471  
 मूलद्रव्य *n* capital, principal 755  
 मूरकबाहन् *m* epithet of Ganesa 7  
 मूरग *m* deer 300  
 मूरगनाभि*f* musk 487  
 मूरगनाभिजा *f* musk 488  
 मूरगमद *m* musk 487  
 मूरगया *f* chase 794  
 मूरग्यु *m* hunter 794  
 मूरग्यक्षी *f* deer eyed woman 366  
 मूरग्न *m* the moon 132  
 मूरग्नाटक *m* musk 487  
 मूरारि *m* lion 303  
 मूरोऽद *m* lion 302  
 मृड *m* N of Śiva 38  
 मृदारी *f* N of Pārvati 53  
 मृणाल *n* lotus-stalk 265  
 मृत्युनाय *m* N of Śiva 41  
 मृत्यु *m* epithet of Yama 111  
 मृदन् *m* kind of drum 579  
 मृदु *a* tender 852  
 मृदुल *a* tender 852  
 मृष *n* battle 729  
 मृता *ind* falsely 626  
 मैत्तला *f* girdle 462  
 मैथ *m* cloud 172

मेपनिश्चन *m* thunder 178  
 मेप्यवाहन *m* N of Indra 82  
 मेचक *a* black 826  
 मेदू *m* the penis 442  
 मेष्ठक *m* ram 329  
 मेदिनी *m* the earth 210  
 मेदुर *a* thick, dense 871  
 मेधा *f* intellect 632  
 मेधाविन् *m* a learned man 589  
 मेघ *a* pure sacred 861  
 मेनका *f* N of an apsaras 95  
 मेह *m* N of a mountain 217  
 मेळक *m* union 512  
 मेष *m* ram 329  
 मेहन *n* the penis 442  
 मेत्री *f* friendship 516  
 मेथिली *f* N of Sita 741  
 मेथुन *n* sexual intercourse 513  
 मेनाकस्यम् *f* N of Pārvati 53  
 मोक्ष *m* final emancipation 656  
 मोप *a* vain, useless 556  
 मोचा *f* plantain tree 287  
 मोद *m* joy 519  
 मोपठ *m* thief 792  
 मोहन *m* N of Viṣṇu, 36  
 मोहन *m* N of one of the five arrows  
     of Cupid 64  
 मोहन *n* sexual intercourse 514  
 मौतिक *n* pearl 350  
 मौतिक *n* nose-ornament 454  
 मान *n* silence 550  
 मौखि *f* bow string 716  
 मौलि *m* the head 404  
 मौलि *m* *f* crown 448  
 मौहूर्तिक *m* astrologer 644  
 मूरज्ञ *n* butter 763  
 म्लेच्छ *m* foreigner 737

## य

यश *m* demi-god 99  
 यक्षराज *m* N of Kubera 101  
 यजुर्वेद *m* the Yajurveda 648  
 यज *m* sacrifice 670  
 यज्ञमूर्य [सिं] *m* N of Viṣṇu 30  
 यति *m* ascetic 600

यति *m* mendicant 665  
 यतिन् *m* ascetic 600  
 यतिन् *m* ascetic, mendicant 665  
 यथास्यित *ind* truly 627  
 यदुनाथ *m* N of Visnu 27  
 यम्भु *m* elephant driver 710  
 यन्त्रित *pp* fastened, bound 896  
 यम *m* Yama, the god of death 109  
 यमरात् *m* N of Yama 111  
 यमल *n* pair 829  
 यमस्यु *f* the river Yamuna 234  
 यमुना *f* the river Yamuna 234  
 यमुनाजनक *m* the sun 131  
 यमुनाधारू *m* N of Yama 112  
 यवन *m* *pl* the foreigners 737  
 यवस् *f* fame 613  
 यव पट्ट *m* kind of drum 580  
 यवोदातनय *m* N of Visnu 35  
 यग *m* sacrifice 670  
 याचक *m* suppliant 622  
 याज्ञा *f* asking begging 620  
 याज्ञेना *f* N of Draupadi 757  
 यातना *f* pain agony 553  
 यादस् *n* water 248  
 याद् पति *m* epithet of Varopa 109  
 याद् पति *m* sea ocean 225  
 यान *n* vehicle 316  
 यानपात्र *n* boat 239  
 याप्ययान *n* palanquin 315  
 याम *n* measure of time 162  
 यामिनी *f* night 158  
 यामिनीविरह *m* the bird cakravaka 185  
 यावक *m* red lac 465  
 युक्त *a* accompanied 830  
 युग *m* measure of time 163  
 युग *n* pair 828  
 युगल *a* pair 828  
 युग्मत *m* universal destruction 167  
 युग्म *n* pair 828  
 युग्म *n* vehicle 316  
 युद्ध *n* battle 727  
 युध *f* battle 729  
 युधिष्ठिर *m* Yudhiṣṭhīra 743  
 युद्धिती *f* young woman 365  
 युवन् *m* youth 803

पृथ *n* multitude 835  
 यूथिका *f* kind of flower 285  
 योगिन् *m* saint 601  
 यात्रा *a* fit 805  
 योद्ध *m* warrior 695  
 योद्ध *m* warrior 695  
 योनि *f* the female organ of generation 441  
 यापा *f* woman 362  
 यापित् *f* woman 364  
 यौवन *n* youth 803

२

रहस् *n* speed 874  
 रङ् *n* saffron 484  
 रक्त *n* blood 788  
 रक्त *a* red 822  
 रक्तुण्ड *m* parrot 189  
 रक्ष *m* demon 116  
 रक्षापल *n* (red) lotus 259  
 रक्षक *m* protector 803  
 रक्षस् *m* demon 99  
 रक्षस् *m* Ravapa 742  
 रक्षा *f* ashes 893  
 रघुनाथ *m* N of Rama 740  
 रक्षात्रीव *m* painter 781  
 रक्षक *m* washerman 782  
 रक्षत *n* silver 348  
 रजनी *f* night 158  
 रज्म *n* darkness 161  
 रजस् *n* dust 816  
 रण *n* battle 727  
 रेण *n* sexual union 513  
 रेतास्पद *n* bed chamber 503  
 रेति *f* sexual union 514  
 रेति *f* sport 515  
 रेति *f* pleasure 522  
 रतिपति *m* god of love 58  
 रेत *n* jewel 359  
 रेतगम्भीर *f* the earth 214  
 रेताकर *m* sea, ocean 226  
 रथ *m* chariot 314  
 रथकार *m* carpenter 779  
 रथाक्षाद्वय *m* the cakravaka bird 184

रथ्या *f* street 319  
 रथ्या *f* road, street 736  
 रद्ध *m* tooth 425  
 रदन *m* tooth 425  
 रदनच्छद *n* the lip 424  
 रन्ध्र *n* hole, cavity 846  
 रमण *m* husband 370  
 रमणी *f* beautiful woman 363  
 रमणीय *a* charming 856  
 रमा *f* N of Lakṣmi 49  
 रमासुत *m* God of love 62  
 रम्मा *f* N of sn apsaras 95  
 रम्भा *f* plantain tree 287  
 रम्य *a* lovely, charming 855  
 रथ्यक *n* one of the nine divisions of earth 914  
 रथ *m* speed 874  
 रवि *m* the sun 120  
 रहिम *m* ray 141  
 रस *m* poison 297  
 रसना *f* the tongue 426  
 रसना *f* the tongue 426  
 रसना (रभना) *f* girdle 462  
 रसा *f* the earth 213  
 रसातल *n* the patala 208  
 रसाळ *m* mango tree 286  
 रसित *n* thunder 178  
 रहस्य *n*, copulation 514  
 रहस् *ind* secretly 542  
 रहस्न *n* secret 635  
 राहस्य *m* demon 115  
 राग *m* affection 516  
 रात् *m* king 675  
 राजनीष्ठ *n* royal mark, regalia 642  
 राजन् *m* the moon 136  
 राजन् *m* king 675  
 राज्यम् *m* a man of the kṣatriya caste 674  
 राजराज *m* epithet of Kubera 102  
 राजवेशान् *m* kṣatriya 674  
 राजहस *m* kind of swan 192  
 राजाह *n* species of sandal 489  
 राजि *f* line row 857  
 राजीव *n* lotus 254  
 राटि *f* battle 730

रात्रि *f* lustre 494  
 रात्रिघर *m* demon 116  
 रात्रि / night 158  
 रायिविकासमाळू *n* lotus 263  
 राद्वान्त *m* established fact 636  
 राधाकृष्ण *m* N of Viṣṇu 35  
 राम *a* black 827  
 रामचन्द्र *n* N of Rama 740  
 रामज्ञापनिदावियुत् *m* the lurd eakta vāka 185  
 रामा *f* beautiful woman 363  
 राव *m* sound 641  
 रावण *m* Ravana 742  
 राति *f* heap 835  
 राट *n* country, region 732  
 रासभ *m* donkey 325  
 राहु *m* the planet Rahu 151  
 रिन *a* empty 876  
 रिथ *n* property, wealth 352  
 रिय *m* enemy 100  
 रिषि *m* sword 724  
 रिति *f* disrespect 616  
 रक्ष *n* gold 346  
 रक्ष *f* light, lustre 143  
 रक्षि *f* light, lustre 143  
 रवि *f* nature 528  
 रवि / hunger 770  
 रविर *a* pleasing 853  
 रघ्य *a* lovely 853  
 रुद्र *m* anger 535  
 रुदित *n* crying, bewailment 546  
 रुद्र *p* obstructed 885  
 रुद्र *m* N of Siva 39  
 रुद्राणी *f* N of Pārvat; 53  
 रुधिर *n* blood 788  
 रुद्रमुख *m* kind of deer 301  
 रुक्ष *a* harsh 850  
 रुप *n* nature, form 907  
 रुद्रानाना *f* harlot, courtesan 391  
 रुप्य *n* silver 348  
 रैक *m* suspicion doubt 903  
 रेणु *m* dust 816  
 रैम *m* wealth 351  
 रोग *m* disease 814  
 रोगहरू *m* physician 646

रोचिष्य *n* light lustre 143  
 रोदन *n* cry, bewailment 546  
 रोपस् *n* bank 238  
 रामोदयका *f* river 230  
 रोप *m* arrow 719  
 रमपद्मति *f* eye brow 422  
 रमरेत् *n* the hair on the body 412  
 रोमराती *f* line of hair on the abdo-  
men 413  
 रोमलता *f* line of hair on the abdo-  
men 413  
 रोमदण्ड *m* thrill bristling of hair 548  
 रोमदण्ड *m* thrill bristling of hair 548  
 रोमावरी *f* the line of hair on the  
abdomen 413  
 रोलस्ट *m* bee 266  
 रोप *m* anger 535  
 रोहण *m* N of a mountain 218  
 रोहिणी *f* cow 322  
 रोहिणीरमण *m* the moon 137  
 रोहत *m* fish 245  
 रोहिनाश *m* fire 338  
 रात्र *m* N of sentiment 582

## ८

रक्षण *n* mark 812  
 रक्षण *n* nature form 907  
 लक्ष्मण *m* Lakshmana brother of  
Rama 740  
 लक्ष्मन् *n* mark 812  
 लक्ष्मी *f* goddess Laksmi 49  
 लक्ष्मा *f* wealth 352  
 लक्ष्मी *f* beauty lustre 493  
 लक्ष्मीवत् *a* rich 758  
 लक्ष्य *n* pretence 538  
 लक्ष्मी *m* an epithet of Ravana 742  
 लक्ष्मिन् *m* one of the eight powers of  
siddhis 354  
 लघु *a* little small 841  
 लघु *a* quick 873  
 लघुसङ्घर्ष *m* window 504  
 लज्जा *f* bashfulness 517  
 लता *f* creeper 269  
 लोप *a* obtained 882  
 लघुलक्ष्मि *m* wise man 512

लक्ष्मीदैर *m* epithet of Ganesha 6  
 लक्ष्मी *m* dance 568  
 लड़ना *f* woman 362  
 लकाट *n* the fore-head 415  
 लकाटश *n* a chaplet of flowers worn  
on the fore head 450  
 लकाटिका *f* the fore head 415  
 लकाटिका *f* mark on the forehead 452  
 लकामक *n* chaplet of flowers worn on  
the fore head 450  
 लब *a* little 840  
 लवण *m* salt 831  
 लवण *m* one of the seven seas 911  
 लहरा *f* wave 236  
 लक्ष्मि *n* plough 774  
 लक्ष्मण *n* stigma 812  
 लाभ *m* gain profit 755  
 लालसा *f* desire 531  
 लालवत्य *n* beauty 494  
 लालवत् *n* dance 567  
 लिप्त *p p* smeared 878  
 लिप्ता *f* desire 531  
 लाला *f* sport 515  
 लालवती *f* woman 367  
 लालधक *m* hunter 794  
 लाल *p p* cut 894  
 लेख *m* god 70  
 लेख *m* letter 561  
 लेज *a* little 840  
 लोक *m* the world 207  
 लाक्ष्मीता *f* N of Lakshmi 50  
 लोकालोक *m* N of a mountain 218  
 लोकेश *m* N of Brahman 17  
 लोचन *n* the eye 418  
 लोभ *m* desire 531  
 लोभित् *a* greedy 760  
 लोमन् *n* the hair on the body 412  
 लाल *a* unsteady 868  
 लोहकार *m* black smith 780  
 लाहित *a* red 822

## ९

वंश *m* family race 388  
 वरा *m* the back bone 437  
 वंश *m* flute 578

वशिका *f.* aloe wood 489  
 वक्ष *n.* mouth, face 414  
 वक्र *m.* the planet Mars 146  
 वक्र *a.* crooked, curved 848  
 वक्षाम् *n.* bosom, breast 433  
 वक्षात् *m.* the female breast 434  
 वचन *n.* speech 563  
 वचनीयता *f.* blame, censure 614  
 वचस् *n.* speech 563  
 वचस् *n.* order 609  
 वज्र *n.* Indra's thunderbolt 91  
 वज्र *n.* diamond 350  
 वज्रकदृष्ट *m.* N of Hanumat 748  
 वज्रिन् *m.* epithet of Indra 81  
 वज्रन् *n.* trick, deceit 539  
 वठर *a.* fool 595  
 वडवा *f.* mate 313  
 वदवानेत् *m.* submarine site 340  
 वदवायुम् *m.* submarine fire 341  
 वणिन् *m.* merchant 749  
 वस्तनाम् *m.* poison 298  
 वरसर *m.* year 166  
 वदन *n.* mouth face 414  
 वदान्य *a.* liberal munificent 808  
 वधू *f.* woman 367  
 वधू *f.* wife 376  
 वद *n.* water 220  
 वन *n.* grove 278  
 वनपिया *f.* cuckoo 183  
 वनमालिन् *m.* N of Visnu 28  
 वनस्पति *m.* tree 283  
 वनानल् *m.* forest conflagration 342  
 वनायुम् *m.* species of horse 312  
 वनिता *f.* woman 362  
 वनीपक *m.* suppliant 622  
 वनेचर *m.* man of the Bhil tribe 800  
 वनीकर *m.* monkey 327  
 वन्दन *n.* salute 603  
 वधन *n.* shaving 778  
 वहु *n.* the body 397  
 वहू *m.* father 378  
 वर्ध *m.* rampart 735  
 वत्र *m.* field 774  
 वयद् *n.* bird 193  
 वयस् *n.* youth 803

वयस्य *m.* a youth 803  
 वयस् *m.* friend 394  
 वयस्या *f.* female friend 395  
 वर *m.* husband 371  
 वरण *m.* rampart 735  
 वरद *m.* N of Siva 47  
 वरितु *m.* husband, lover 371  
 वरा *f.* (refined) sugar? 771  
 वराह *m.* hog 325  
 वरिष्ठस्या *f.* devotion 605  
 वरण *m.* Varuna 107  
 वरुणिनी *f.* army 704  
 वग *m.* group, collection 836  
 वचस् *n.* light, lustre 143  
 वण *m.* fame, glory 613  
 वणना *f.* praise 612  
 वणिन् *m.* religious student 664  
 वणिनी *f.* woman 364  
 वार्णी *n.* saffron 484  
 वर्तन *n.* livelihood 754  
 वर्तुल *n.* circle 901  
 वर्गम् *n.* road 318  
 वर्षकि *m.* carpenter 779  
 वर्मन् *n.* armour 711  
 वर्ष *a.* chief 857  
 वर *n.* year 165  
 वर्षा *f.* pl. the rainy season 164  
 वर्षभूम् *m.* frog 246  
 वस्त्र *n.* the body 397  
 वस्त्र *m.* n. bracelet 461  
 वस्त्राकृति *f.* circle 901  
 वस्ति *f.* wave 235  
 वस्त्र *n.* bark 672  
 वस्त्रल *n.* bark 672  
 वस्तु *a.* lovely, beautiful 854  
 वात्सी *f.* lute 578  
 वहन *m.* lover, husband 371  
 वहना *f.* wife 374  
 वहरा *f.* creeper 269  
 वही *f.* creeper 269  
 वसा *f.* woman 365  
 वदिवर *n.* one of the eight powers or  
 siddhis 355  
 वद्वस्त्र *m.* formula वप्त 671  
 वसति *f.* house 497

वसन *n* garment 468  
 वसन्त *m* the spring season 164  
 वसन्त *m* वैशन्त (?) lake ? 252  
 वसुपरा *f* the earth 210  
 वसु *f* light, lustre 143  
 वसु *n* jewel 349  
 वसु *n* wealth 352  
 वसुधा *f* the earth 209  
 वसुमती *f* the earth 211  
 वस्त्र *n* garment 468  
 वहन *n* boat 239  
 वाहनक *n* boat 239  
 वह्नि *m* fire 331  
 वाक्य *n* speech 563  
 वागुरि *m* deer catcher, hunter 793  
 वारदेवा *f* N of Sarasvati 3  
 वारिमन् *m* orator 593  
 वाच् *f* speech 563  
 वाचस्पति *m* N of Bhagaspatti 148  
 वाचा *f* oath 610  
 वाचिक *n* message 561  
 वाच्य *n* message 561  
 वाज *m* wing 200  
 वाजिन् *m* horse 310  
 वान्धवा *f* desire 532  
 वाटिका *f* grove garden 279  
 वाडव *m* submarine fire 341  
 वाढव *m* brahmin 668  
 वाणिज *m* merchant 749  
 वात *m* the wind 201  
 वातायन *n* window 504  
 वातायु *m* deer 301  
 वादिन्न *n* instrumental music 563  
 वादिन *n* musical instrument 575  
 वाद्य *n* musical instrument 575  
 वानप्रस्थ *m* hermit 663  
 वानर *m* monkey 327  
 वापी *f* lake 249  
 वाम *a* unfavourable adverse 888  
 वामदेव *n* N of Siva 42  
 वामन *a* short, dwarfish 844  
 वामलोक्या *f* woman (with lovely eyes) 364  
 वामा *f* woman 366  
 वामी *f* mare 313

वायवी *f* the north west 171  
 वायु *m* the wind 201  
 वायुपुत्र *m* an epithet of Bhima 744  
 वायुसख *m* fire 335  
 वार *m* time 543  
 वार *m* multitude 832  
 वारा *m* elephant 309  
 वारवाण *n* armour 712  
 वारी *n* water 219  
 वारिंग *n* lotus 257  
 वारिद *m* cloud 175  
 वारिरात्रि *m* sea, ocean 224  
 वारिवाह *m* cloud 172  
 वारणी *f* wine, liquor 785  
 वात्ती *f* news tidings 560  
 वादृक्षय *n* old age 804  
 वाल्यजन *n* chowrie 683  
 वास *m* fragrance perfume 482  
 वासगृह *n* bed-chamber 503  
 वासयोग *m* fragrant flower 480  
 वासर *m* day 156  
 वासव *m* epithet of Indra 77  
 वास्तु *n* garment 468  
 वासुकि *m* the lord of serpents 295  
 वासुदेव *m* N of Vishnu 23  
 वाह्योत्तमि *m* N of Indra 85  
 वाह *m* horse 311  
 वाहन *m* conveyance 316  
 वाहिनी *f* army 704  
 वि *m* bird 197  
 विक्ष *a* full blown 275  
 विकर्तन *m* the sun 126  
 विकसित *a* full blown 274  
 विकिर *m* bird 197  
 विक्रम *n* valour 698  
 विक्रम *m* effort 817  
 विकाल *m* hero 696  
 विद्या *a* well-known 807  
 विघ्न *m* body 396  
 विघ्न *m* battle 730  
 विम *m* obstacle hindrance 814  
 विमाराज *m* epithet of Ganesha 5  
 विचाण *m* a learned man 590  
 विचाल *a* intervening 847  
 विज्ञ *n* solitary place 542

विजृमित *a* full blown 275  
 विज्ञ *a* wise 591  
 विट *m* man 361  
 विटीपेन् *m* tree 282  
 विहूल *m* N of Viṣṇu 36  
 वितथ *n* lie 626  
 वितरण *n* gift 621  
 वितर्दि *f* altar 673  
 वितान *n* awning 510  
 वित *n* wealth 351  
 विद्यरथ *a* learned 591  
 विदित *p p* known, understood 889  
 विहृ *p p* pierced 895  
 विद्यापर *m* a demi god 99  
 विलृत् *f* lightning 175  
 विहुम *m* coral 350  
 विहृस् *a* learned 588  
 विहृण *m* enmity, quarrel 813  
 विधात् *m* N of Brahman 17  
 विधि *m* epithet of Brahman 15  
 विधि *f* fate 524  
 विधि *f* rule 628  
 विरुद्धुद *m* N of Rahu 151  
 विषु *m* N of Viṣṇu 33  
 विषु *m* the moon 133  
 विषुर *n* distress 554  
 विनय *m* devotion 605  
 विनायक *m* N of Ganeśa 5  
 विनिद्र *a* full blown 277  
 विनेय *m* pupil 598  
 विन्द्य *m* N of a mountain 217  
 विवश *m* enemy 700  
 विवही *f* lute 578  
 विवणि *f* market place 751  
 विवर *f* distress 554  
 विवर्चि *f* adversity 759  
 विवर्य *m* contrariety, reverse 890  
 विवर्योस *m* contrariety, reverse 890  
 विवश्चित् *a* learned 590  
 विविन *n* grove 278  
 विवुल *a* large 849  
 विवुला *f* the earth 213  
 विम *m* brahmin 668  
 विमहृष्ट *a* distant, remote 867  
 विमतारण *n* trick, deceit 539

विप्रयोग *m* separation 545  
 विप्रलभ्म *m* separation 545  
 विप्रिय *a* disagreeable 544  
 विदुष *m* god 69  
 विभव *m* wealth 351  
 विभाकर *m* the sun 128  
 विभावरी *f* night 159  
 विभावसु *m* fire 334  
 विभु *m* lord 680  
 विभूति *f* richness 353  
 विभूति *f* wealth riches 757  
 विभूषा *f* beauty, lustre 493  
 विभ्रम *m* splendour, beauty 494  
 विभ्रम *m* amorous play 521  
 विमदन *m* fragrance 482  
 विमान *n* heavenly car 92  
 वियद् *n* sky 119  
 वियदापाणि *f* the Ganges 232  
 वियाप *m* separation 545  
 विरह *m* separation 545  
 विरक्ति *m* N of Brahman 17  
 विस्पाश *m* N of Siva 47  
 विरोचन *m* the sun 123  
 विरोधन *m* fire 339  
 विरोध *m* enmity, quarrel 813  
 विलम्ब *n* the waist 438  
 विलम्बित *a* slow (time in music)  
     571  
 विलाप *m* bewailment 546  
 विलास *m* sport 515  
 विलास *m* pleasure, diversion 521  
 विलामिती *f* woman 366  
 विलेपन *n* smearing 467  
 विलाम *a* opposite 888  
 विवर *n* hole cavity 846  
 विवस्वत् *m* the sun 130  
 विवाह *m* marriage 368  
 विवाहन *n* marriage 369  
 विविक्त *n* solitary place 542  
 विवोहृ *m* husband bride groom 370  
 विवद *a* white 824  
 विवास *m* N of Karttikeya 67  
 विवारद *m* learned man 589  
 विवाल *a* large great 869  
 विविष *m* arrow 718

विश्वसता *f* road 736  
 विशेषक *n* mark on the fore head 451  
 विश्रम्भ *m* confidence 904  
 विश्राङ्गन *n* gift 621  
 विशुत *a* well known 807  
 विश्वभर *m* N of Viṣṇu 26  
 विश्वभरा *f* the earth 211  
 विश्व *n* the world, universe 207  
 विश्व *a* all, whole 839  
 विश्वकर्म्म *n* N of the architect of gods 88  
 विश्व [व] वसेन *m* N of Viṣṇu 26  
 विश्वस्त्र *m* N of Viṣṇu 26  
 विश्वस्त्र *m* N of Brahman 17  
 विश्वाम *m* confidence 904  
 विष *n* water 222  
 विष *m* poison 297  
 विषधर *m* serpent 292  
 विषमायुध *m* god of love 59  
 विषय *m* country 732  
 विष्मूळ *m* the bird cakora 186  
 विषाद *m* grief sorrow 552  
 विषान्तहरू *m* N of Śiva 46  
 विष्कर *m* bird 198  
 विष्टप *n* the world 207  
 विष्टर *m* seat 506  
 विष्टुश्वस *m* N of Viṣṇu 31  
 विष्णु *m* N of Viṣṇu 22  
 विष्णुपद *n* sky 117  
 विष्णुपदी *f* the Ganges 233  
 विसर्वन *n* gift 620  
 विसारित् *m* fish 244  
 विस्तीर्ण *a* large, great 849  
 विस्तय *m* wonder 529  
 विश्वरा *f* old age 804  
 विहंग *m* bird 195  
 विहाम *m* bird 195  
 विहंग *m* bird 195  
 विहाय *m* bird 197  
 विहायम् *n* sky 119  
 विहित *a* accomplished 881  
 वीक्षण *n* looking at 420  
 वीचि *f* wave 236  
 वीजित *a* fanned 869  
 वीणा *f* lute 576

वीणा *f* lute 578  
 वीणा *f* lute 916  
 वीणायुत *m* N of Narada 20  
 वीतराग *m* supreme being 11  
 वीति *m* horse 311  
 वीतिहोत्र *m* fire 336  
 वीथी *f* street 319  
 वीर *m* N of a sentiment 582  
 वीर *m* hero 696  
 वीरूपू *f* creeper 269  
 वीर्य *n* strength, vigour 699  
 वृक्षदेर *m* epithet of Bhima 744  
 वृक्ष *m* tree 281  
 वृशकश *m* cock 188  
 वृत्तन *n* sin 625  
 वृत्तिन *n* sin 625  
 वृत्त *n* custom 628  
 वृत्त *n* circle 901  
 वृत्ताति *n* news tidings 560  
 वृत्ति *f* livelihood 754  
 वृत्तिहरू *m* N of Indra 84  
 वृथा *ind* in vain 556  
 वृद्ध *a* old 804  
 वृद्धथवस् *m* epithet of Indra 81  
 वृद्ध *n* collection 830  
 वृद्धरक *m* god 71  
 वृष *m* bull 321  
 वृष *m* pious act 623  
 वृषभ *m* epithet of Indra 78  
 वृषभ *m* bull 320  
 वृषभधर्ज *m* N of Śiva 42  
 वृषभवाहन *m* N of Śiva 48  
 वृषाकपि *m* N of Viṣṇu 26  
 वृषाकपि *m* fire 336  
 वृषभातु *m* fire 331  
 वृता *m* speed 874  
 वृडा *f* boat 240  
 वृणिका *f* braided hair 409  
 वृणी *f* braided hair 409  
 वृणु *f* flute 573  
 वृत्रहृत् *m* door keeper 689  
 वृदना *f* pain agony 553  
 वृदिका *f* altar 673  
 वृदिका *f* an epithet of Draupadi 747  
 वृद्धी *f* altar 673

ब्रह्मसु *m* epithet of Brahman 15  
 ब्रह्मिति *p p* pierced, bored 895  
 ब्रह्मशु *m* tremor, trembling 552  
 ब्रह्म *n* the body 397  
 ब्रह्मा *f* ebb 237  
 ब्रह्मा *f* time 543  
 ब्रह्मित *a* trembling 869  
 ब्रह्मन् *n* house 497  
 ब्रह्मया *f* harlot courtesan 391  
 ब्रह्म *m* dress 471  
 ब्रह्मनक *n* under-garment 473  
 ब्रह्मकश्म *n* upper garment 472  
 ब्रह्मुकुष्ठ *m* N of Viṣṇu 28  
 ब्रह्मवानस *m* hermit 665  
 ब्रह्मवत *m* N of Indra's palace 89  
 ब्रह्मदृश्य *n* gem 350  
 ब्रह्मिक *m* butcher 795  
 ब्रह्मालिक *m* bard 731  
 ब्रह्मद्विक *m* merchant 749  
 ब्रह्मदेही *f* epithet of Sītā 741  
 ब्रह्म *m* physician 646  
 ब्रह्मक *m* physician 647  
 ब्रह्मवेय *m* N of Garuḍa 193  
 ब्रह्मवोरय *n* contrariety, reverse 890  
 ब्रह्म *n* enmity quarrel 813  
 ब्रह्मित्य *m* enemy 700  
 ब्रह्मेश्विक *m* Vaishēshika 654  
 ब्रह्मश्य *m* Vaishya 662  
 ब्रह्मधग *m* N of Kubera 104  
 ब्रह्मानर *m* fire 332  
 ब्रह्मारेण *m* fish 244  
 ब्रह्म *a* clear, manifest 872  
 ब्रह्मजन *n* fan 492  
 ब्रह्मणक *m* dramatic action 568  
 ब्रह्मज्ञ *n* condiment, sauce 768  
 ब्रह्मत्याम *m* contrariety, reverse 890  
 ब्रह्मपा *f* pain agony 553  
 ब्रह्मदग *m* devise 538  
 ब्रह्मिधारिणी *f* unchaste woman 393  
 ब्रह्मं *a* useless 556  
 ब्रह्मीक *n* fault, offence 544  
 ब्रह्मवायाप *m* business 817  
 ब्रह्मसम *n* difficulty 554  
 ब्रह्माकरण *n* grammar 649  
 ब्रह्मप *m* tiger 305

ब्रह्माज *n* pretext, pretence 539  
 ब्रह्माध *m* hunter 794  
 ब्रह्माप *m* increasing 905  
 ब्रह्मास *a* covered, pervaded 878  
 ब्रह्मायाम *m* exertion, effort 555  
 ब्रह्माल *m* serpent 294  
 ब्रह्माहार *m* speech 563  
 ब्रह्मुपद्म *a* learned 593  
 ब्रह्मूद्ध *m* collection 830  
 ब्रह्माकार *m* black smith 780  
 ब्रह्मामकेद *m* N of Śiva 43  
 ब्रह्मामत् *n* the sky 117  
 ब्रह्म *m* cow house 761  
 ब्रह्म *m* collection, multitude 831  
 ब्रह्म *n* bow 630  
 ब्रह्मति *f* creeper 269  
 ब्रह्मतिन् *m* ascetic 600  
 ब्रह्मा *m* the sun 126  
 ब्रह्मत *m* multitude, group 831  
 ब्रह्मिडा *f* bashfulness 517

## ग

गङ्गा *m* N of Śiva 37  
 गङ्गारी *f* N of Parvati 56  
 गङ्गाभु *m* N of Śiva 38  
 गङ्गामुखल *n* N of Kubera 103  
 गङ्गास *f* happiness 523  
 गङ्गा *m* pl N of a tribe 738  
 गङ्गाक *m* chariot 314  
 गङ्गाळ *n* part pice 839  
 गङ्गान *m* bird 196  
 गङ्गालि *m* bird 196  
 गङ्गाल्ला *m* bird 193  
 गङ्गांश *f* strength, vigour 699  
 गङ्गापित *m* N of Karttikeya 68  
 गङ्गा *m* N of Indra 77  
 गङ्गाकोगाम्यश *m* epithet of Kubera  
 106  
 गङ्गा *f* doubt fear 546  
 गङ्गा *m* one of the nine treasures (of  
 Kubera) 356  
 गङ्गा *m* military-drum or conch-shell  
 581  
 गङ्गी *f* Indra's wife 87  
 गङ्गीपति *m* N of Indra 80

शठ *a* fool 595  
 शठ *a* wicked 810  
 शाठता *f* trick, deceit 539  
 शनकुम् *m* epithet of Indra 79  
 शतपत्र *n* lotus 235  
 शतमन्त्र *m* N of Indra 83  
 शतहृदा *f* lightning 177  
 शताङ्ग *m* chariot 314  
 शत्रु *m* enemy 700  
 शनि *m* the planet Saturn 150  
 शनीश्वर *m* the planet Saturn 150  
 शप *m* curse 558  
 शपथ *m* curse 558  
 शपन *n* curse 558  
 शफरा *f* fish 245  
 शब्द *m* sound 640  
 शन्दमाह *m* the ear 416  
 शमन *m* N of Yama 109  
 शम्पा *f* lightning 176  
 शम्बर *n* water 220  
 शम्बर *m* fish 244  
 शम्बर *m* man of Bhil tribe 800  
 शय *m* the hand 428  
 शयन *n* bed 508  
 शयनीय *n* bed 508  
 शय्या *f* bed 508  
 शाय्यागृह *n* bed-chamber 503  
 शर *m* arrow 718  
 शरजम्बन् *m* N of Karttikeya 67  
 शरण *n* house 497  
 शरद *f* autumnal season 164  
 शरद *f* year 166  
 शरभ *m* N of a fabulous animal 305  
 शरासन *n* bow 715  
 शरीर *n* body 396  
 शरीरिन् *m* the soul 401  
 शर्व *m* bull 320  
 शक्ता *f* candied sugar 772  
 शम्भू *n* happiness 523  
 शर्व *m* N of Siva 39  
 शर्वेरा *f* night 158  
 शर्वाणी *f* N of Parvati 55  
 शक्तन् *m* fish 245  
 शहस्ररि *m* epithet of Yudishthira 743

शशधर *m* the moon 134  
 शशाङ्क *m* the moon 133  
 शशिन् *m* the moon 132  
 शशिमिया *f* lotus 264  
 शस्त्र *n* happiness, welfare 659  
 शस्त्र *n* weapon 714  
 शश्वत्मार्ज *m* weapon cleaner 780  
 शशिका *f* knife 721  
 शस्य *n* grain 752  
 शाक *m* bull 321  
 शाक *m* vegetable 768  
 शाक *m* one of the seven dvipas 910  
 शाकुनिक *m* bird catcher 795  
 शाखामगा *m* monkey 327  
 शाखिन् *m* tree 281  
 शालय *n* trick, deceit 539  
 शालकौम्भ *n* gold 344  
 शाश्वत *m* enemy 701  
 शान्त *n* tranquility 523  
 शान्त *m* N of a sentinent 583  
 शाप *m* curse 557  
 शारदा *f* N of Sarasvati 3  
 शाकर *m* bull 320  
 शाहिन् *m* N of Vishnu 32  
 शाहूल *m* tiger 305  
 शाल *m* rampart 735  
 शाल्हा *m* frog 246  
 शालमणि *m* one of the seven dvipas 909  
 शाव *m* child 383  
 शाश्वत *a* permanent, constant 867  
 शासन *n* order, command 609  
 शास्त्र *m* teacher 597  
 शास्त्र *n* treatise 637  
 शिष्यक *m* teacher 597  
 शिक्षा *f* phonetics 6 9  
 शिखण्डिक *m* cock 187  
 शिखण्डिका *f* lock of hair on the crown  
     of the head 411  
 शिखण्डन् *m* peacock 181  
 शिखरिन् *m* the mountain 215  
 शिखा *f* lock of hair on the crown of  
     the head 411  
 शिखा *f* flame 897  
 शिलिन् *m* N of Ketu 152

निमिन् *m* peacock 180  
 निरिन् *m* fire 335  
 निक्षिवाहन *m* epithet of Karttikeya 66  
 निर्दृग्नी *f* the nose 417  
 निरम् *n* the head 405  
 निरक्षण *n* helmet 713  
 निरागृह *n* turret 502  
 निराघरा *f* the neck 432  
 निराधि *f* the neck 432  
 निरामणि *m* crest jewel 447  
 निराह *m* the hair 407  
 निरा *f* stone 815  
 निर्लीमुख *m* bee 266  
 निर्लीमुख *m* arrow 719  
 निर्लोक्य *m* mountain 216  
 निर्लिन् *m* artisan 783  
 निष्ठ *m* N of Samkara 37  
 निष्ठ *m* final emancipation 656  
 निष्ठ *n* welfare 659  
 निष्ठा *f* N of Pārvati 52  
 निषिका *f* palanquin 315  
 निषिर *a* cold 144  
 निषिर *m* the cold season 165  
 निषु *m* child 382  
 निश्च *n* the penis 442  
 निष्ठ *a* virtuous 806  
 निष्प *m* pupil 598  
 निष्प *a* quick 873  
 नीन *a* cold 144  
 नीतल *a* cold 144  
 नीतिंशु *m* the moon 133  
 नीषक *n* the head 404  
 नीरिण्य *n* helmet 713  
 नीर्युष *n* crest jewel? 447  
 नीर्वामत्रा *n* head ornament 447  
 नीछ *n* nature 528  
 नीक *n* custom 628  
 नीक *m* parrot 189  
 नीक *m* the preceptor of the demons  
     149  
 नीक *m* fire 339  
 नीकरिण्य *m* demon 113  
 नीक *a* white 823  
 नीक *f* grief sorrow 551  
 नीक *m* fire 339

नीचि *a* white 823  
 नीचि *a* pure 862  
 नीषदा *f* wine, liquor 786  
 नीदान्त *n* harem 686  
 नीम *n* fate 524  
 नीम *n* welfare 658  
 नीमकमन् *n* pious deed 623  
 नीमवेदन *n* happiness 523  
 नीम *a* white 823  
 नीक *a* dry 899  
 नीमन् *m* fire 314, 340  
 नीकर *m* hog 325  
 नीत *m* Sudra 662  
 नीन्य *a* empty 876  
 नीर *m* hero 695  
 नीलिन् *m* N of Siva 33  
 नीगल *m* jackal 328  
 नीदुल *m* chain 813  
 नीहर *m* N of a sentiment 582  
 नीजारथानि *f* god of love 62  
 नीगर *m* garland on the head 444  
 नीक *m* the penis 452  
 नीमुपि *f* intellect 632  
 नीर *m* lord of serpents 296  
 नीरसामिन् *m* N of Viṣṇu 29  
 नीष *m* pupil 598  
 नीर *m* mountain 215  
 नीष *m* a Sāiva 654  
 नीषिलिनी *f* river 223  
 नीक *m* grief 551  
 नीषन *n* grief, sorrow 551  
 नीषिक्षेत्र *m* fire 337  
 नीविष्ट *n* light, lustre 143  
 नीण *a* red 822  
 नीयित *n* blood 788  
 नीमन *a* handsome, lovely 856  
 नीभा *f* beauty lustre 493  
 नीषग *m* N of one of the five arrows  
     of cupid 64  
 नीषिक *m* distiller 784  
 नीनिक *m* butcher 795  
 नीरि *m* N of Viṣṇu 27  
 नीरि *m* the planet Saturn 150  
 नीय *n* valour, strength 693  
 नीमु *n* the beard 412

इयाम *m* N of Viṣṇu 34  
 इयाम *a* black 826  
 इयामल *a* black 826  
 इयामा *f* cuckoo 183  
 इदाग्नि *m* believer 599  
 इम *m* fatigue 555  
 इम *m* practice, study 818  
 इमोग्नि *m* tear 547  
 इमात्रु *n* sweat 547  
 इव *m* the ear 416  
 इवण *n* the ear 416  
 इव(त)स्त *p p* fallen 892  
 आद *m* pupil(*i*) 599  
 आदेव *m* N of Yama 110  
 आवक *n* pupil 599  
 आरी *f* N of Lakṣmi 49  
 आरी *f* beauty, lustre 493  
 आरी *f* wealth 757  
 आरीकण्ठ *m* N of Siva 37  
 आत्मण *m* sandal 288  
 आत्मण *m* sandal wood 485  
 आधन *m* epithet of Buddha 13  
 आद *m* epithet of Kubera 101  
 आधर *m* N of Viṣṇu 29  
 आपति *N* of Viṣṇu 21  
 आमत *a* wealth 758  
 आकर्षलाभठन *m* N of Viṣṇu 27  
 आत *n* the Veda 636  
 आति *f* the ear 416  
 आणि *m f* row, line 837  
 आयस् *n* pious act 623  
 आयम् *n* welfare 659  
 आयस् *m* virtuous 806  
 आष *a* best 805  
 आणि *f* the hips 439  
 आत्र *n* the ear 416  
 आदृण *a* small 841  
 आधार *f* praise 612  
 आशोक *m* fame 613  
 आन *m* dog 326  
 आपच *m* cāndala 798  
 आसन *m* the wind 204  
 आसित *n* breath 802  
 आनमण्डल *m* dog 326  
 आस *m* breath 802

भेत *a* white 823  
 भेताप *m* an epithet of Arjuna 746  
 ए  
 एट्कमन् *m* Brahmin 669  
 एट्पद *m* bee 267  
 एहज *m* musical note 569  
 एण्ड *n* wood 278  
 एण्ड *m* N of Siva 45  
 एष्मुख *m* epithet of Kārttikeya 66  
 एट्टव *n* tune with six notes 586, 587  
 एष्मातुर *m* epithet of Karttikeya 60

स

संकट *a* filled with 877  
 संकल्प *m* desire 403  
 संकल्पामन् *m* god of love 62  
 संकाश *a* similar 863  
 संकीर्ण *a* filled with 877  
 संकुचित *n* closed flower, bud 277  
 संकुल *a* filled with 877  
 संकृदन् *m* epithet of Indra 78  
 संलय *n* battle 728  
 संत्यापन् *a* learned 590  
 संग *m* union 512  
 संगम *m* union 512  
 संपर *m* promise 610  
 संग्राम *m* battle 727  
 संप *m* collection, multitude 831  
 संपन *a* dense 871  
 संघात *m* multitude, collection 834  
 संघचारिन् *m* fish 243  
 संचय *m* collection, multitude 833  
 संचर *m* path 319  
 संचारिका *f* female messenger 390  
 संज्ञा *f* name, appellation 619  
 संतति *f* offspring 385  
 संसरम *m* darkness 160  
 संतान *m n* offspring progeny 385  
 संतान *N* of a heavenly tree 97  
 संसोप *m* satisfaction 522  
 संवेद *m* message 561  
 संदेशाहरक *m* messenger 691  
 संदेह *m* doubt 903  
 संदोह *m* multitude, collection 832

संघा f. oath. 610  
 संगाह m. armour. 711  
 संनिधान a. near. 866  
 संनिधि f. nearness. 866  
 संनिम a. similar. 863  
 संपरायक n. battle. 728  
 संषुक a. mixed. 879  
 संप्रद् m. joy. 519  
 संप्रदाय m. tradition. 611  
 संबाध a. filled with. 877  
 संभोग m. sexual union. 513  
 संघत f. battle. 729  
 संघत m. ascetic. 660  
 संघमित् m. ascetic. 601  
 संयुग n. battle. 727  
 संरेभ m. anger. 536  
 संछय m. sleep. 541  
 संवासरे m. year. 163  
 संवत्क m. submarine fire. 341  
 संयुलित p p. mixed. 879  
 संबाहन n. rubbing. 818  
 संविद् f. intellect. 634  
 संविति f. intellect. 634  
 संविद् f. promise. 610  
 संवेष m. sleep. 541  
 संध्यात् n. upper garment. 475  
 संशय m. doubt. 903  
 संसेप m. embrace. 511  
 संसद् f. assembly. 684  
 संसार m. the world. 208  
 संस्कोट m. battle. 730  
 संहति f. collection, multitude. 832  
 संहन n. the body. 398  
 संहार m. universal destruction. 167  
 संकल n. all, whole. 838  
 संतिप n. the thigh. 443  
 संनित् m. friend. 394  
 संघी f. female companion. 395  
 संग्राम n. friendship. 516  
 संह m. union. 512  
 संज्ञन a. virtuous. 806  
 संनी f. N. of Parvati. 54  
 संनी f. virtuous or good woman. 399  
 संकार n. respect. 607  
 संचम a. best, excellent. 858

संवत् n. sacrifice. 670  
 संवर n. the individual soul. 401  
 संत्य m. truth. 627  
 संत्यकार m. ratification. 756  
 संयापन n. ratification. 756  
 संवर a. quick. 873  
 संदेन n. house. 495  
 संदर्भ n. assembly. 684  
 संदागति m. the wind. 203  
 संदाचार m. good conduct. 806  
 संदर्भ a. similar. 863  
 संदान n. house. 495  
 संघर्षिणी f. wife. 377  
 संघीची f. female companion. 395  
 संन्मान m. esteem. 607  
 संपरन m. enemy. 701  
 संपर्या f. worship. 606  
 संसकी f. girdle. 462  
 संसत्वत् m. sacrifice. 670  
 संसमन्त्र m. fire. 340  
 संसमसि m. the sun. 128  
 संसारित् m. fire. 337  
 संसारण m. the sun. 123  
 संसि m. horse. 311  
 संभा f. assembly. 684  
 संस्थ m. member of an assembly. 635  
 संस्थ a. virtuous. 806  
 संस a. similar. 863  
 संमक्षा f. comparison. 864  
 संमझ a. all, whole. 338  
 संमङ्गा f. assembly. 684  
 संमन्वयत a. accompanied. 880  
 संमय m. time, moment. 543  
 संमय m. instruction. 637  
 संमया ind. near. 865  
 संमर n. battle. 727  
 संमर्पित् m. N. of Yama. 110  
 संमराय m. collection, multitude. 833  
 संमेत a. accompanied. 880  
 संमग्न a. all, whole. 838  
 संमाज m. assembly. 685  
 संमाजित m. member of an assembly. 685  
 संमाजा f. fame. 613  
 संमापि f. meditation. 631

समान *a* same, similar 863  
 समालूभन् *n* smearing 467  
 समाहार *m* collection 836  
 समिति *f* assembly 684  
 समिति *f* battle 729  
 समीक *n* battle 730  
 समीप *a* near 865  
 समीर *m* the wind 201  
 समीरण *m* the wind 201  
 समुदय *m* collection, multitude 832  
 समुद्रय *m* multitude, collection 833  
 समुद्र *m* sea, ocean 223  
 समुद्रास्ति *m* submarine fire 342  
 समुपायन *n* devotion 605  
 समूह *m* collection, group 830  
 समृद्ध *a* rich 758  
 समृद्धि *f* wealth 757  
 समृति *f* weath, 757  
 सम्पद *f.* wealth 757  
 सम्पूर्ण *a.* complete (tune) 587  
 सम्बव *m* man of the bhil tribe 800  
 सम्वर *m* god of love 60  
 सम्बुद्धि *f* calling 619  
 सम्मली *f* procuress 390  
 सम्यक् *n* truth 627  
 सम्भाज् *m* sovereign 678  
 सराणि *f* way 319  
 सरल *a* straight 848  
 सरस् *n* lake 251  
 सरसिङ् *n* lotus 257  
 सरसिरह *n* lotus 256  
 सरसी *f* lake 251  
 सरस्वत् *m* sea, ocean 224  
 सरस्वती *f* goddess of speech 3  
 सरित् *f* river 228  
 सरिष्टि *m* sea, ocean 223  
 सरीसूर *m* serpent 291  
 सरोज *n* lotus 256  
 सरोहू *n* lotus 255  
 सरोवर *m* lake 251  
 सर्व *m* creation 908  
 सर्व *m* serpent 290  
 सर्वारि *m* N of Garuda 194  
 सर्विंस् *n* clarified butter 763  
 सर्वसहा *f* the earth 212

सर्व *a* whole 838  
 सर्वश *m* supreme being 11  
 सर्वश *m* N of Siva 45  
 सर्वतोमुख *n* water 221  
 सर्वदेशाधिप *m* emperor 679  
 सर्वमङ्गला *f* N of Parvati 54  
 सर्वरस *m* salt 821  
 सर्वलितिर् *n*; impostor 667  
 सलिल *n* water 219  
 सवयस् *m* companion, friend 394  
 सवितृ *m* the sun 120  
 सवित्री *f* mother 379  
 सविद *a* near 866  
 सव्यसाचिर् *m* epithet of Arjuna 746  
 सहकार *m* mango tree 286  
 सहचर *m* friend 394  
 सहचरी *f* wife 374  
 सहचारिणी *f* female friend 395  
 सहज *m* brother 386  
 सहज *m* nature 528  
 सहस्रपत्र *n* lotus 256  
 सहस्रवदन *m* N of Siva 288  
 सहस्रांशु *m* the sun 124  
 सहस्राक्ष *m* epithet of Indra 78  
 सहित *a* accompanied 880  
 सहाय *m* brother 386  
 सांन्यासिक *m* hermit 665  
 सांवत्सर *m* astrologer 645  
 सागर *m* sea, ocean 223  
 सागराक्षसा *f* the earth 212  
 साटिका *f* petty coat 477  
 साटी *f* petty coat 477  
 सादिर् *m* horse man 710  
 सातु *m* ascetic 600  
 सातु *a* virtuous 805  
 सातु *a* good 856  
 सातुबाद *m* cry of approbation 613  
 सात्त्वस *n* fear, apprehension 540  
 सात्त्वी *f* virtuous or chaste woman 389  
 सातुमत् *m* mountain 216  
 सान्त्वन *n* conciliation 562  
 सान्द *a* thick, dense 871  
 सामयोनि *m* elephant 308  
 सामवेद *m* the Samaveda 648

सायक *m.* arrow. 719  
 सार *m.* truth. 635  
 सारङ्ग *m.* the bird Cātaka. 179  
 सारङ्ग *m.* deer. 300  
 सारथि *m.* charioteer. 710  
 सारमेष *m.* dog. 326  
 सारसन *n.* girdle. 463  
 सारसन *n.* military girdle. 712  
 सारि *m.* die. 791  
 सार्ववाह *m.* merchant. 750  
 सार्वभौम *m.* emperor. 679  
 साल *m.* the sāla-tree. 282  
 साहि *m.* king of foreigners. 738  
 सिंह *m.* lion. 302  
 सिंह *m.* lion. 916  
 सिंहाद्वा॒रा *f.* N. of Pārvatī. 56  
 सिंहासन *n.* royal throne. 683  
 सिंच *m.* garment. 469  
 सिञ्जिनी *f.* bow-string. 716  
 सिञ्जिनी *f.* anklet. 465  
 सित *a.* white. 823  
 सित *a.* bound, tied. 896  
 सित्यस्त्र *m.* swan. 191  
 सिता *f.* candied sugar. 772  
 सिति *a.* black. 826  
 सिताम्बुत *n.* white lotus. 259  
 सितोपल *f.* candied sugar. 772  
 सिद्ध *a.* accomplished. 881  
 सिद्धार्थ *m.* established truth. 636.  
 सिदि *f.* final beatitude. 657  
 सिन्धु *m.* sea, ocean. 223  
 सिन्धु *f.* river. 227  
 सिन्धुमेस्त्रा॒रा *f.* the earth. 214  
 सिन्धुर *m.* elephant. 308  
 सिन्धुसुत *m.* the moon. 137  
 सीता *f.* Sītā, wife of Rāma. 741  
 सीताराति *m.* N. of Rāma. 739  
 सीतु *m.* wine, liquor. 738  
 सीमन्त *m.* the parting line of the hair.  
     410  
 सीमन्तीनी *f.* woman. 365  
 सीमा *f.* boundary. 559  
 सीर *m.* plough. 774  
 सुकृपा॒रा *a.* tender. 852  
 सुहृत *m.* pious deed. 623

सुकैती *f.* N. of an apsaras. 96  
 सुख *n.* happiness. 523  
 सुखस्पद *a.* tender. 852  
 सुखासन *n.* swing. 315  
 सुगत *m.* epithet of Buddha. 13  
 सुगन्धि *m.* fragrance, perfume. 483  
 सुत *m.* son. 381  
 सुता *f.* daughter. 381  
 सुत्रमन् *m.* epithet of Indra. 78  
 सुवर्ण *f.* hall of Indra. 90  
 सुधा *f.* nectar. 87  
 सुधाकर *m.* the moon. 133  
 सुधामूर्ति *m.* god. 71  
 सुधिति *f.* axe. 726  
 सुधी *m.* learned man. 588  
 सुनासीर *m.* epithet of Indra. 79  
 सुन्दर *a.* beautiful. 853  
 सुन्दरी *f.* beautiful woman. 365  
 सुषण *m.* N. of Garuda. 193  
 सुपर्वेण् *m.* god. 71  
 सुभट *m.* hero. 696  
 सुम *n.* flower. 270  
 सुमनस् *m.* god. 71  
 सुमनस् *f. pl.* flowers. 270  
 सुर *m.* god. 69  
 सुरस्येष *m.* N. of Brahman. 18  
 सुरत *n.* sexual intercourse. 513  
 सुरधीयिका॒रा *f.* the Ganges. 231  
 सुरद्वित् *m.* demon. 113  
 सुरपति *m.* epithet of Indra. 82  
 सुरामि *f.* cow. 322  
 सुराभि *f.* fragrance. 483  
 सुरामं *m.* N. of Indra. 83  
 सुरलोक *m.* heaven. 75  
 सुरवर्मन् *n.* sky. 119  
 सुरा *f.* wine, liquor. 785  
 सुरा *m.* N. of an ocean. 911  
 सुराच्चाय *m.* epithet of Dhṛaspati. 148  
 सुराजीविन् *m.* distiller. 784  
 सुरालय *m.* heaven. 76  
 सुवर्ण *n.* gold. 343  
 सुविक्षित *m.* wise man. 592  
 सुषुपा *f.* devotion. 604  
 सुषमा *f.* beauty, lustre. 494  
 सुपिर *n.* wind-instrument. 577

स्मरण्यन् *m.* N. of a musical instrument. 575  
 स्मरण्यिदं *n.* the female organ. 441  
 स्मरारि *m.* N. of Siva. 48  
 स्मित *n.* smile. 518  
 स्मृति *f.* recollection. 550  
 स्मीर *n.* a full-blown flower. 274  
 स्पन्दन *m.* chariot. 314  
 स्मृति *f.* garland. 466  
 जगन्ती *f.* river. 228  
 खट्ट *m.* epithet of Brahman. 15  
 खोलस् *n.* bow. 237  
 खोतरिनी *f.* river. 228  
 खोतोवहा *f.* river. 229  
 स्व *n.* wealth. 351  
 स्वधिति *f.* axe. 726  
 स्वन *m.* sound. 640  
 स्वभाव *m.* nature. 528  
 स्वभू *m.* N. of Vishnu. 30  
 स्वयंभू *m.* N. of Brahman. 18  
 स्वरू *m.* heaven. 75  
 स्वरूप *n.* nature. 907  
 स्वर्ण *n.* heaven. 75  
 स्वर्ण *n.* gold. 343  
 स्वर्णकार *m.* goldsmith. 776  
 स्वर्णी *f.* the heavenly ganges. 231  
 स्वर्णितु *m.* N. of Rahu. 131  
 स्वस *f.* sister. 387  
 स्वधेयस् *n.* welfare. 659  
 स्वादु *a.* sweet. 819  
 स्वादु *m.* N. of an ocean. 911  
 स्वाध्याय *m.* study. 638  
 स्वान्त *n.* the mind. 402  
 स्वाप *m.* sleep. 541  
 स्वाप्तेष *n.* wealth. 352  
 स्वामिन् *m.* N. of Karttikeya. 67  
 स्वामिन् *m.* lord. 680  
 स्वास्थ्य *n.* satisfaction. 522  
 स्वाहापति *m.* fire. 339  
 स्वेद *m.* sweat. 547  
 स्वैरिणी *f.* unchaste woman. 392

## E

इंस *m.* N. of Brahma's vahana. 20  
 इंस *m.* the sun. 126

इंस *m.* swan. 191  
 इंस *m.* the individual soul. 401  
 हंसक *n.* anklet. 465  
 हंसयात्रा *f.* N. of Sarasvati. 4  
 हड *m.* market-place. 751  
 हड *m.* pride. 534  
 हनूमत् *m.* Hanumat, son of Wind. 206  
 हनूमन् *m.* Hanuman. 748  
 हय *m.* horse. 311  
 हर *m.* N. of Siva. 39  
 हरिश्चत्ता *f.* N. of Ganges. 233  
 हरि *m.* N. of Visnu. 22  
 हरि *m.* N. of Indra. 84  
 हरि *m.* the sun. 126  
 हरि *m.* lion. 302  
 हरिचन्दन *m.* N. of a heavenly tree. 97  
 हरिचन्दन *n.* a kind of yellow sandal. 289  
 हरिण *m.* deer. 300  
 हरित *m.* quarter. 168  
 हरित *a.* green. 825  
 हरिदय *m.* the sun. 126  
 हरिदाम *a.* yellow. 825  
 हरिपनी *f.* N. of Lakshmi. 50  
 हरिपूर्ण *n.* one of the nine divisions of the earth. 912  
 हरिहर *m.* Indra. 86  
 हर्ष *n.* house. 498  
 हर्षस *m.* lion. 302  
 हर्ष *m.* joy. 519  
 हल *m.* plough. 774  
 हल *m.* call. 619  
 हलन *n.* sacrifice. 671  
 हविधान *n.* kind of sacred food. 765  
 हविस *n.* clarified butter. 763  
 हव्यवाद *m.* fire. 334  
 हस्त *n.* laughter. 518  
 हस्ति *n.* full-blown flower. 275  
 हस्ति *n.* laughter. 518  
 हस्त *m.* hand. 428  
 हरितरू *m.* elephant. 306  
 हस्तिपक *m.* elephant-driver. 709  
 हाटक *n.* gold. 344  
 हात्यन *m.* year. 166

हार *m* necklace of pearls 457  
 हारि *a* pleasing, charming 855  
 हालाहल *m* poison 298  
 हात *m* pleasure 520  
 हाथ *m* laughter 514  
 हासिका *f* laughter 518  
 हास्य *n* laughter 518  
 हास्य *m* N of a sentiment 582  
 हाहा *m* N of a Gandharva 88  
 हित *n* welfare 526  
 हिन्दोल *m* swing 870  
 हिम *a* cold 144  
 हिमशुति *m* the moon 136  
 हिमवत् *m* N of a mountain 914  
 हिमवत्सुता *f* N of Pārvati 51  
 हिमालय *f* camphor 486  
 हिमाशु *m* the moon 132  
 हिमालय *m* N of a mountain 217  
 हिरण्य *n* one of the nine divisions of the earth 914  
 हिरण्य *n* gold 343  
 हिरण्यगर्भ *m* epithet of Brahman 16  
 हिरण्यरेतस् *m* fire 337  
 हृष्ण *m* ram 329  
 हृतभूम् *m* fire 335  
 हृतवृह *m* fire 334

हृताशन *m* fire 333  
 हृति *f* name 619  
 हृष्ण *m* N of a Gandharva 88  
 हृत्युप *m* god of love 63  
 हृद *n* bosom, breast 433  
 हृदय *n* mind 402  
 हृदय *n* bosom, breast 433  
 हृष्ण *a* pleasing, charming 856  
 हृत्याका *f* anxiety 549  
 हृषीक *n* organ of sense 399  
 हृषीकेश *m* N of Viṣṇu 27  
 हृति *f* flame 897  
 हृति *m f* weapon 714  
 हृतु *m* cause 643  
 हृष्मन् *n* gold 343  
 हृष्म्य *m* epithet of Ganeśa 7  
 हृषिक *m* spy 690  
 हृषि *m* the sun 126  
 हृष्ट्र *n* sacrifice 671  
 हृष्टम *m* sacrifice 671  
 हृदिनी *f* river 228  
 हृत्व *a* short 844  
 हृदिनी *f* lightning 177  
 हृषी *f* bashfulness 517  
 हृष्ट *m* joy 519

### Homonymous Words

गो *m f* quarter, 925, the eye, ray of light, region of the sky, thunderbolt, speech, arrow, water, 926, the earth, cattle 927

गारु *m* lute, elephant, horse, lion, deer, god of love, coral, garment, 916, moon, cītska bird large black bee, cloud, bow, sword (?) thunderbolt, earth, 917, crane, cuckoo, peacock, parrot, eagle? gold wind, the sun, darkness, 918, gūḍī seed, Bilva fruit, lotus, light, chalk, 919

हरि *m* lion, monkey, parrot, Harihara, gold, N of Parasurāma, 920, moon, star, Sukra, king, horse, taking away? वर्ण? yama, quick-silver, 921, elephant, वर्ण? wind, fire, N of Karttikeya, Indra, snake, 922, the sun, thunderbolt, N of Siva, day, sword, 923, the sun, monkey frog Viṣṇu, Indra, wind, 924, horse lion, moon, yama, 924